



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4
PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 26, 1982/माघ 6, 1903
No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 26, 1982/MAGHA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
copy/तक

रक्षा मंत्रालय

बल सेना विभाग

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1982

सं० 1 ई विभांक 23 जनवरी 1982—राष्ट्रपति सहर्ष गगनंत विषय (26 जनवरी, 1982) के अवसर पर निम्नलिखित जे मा घो को सेना
नियमावली 1962 के पैरा 178 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करते हैं —

7 केवलरी

अवैतनिक कैप्टन के एक में

1. जे सी 70797 एक

रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट

सुमेर सिंह

63 केवलरी

2. जे सी 24673 एन

रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट

तरलोचन सिंह

65 आर्माड रेजीमेंट

3. जे सी 73530 एक्स

रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट

धर्म सिंह भाजाव

61 आर्माड रेजीमेंट

4. जे सी 33274 एल

रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट

राम चन्वर यादव

66 आर्माड रेजीमेंट

5. जे सी 32607 ए

रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट

मोहम्मद अयुब खान, भीर बक

बी पंजाब रेजीमेंट

54. जे सी 54980 ए	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	काबल सिंह
55. जे सी 33209 एन	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	मोहित्वर सिंह, महावीर चक्र
56. जे सी 38219 आई	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	पदम सिंह

बी मद्रास रेजीमेंट

57. जे सी 40662 एन	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	बी पी लक्ष्मणन
--------------------	-------------------------------------	----------------

बी प्रिन्सिपल्स

58. जे सी 37761 ए व	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	हासिम खां
59. जे सी 78692 एन	सूबेदार व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	भरत सिंह

बी राजपूताना राइफल्स

50. जे सी 53291 एम	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	कपिलदेव सिंह
61. जे सी 35262 पी	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	महालाय सिंह
62. जे सी 35346 ए व	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	रघुवीर सिंह

बी राजपूत रेजीमेंट

63. जे सी 41888 ए व	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम जन्म सिंह
64. जे सी 34722 आई	"	राम सिंह

बी आर रेजीमेंट

65. जे सी 37773 एक्स	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	धर्म सिंह, जीर्ण चक्र
66. जे सी 35921 आई	"	प्यारे लाल
67. जे सी 58385 एक्स	सूबेदार व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	बया नन्ध, कीर्ति चक्र
68. जे सी 58169 ए	"	राम नारायण

बी सिख रेजीमेंट

69. जे सी 28606 एक	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	दलजीत सिंह
70. जे सी 40621 एक	"	गुरचरन सिंह
71. जे सी 48032 ए	"	महान सिंह
72. जे सी 34752 डब्ल्यू	"	रघवीर सिंह

बी सिख लाइट इन्फैण्ट्री

73. जे सी 38617 ए	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिलबाग सिंह
74. जे सी 32460 पी	"	हरी सिंह
75. जे सी 37789 ए व	"	करम सिंह
76. जे सी 37692 के	"	करतार सिंह
77. जे सी 39934 एन	"	मलकीत सिंह

बी डोगरा रेजीमेंट

78. जे सी 34615 एक्स	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	* हरी चन्द
79. जे सी 37570 एन	"	कुमाल चन्द
80. जे सी 72509 ए व	सूबेदार व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	लाल सिंह

बी गढ़वाल राइफल्स

81. जे सी 42493 एन	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	गिरजा नन्ध बहुबन्धी
82. जे सी 41389 एन	"	शंकर सिंह रावत

बी कुमाऊं रेजीमेंट

83. जे सी 76247 पी	सूबेदार व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	मोहन सिंह
--------------------	--------------------------------	-----------

बी महार रेजीमेंट

84. जे सी 32564 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लैफ्टिनेंट	भिवारन चम्पौर, बीर चक्र
85. जे सी 35642 एन	"	बाबाराव बोडेस्वर, बीर चक्र
86. जे सी 35373 एम	"	सहदेव कपारी

બી ઝમ્મુણ્ડ કામ્મોર રાઈફલ્સ

87. જે સી 20783 એલ	સૂબેદાર મેજર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	મમર સિહ
88. જે સી 26666 ડબ્લ્યુ	"	માન વન્ન

બી લલાલ કામ્મોર

89. જે સી 25948 એલ	સૂબેદાર મેજર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	છેરિયુ સ્ટોબન
--------------------	-----------------------------------	---------------

બી મેકેનાઈઝ્ડ ફાઈફ્થી રાઈફલ્સ

90. જે સી 39238 કે	સૂબેદાર મેજર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	ગુરજરન સિહ
91. જે સી 32917 એલ	"	માન સિહ, શૌર્ય વન્ન
92. જે સી 39259 એમ	"	મોહિન્દર સિહ
93. જે સી 36137 એક્સ	"	પરિયાગ સિહ
94. જે સી 27831 એલ	"	રાજે સિહ રાવત
95. જે સી 35358 એક્સ	"	રામ પ્રસાદ પુરોહિત

બી ગોરલા રાઈફલ્સ

96. જે સી 41934 એમ	સૂબેદાર મેજર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	પ્રેમ વહાબુર મલે
--------------------	-----------------------------------	------------------

બી ગોરલા રાઈફલ્સ

97. જે સી 49512 ડબ્લ્યુ	સૂબેદાર મેજર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	માવ વેવ શર્મા
-------------------------	-----------------------------------	---------------

ધાર્મી સબિસ કોર (સપ્લાઈ)

98. જે સી 52463 કે	સૂબેદાર મેજર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	હમ્બર સિહ
99. જે સી 29725 એલ	"	ત્રિલોકી નાથ પંથિ
100. જે સી 50286 ડબ્લ્યુ	"	વડય નારાયણ રાય

ધાર્મી સબિસ કોર (મેકેનિકલ ટ્રાંસપોર્ટ)

101. જે સી 43501 એન	સૂબેદાર મેજર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	મલબંત સિહ
102. જે સી 43363 એક્સ	"	ધૂપ સિહ
103. જે સી 42995 ડબ્લ્યુ	"	બિકા રામ
104. જે સી 42670 એલ	"	વર્સન સિહ
105. જે સી 43462 એ	"	ગુરુદેવ સિહ સિધુ
106. જે સી 43357 કે	"	જગવીશ વન્ન મટ્ટાજી
107. જે સી 43367 એન	"	સાધ રામ
108. જે સી 42025 એન	"	સવુલ્લા ધાન
109. જે સી 43422 વાઈ	"	મરયામ સિહ

ધાર્મી મેકેનિકલ કોર

110. જે સી 54404 ડબ્લ્યુ	સૂબેદાર મેજર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	મીતાર સિહ
111. જે સી 45185 વાઈ	"	ગુરુદીપ સિહ
112. જે સી 63644 પી	"	રત્નબીર સિહ
113. જે સી 48236 એક્સ	"	સુરેન્દ્ર સિહ, એસ એમ
114. જે સી 45182 એલ	"	વધન સિહ
115. જે સી 77830 ડબ્લ્યુ	સૂબેદાર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	જાલિન્દર વેશમુન્ડ
116. જે સી 77832 એલ	"	કરમ સિહ ગરહિયા
117. જે સી 76998 ડબ્લ્યુ	"	મહાદેવ પાટિલ
118. જે સી 48025 કે	"	સુધીર કુમાર મન્ન

ધાર્મી ધાર્મિક કોર

119. જે સી 72231 એમ	સૂબેદાર મેજર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	મોહિન્દ સિહ
120. જે સી 49316 ડબ્લ્યુ	"	કિશન વન્ન
121. જે સી 46674 ડબ્લ્યુ	"	માધવ વીવાને
122. જે સી 57149 એ	"	સર્વે કૈલાશપતી શર્મા
123. જે સી 65726 ડબ્લ્યુ	સૂબેદાર વ ધર્મતનિક લૈફ્ટનન્ટ	મન્દી પ્રસાદ મુન્ડાકોટી
124. જે સી 64415 ડબ્લ્યુ	"	મવાલ સિહ
125. જે સી 64396 ડબ્લ્યુ	"	સુરજ ધાન

कोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स

126.	जे सी 28877 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	असर सिंह
127.	जे सी 33896 के	"	हेम राज सिंह
128.	जे सी 33937 एल	"	जोगिन्दर सिंह सैनी
129.	जे सी 36302 एक्स	"	कसतूरी लाल शर्मा
130.	जे सी 33934 ए	"	केवल सिंह
131.	जे सी 33935 ए	"	खयाली राम पान्हे
132.	जे सी 45979 के	"	माधवन नायर के
133.	जे सी 38783 एम	"	परमारमा सिंह
134.	जे सी 38963 डब्ल्यू	"	भार मुनिअप्पा
135.	जे सी 38705 डब्ल्यू	"	राम प्रकाश
136.	जे सी 38696 एम	"	सन्ना राम
137.	जे सी 33897 पी	"	साधु सिंह
138.	जे सी 54560 ए	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजीत सिंह
139.	जे सी 56594 एम	"	दीनबन्धु महाराणा

धार्मी एजुकेशन कोर

140.	जे सी 21332 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	वीरान सिंह
141.	जे सी 46504 एम	"	लाल सिंह गुलेरिया
142.	जे सी 21319 एम	"	भोम प्रकाश
143.	जे सी 34144 पी	"	उमा शंकर जोशी

बी इलेक्ट्रिशियन कोर

144.	जे सी 35758 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जरनैस सिंह
145.	जे सी 43918 एम	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ब्रह्म प्रकाश
146.	जे सी 43920 एल	"	हरबीर सिंह तोमर
147.	जे सी 41692 पी	"	पुष्कर सिंह बिष्ट

कोर ग्राफ मिलिटरी पुलिस

148	जे सी 44903 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	वासन भाह
-----	------------------	-----------------------------------	----------

डिफेंस सिक्विटो कोर

449.	जे सी 11715	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कली राम
------	-------------	-----------------------------------	---------

अवैतनिक लैफ्टिनेंट को रैंक में**8 केवलरी**

1.	जे सी 70284 एम	रिसालदार	सरमूख सिंह
----	----------------	----------	------------

1 होर्स

2.	जे सी 43698 पी	रिसालदार	जंगवीर सिंह
3.	जे सी 73528 ए	रिसालदार	कुल सिंह भाकर

14 होर्स

4.	जे सी 69871 एल	रिसालदार मेजर	गुरनाम सिंह
----	----------------	---------------	-------------

4 होर्स

5.	जे सी 62000 एम	रिसालदार मेजर	सरवन सिंह
----	----------------	---------------	-----------

20 लाईंस

6.	जे सी 67428 एम	रिसालदार	माता बीन
----	----------------	----------	----------

61 केवलरी

7.	जे सी 37636 एम	रिसालदार मेजर	फतेह मोहम्मद खान, बी एम एम
----	----------------	---------------	----------------------------

45 केवलरी

8.	जे सी 38367 के	रिसालदार मेजर	बिक्रम राव
----	----------------	---------------	------------

64 ફેબ્રુઆરી

9.	જે સી 48730 એચ	રિસાલવાર મેજર	મલબીર સિંહ
10.	જે સી 65213 એફ	રિસાલવાર	ચૈન સિંહ
11.	જે સી 77937 એલ	રિસાલવાર	ગુરજન સિંહ

65 પ્રાઈમરી રેજીમેન્ટ

12.	જે સી 44720 એફ	રિસાલવાર મેજર	મજરંગ સિંહ
-----	----------------	---------------	------------

68 પ્રાઈમરી રેજીમેન્ટ

13.	જે સી 54771 એચ	રિસાલવાર	રામ ચંદર સિંહ
-----	----------------	----------	---------------

71 પ્રાઈમરી રેજીમેન્ટ

14.	જે સી 60400 ડબ્લ્યુ	રિસાલવાર મેજર	મોહિન્દર સિંહ
-----	---------------------	---------------	---------------

84 પ્રાઈમરી રેજીમેન્ટ

15.	જે સી 70204 કે	રિસાલવાર	સુરજનાથ સિંહ
-----	----------------	----------	--------------

89 પ્રાઈમરી રેજીમેન્ટ

16.	જે સી 63877 કે	રિસાલવાર	ગુરજન સિંહ
-----	----------------	----------	------------

90 પ્રાઈમરી રેજીમેન્ટ

17.	જે સી 72852 એલ	રિસાલવાર	ધોર સિંહ
-----	----------------	----------	----------

પ્રાઈમરી કોર્પ્સ

18.	જે સી 87016 બાઈ	રિસાલવાર	ધાતમા સિંહ
19.	જે સી 87817 એ	રિસાલવાર	હરી ચંદ
20.	જે સી 79786 ડબ્લ્યુ	રિસાલવાર	પ્રીતમ સિંહ

રેજીમેન્ટ ગ્રાફ ઓફિસરી

21.	જે સી 24285 એચ	સુબેદાર મેજર	એ કેસરન
22.	જે સી 25894 એમ	"	મલબેચ વત
23.	જે સી 32810 ડબ્લ્યુ	"	બી પલાની ચામી
24.	જે સી 45490 એલ	"	ચતુ પાટિલ
25.	જે સી 62114 એન	"	કુર્ગી સિંહ
26.	જે સી 41015 એક્સ	"	બી બેલાપ્પન નાયર
27.	જે સી 40278 કે	"	હરી સિંહ
28.	જે સી 31023 એચ	"	હરનારાયણ સિંહ
29.	જે સી 27052 એ	"	દેવર સિંહ
30.	જે સી 42985 એમ	"	જગવીશ સિંહ
31.	જે સી 32281 એફ	"	જયપાલ સિંહ
32.	જે સી 45424 એચ	"	કે કમ્પુકુટન નાયર
33.	જે સી 33277 બાઈ	"	કે પી પરમેશ્વરા કુરુપ
34.	જે સી 47938 બાઈ	"	લક્ષ્મી સિંહ
35.	જે સી 45483 પી	"	લક્ષ્મી રામ
36.	જે સી 25868 એલ	"	એમ બી પુન્નપ્પા
37.	જે સી 45386 એક્સ	"	માનિકરાય વખાર
38.	જે સી 45467 એક્સ	"	નિત્યા નન્દ યાચન
39.	જે સી 33289 એક્સ	"	વેરિયાસ્વામી
40.	જે સી 25833 પી	"	રામ ચિન્ત યાચન
41.	જે સી 25881 પી	"	રામ કરન
42.	જે સી 32797 એક્સ	"	બીરપાલ સિંહ
43.	જે સી 25794 એફ	"	સીસ રાય
44.	જે સી 45468 એ	"	સુરજ ધાન
45.	જે સી 41003 એચ	"	બી દન નાથકરન
46.	જે સી 86735 કે	સુબેદાર	ચ કુળ્લા મુધિ

47.	जे सी 73421 एल	सूबेदार	भवतार सिंह
48.	जे सी 73552 डब्ल्यू	"	भवतार सिंह
49.	जे सी 76283 ए	"	बिक्रम सिंह
50.	जे सी 74764 एल	"	बहादुर सिंह
51.	जे सी 74324 ए	"	धरम पाल
52.	जे सी 76860 एफ	"	ई के रामाकृष्ण पिल्लै
53.	जे सी 80358 एच	"	हाकम सिंह
54.	जे सी 74322 पी	"	हरफुल सिंह राव
55.	जे सी 73550 एल	"	जाल सिंह
56.	जे सी 72595 बार्ड	"	कंवर सिंह
57.	जे सी 78420 एम	"	करमेल सिंह
58.	जे सी 72155 एल	"	केवस सिंह
59.	जे सी 62580 एच	"	किशन सिंह
60.	जे सी 74797 बार्ड	"	एम प्रोफिया स्वामी
61.	जे सी 68808 एल	"	एम धी ओसेफ
62.	जे सी 62827 बार्ड	"	मोहन सिंह
63.	जे सी 64135 एच	"	नाथरुडा के उद्यप्पा
64.	जे सी 62122 एम	"	प्रोकार सिंह कटोथ
65.	जे सी 73648 बार्ड	"	पी बी गंगाधरन
66.	जे सी 69721 पी	"	रामचन्दर
67.	जे सी 51298 एक्स	"	राम कवर
68.	जे सी 72086 ए	"	टी ए प्रचुपन
69.	जे सी 78217 डब्ल्यू	"	उदय बीर सिंह
70.	जे सी 70809 एल	"	वासुदेवन के सी

भद्रास इंडीमियर ग्रुप

71.	जे सी 34258 ए	सूबेदार मेजर	कुप्युस्वामी, बी एस एम
72.	जे सी 34369 एक्स	"	एस भाविमूलम
73.	जे सी 19639 के	"	टी मारकाडन
74.	जे सी 49057 बार्ड	"	बी आई पोथन
75.	जे सी 66208 एच	(सूबेदार)	दमोदरम
76.	जे सी 57349 डब्ल्यू	सूबेदार	के के उन्नी नायर
77.	जे सी 66218 एम	"	कालीमुथू
78.	जे सी 57374 पी	"	एन प्रचुपन नायर
79.	जे सी 57357 पी	"	पी उन्नी
80.	जे सी 66140 एम	"	आर जी चिन्नाकशू
81.	जे सी 63624 एल	"	राधाकृष्णन सी
82.	जे सी 55505 डब्ल्यू	"	राघवन टी के
83.	जे सी 60780 ए	"	एस कृष्णन

बंगाल इंडीमियर ग्रुप

84.	जे सी 36123 एक्स	सूबेदार मेजर	गज्जन सिंह
85.	जे सी 51898 पी	"	इन्द्रदेव पाण्डे
86.	जे सी 42127 के	"	महेन्द्र सिंह
87.	जे सी 44540 बार्ड	"	मालदेव सिंह
88.	जे सी 44533 एच	"	मुटक सिंह
89.	जे सी 45260 एक्स	"	नरेन्द्र सिंह प्रसन्न
90.	जे सी 35681 एम	"	परकाश सिंह
91.	जे सी 26500 पी	"	आर बालाकृष्णन नायर
92.	जे सी 48088 ए	"	राम प्रकाश सिंह
93.	जे सी 38076 के	"	सुखदेव सिंह
94.	जे सी 74841 एक्स	सूबेदार	धामस्य सिंह रायत
95.	जे सी 69568 के	"	चन्नन सिंह
96.	जे सी 70775 एच	"	बीमान सिंह
97.	जे सी 48177 एल	"	बीमा नाथ

98.	જે સી 59774 એ	સૂબેદાર	ગજિન્દ્ર સિંહ મંઝારી
99.	જે સી 74830 એલ	"	ગોપાલ દાસ
100.	જે સી 61668 એ	"	ગુરચેવ સિંહ
101.	જે સી 66745 એન	"	ગુરનામ સિંહ
102.	જે સી 51838 એલ	"	હુરી સિંહ
103.	જે સી 76763 કે	"	હીમ ઘઠાપુર
104.	જે સી 53927 એચ	"	મહાબીર સિંહ
105.	જે સી 63077 એક્સ	"	પ્યારા સિંહ
106.	જે સી 75369 એમ	"	પ્રેમ સિંહ
107.	જે સી 74444 વાઈ	"	રામ કંવર
108.	જે સી 74633 એચ	"	શમશેર સિંહ
109.	જે સી 74636 ડબ્લ્યુ	"	શિવ ચરણ
110.	જે સી 69967 એન	"	શિવ રતન
111.	જે સી 55493 એમ	"	સુરજીત સિંહ
112.	જે સી 77702 વાઈ	"	લીરચ સિંહ
113.	જે સી 50416 એન	"	કુમા શંકર સિંહ
114.	જે સી 69567 એફ	"	વિદ્યા વત્ત

બીલ્ડે હંજીમિયર ઘુપ

115.	જે સી 33703 એફ	સૂબેદાર મેજર	ધોન્ડૂ સકપાલ
116.	જે સી 27762 એક્સ	"	હુકમ ચન્ન
117.	જે સી 33689 એ	"	પાન્હૂરંગ મોરે
118.	જે સી 33696 ડબ્લ્યુ	"	શેઠ યુસુફ-ઉડ્-દીન
119.	જે સી 70867 વી	સૂબેદાર	બાબૂ મહાબદી
120.	જે સી 47689 એલ	"	ચલદેવ સિંહ
121.	જે સી 70942 એન	"	ધીવાલ સિંહ
122.	જે સી 72880 એક્સ	"	નણપતિ તિવિલે
123.	જે સી 47670 એમ	"	ગુરવિયાલ સિંહ
124.	જે સી 48537 ડબ્લ્યુ	"	મલકીયત સિંહ
125.	જે સી 66305 એ	"	મોહિચર સિંહ
126.	જે સી 60433 એફ	"	પ્રતાપ સાબંત
127.	જે સી 70933 એમ	"	પ્રીતમ સિંહ
128.	જે સી 70935 એક્સ	"	પ્રીતમ સિંહ
129.	જે સી 70934 વી	"	શાન્તારામ સુરબે

કોર બ્રાફ સિગનલ્સ

130.	જે સી 42056 એન	સૂબેદાર મેજર	બધિસર સિંહ
131.	જે સી 59833 એફ	"	સી ઝમીકુળન
132.	જે સી 60651 એ	"	ગોપી ચન્ન
133.	જે સી 60214 એ	"	ગુમન સિંહ
134.	જે સી 48216 વાઈ	"	ગુરચંપન સિંહ
135.	જે સી 52059 વી	"	ગુરચેવ સિંહ
136.	જે સી 37262 એન	"	ગુરસીત સિંહ
137.	જે સી 56174 એમ	"	હસ્ત રાજ સિંહ
138.	જે સી 69857 એલ	"	હરગોવિન્દ પાઠક
139.	જે સી 32125 એલ	"	હરિન્સ ધુબે
140.	જે સી 37293 એન	"	જગજીત સિંહ
141.	જે સી 64737 ડબ્લ્યુ	"	કેહર સિંહ
142.	જે સી 59856 એચ	"	કુલાનન્દ શર્મા
143.	જે સી 42054 એચ	"	માન સિંહ
144.	જે સી 52796 ડબ્લ્યુ	"	માસ્તા સિંહ
145.	જે સી 36736 એચ	"	મુષત્યાર સિંહ
146.	જે સી 48212 એચ	"	પરતાપ સિંહ
147.	જે સી 59835 એમ	"	પ્રીતમ સિંહ હાપર
148.	જે સી 52141 કે	"	બાર ગોપાલા પિલ્લી

149	जे सी 52770 एक	सूबेदार	भार भार राजपूत
150	जे सी 53204 एन	"	राम प्रकाश
151	जे सी 60212 पी	"	सरय स्वर्ण सिंह
152	जे सी 60218 डब्ल्यू	"	सोहन सिंह
153	जे सी 48218 के	"	उपेन्द्र प्रपाटी
154	जे सी 52847 बार्ड	"	वर्याम सिंह
155	जे सी 71155 बार्ड	"	विधी जन्म
156	जे सी 75994 एन	"	वरनजीत लाल
157	जे सी 72937 एक	"	वनी राम शर्मा
158	जे सी 71157 के	"	हृषा सिंह
159	जे सी 55146 एन	"	जनक राज
160	जे सी 74052 एन	"	प्रो विस्मयवर
161	जे सी 71190 एक	"	सुशील रंजन चौध

बी जिनेड आफ बी गार्ड्स

162.	जे सी 58398 एम	सूबेदार मेजर	गोविन्द गायकवाड
163.	जे सी 67538 एन	सूबेदार	चिरन्जी लाल
164.	जे सी 58605 एम	"	अजाम सिंह
165.	जे सी 68522 पी	"	मंगल सिंह
166.	जे सी 66204 एम	"	भुशी राम
167	जे सी 81185 के	"	राम प्रभाव शर्मा

बी पी राफूट रेजीमेंट

168.	जे सी 30750 एन	सूबेदार मेजर	बिशन सिंह
169.	जे सी 24782 ए	"	अम्बु सिंह रावत
170.	जे सी 47096 बार्ड	"	राम अवध पाण्डे
171.	जे सी 45866 एक	सूबेदार	मनी राम

बी पंजाब रेजीमेंट

172.	जे सी 40425 एक	सूबेदार मेजर	शंगारा सिंह
173.	जे सी 64003 एक	सूबेदार	बलदेव सिंह
174.	जे सी 66040 एक	"	वशीन सिंह
175.	जे सी 58536 एक	"	गोबर्धन जन्म कटोच
176.	जे सी 48545 पी	"	गुरदेव सिंह
177.	जे सी 72974 पी	"	काबल सिंह
178.	जे सी 47587 पी	"	परताप सिंह
179.	जे सी 67171 बार्ड	"	राम लाल
180	जे सी 46611 एन	"	शेर सिंह
181	जे सी 53873 एम	"	शेर सिंह
182	जे सी 50166 एक	"	सुवर्शन कुमार

बी ब्रह्मस रेजीमेंट

183	जे सी 17167 ए	सूबेदार मेजर	पी बालारामन नन्धियार
184	जे सी 44873 एन	"	एस हस्तेस
185	जे सी 38592 बार्ड	"	टी गोपाल कृष्णा
186	जे सी 63984 एक	सूबेदार	गनेसन
187	जे सी 51148 के	"	कुमारन एमुयचन
188	जे सी 49287 एम	"	एम संकरन नायर
189	जे सी 65860 एक	"	टी एम डेनियल
190	जे सी 46490 एक	"	विक्टर डेविड

बी प्रिन्सिपल

191	जे सी 47339 बार्ड	सूबेदार मेजर	हम्बर सिंह
192	जे सी 16109 के	"	सोहन राम
193	जे सी 46588 एन	"	रमधीर सिंह
194	जे सी 48170 पी	सूबेदार	वशी राम

196	जे सी 68129 एन	सूजेवार	बुद्ध राम
196	जे सी 50008 एक्स	"	बुद्धी लाल
197	जे सी 72123 एच	"	राम धन
198	जे सी 36186 ए	"	रामू लाल

बी मराठा लाईट इंफेन्ट्री

199	जे सी 42309 एक्स	सूजेवार मेजर	वाजी सावंत
200	जे सी 37625 एम	"	बनयेनेश्वर गोरे
201	जे सी 36538 एम	"	गोपाल बंगले
202	जे सी 28054 एक्स	"	नामाजीराव कवस
203	जे सी 26582 एच	"	पांडुरंग माने
204	जे सी 17115 के	"	रघुनाथ सिरकै
205	जे सी 32999 बार्ड	"	रामचंवर जगवाने
206	जे सी 35636 ए	"	बसंत जवन
207	जे सी 39054 एक्स	"	योगराज धाकरे
208	जे सी 65048 एफ	सूजेवार	भार्गवराव माने
209	जे सी 44023 एफ	"	गनपति पांडुरंग नमिल
210	जे सी 47428 एक्स	"	जगदीश लंगड
211	जे सी 65047 बार्ड	"	पांडुरंग लंगड
212	जे सी 50025 एच	"	राजाराम कवस
213	जे सी 590056 एच	"	राम चंवर सोनारे
214	जे सी 74850 बार्ड	"	संभाजी बल्लु धिडे
315	जे सी 54721 एक्स	"	श्रीरंग भिकम

बी राजपूताना राइफल

216	जे सी 41357 एम	सूजेवार मेजर	भंवर सिंह
217	जे सी 49580 के	"	कुम्हन सिंह राठौर
218	जे सी 45726 एम	"	माणू सिंह
219	जे सी 24438 पी	"	रघबीर सिंह
220	जे सी 60302 डबल्यू	"	रघबीर सिंह
221	जे सी 48030 पी	"	सैयद अकरम आरिफ भाबदी
(रिजिबियस टीयर)			
222	जे सी 78575 एफ	सूजेवार	गजे सिंह
228	जे सी 73003 डबल्यू	"	गया सिंह
224	जे सी 68142 डबल्यू	"	होशियार सिंह
225	जे सी 53691 एच	"	मिट्ठन सिंह
226	जे सी 50573 एम	"	फूल सिंह
227	जे सी 78384 एम	"	फूल सिंह राम
228	जे सी 61928 ए	"	राम धौतार गुप्ता
229	जे सी 70900 एफ	"	रामचंवर राम
230	जे सी 80019 के	"	राम कुमार
231	जे सी 6532 8पी	"	रूप सिंह
232	जे सी 49299 एफ	"	तीरधरराज सिंह

बी राजपूत रेजीमेंट

233	जे सी 19964 के	सूजेवार मेजर	माणू सिंह
234	जे सी 36026 ए	"	रती राम
235	जे सी 37978 एम	"	सरब देव तिवारी
236	जे सी 35594 बार्ड	"	सायर सिंह
237	जे सी 39182 पी	"	शिवराज सिंह
238	जे सी 28347 एच	"	उमर खान
239	जे सी 20903 बार्ड	"	उमराव सिंह
240	जे सी 54384 एन	सूजेवार	धरमर सिंह
241	जे सी 50124 एम	"	भगवान सहाय
242	जे सी 55836 एक्स	"	बल्ले राम
243	जे सी 71525 एन	"	वीरान सिंह गरिया

244	જે સી ૭૩૭૨૬ એક્સ	સૂબેબાર	ગિરરાજ સિંહ
245	જે સી 59239 એ	"	હરી સિંહ
246	જે સી 4૭૩45 એ	"	કરમ સિંહ
247	જે સી ૭૭૭૩૭ કે	"	કૌશલ પ્રતાપ સિંહ
248	જે સી 45634 એ	"	પંચા નન્દ સિંહ
249	જે સી 56408 એ	"	રામ ભાસ સિંહ
250	જે સી 59018 એ	"	રામ સિંહ, એસ એમ
251	જે સી 35529 બાઈ	"	રૂપ શાલ
252	જે સી 77484 એ	"	શીતલ સિંહ
253	જે સી 58685 વી	"	બીરેન્દ્ર સિંહ

વી જાટ રેજીમેન્ટ

254	જે સી 37771 એમ	સૂબેબાર મેજર	વલીપ સિંહ
255	જે સી 43908 કે	"	ગોપી ચન્દ
256	જે સી 36248 વી	"	પરતાપ સિંહ
257	જે સી 55481 એક્સ	સૂબેબાર	બિરબી ચન્દ
258	જે સી 73680 એ	"	વયા રામ
259	જે સી 79453 કે	"	ધરસી રામ
260	જે સી 63804 કે	"	હેત રામ
261	જે સી ૭૭502 એફ	"	જબાહર સિંહ
262	જે સી 58168 એ	"	કરમ સિંહ
263	જે સી 77486 ડબ્લ્યુ	"	નાહર સિંહ
264	જે સી 68503 કે	"	નારાયણ સિંહ
265	જે સી 55945 કે	"	રૂપ ચન્દ
266	જે સી ૭૭447 ડબ્લ્યુ	"	સમય સિંહ
267	જે સી 66990 ડબ્લ્યુ	"	સુરજ મલ
268	જે સી 61 878 એ	"	તેજ રામ

વી સિલ્હ રેજીમેન્ટ

269	જે સી 20152 એ	સૂબેબાર મેજર	વર્મા સિંહ
270	જે સી 35895 એ	"	હરબન્સ સિંહ
271	જે સી 45635 એ	"	જોગિન્દ્ર સિંહ
272	જે સી 51230 ડબ્લ્યુ	"	કરમલ સિંહ
273	જે સી 35882 એ	"	મોહિન્દ્ર સિંહ
274	જે સી 34746 એ	"	મોહિન્દ્ર સિંહ
275	જે સી 37038 એફ	"	વ્યારા સિંહ
276	જે સી 44373 એ	"	મરખન સિંહ
277	જે સી 72517 એફ	સૂબેબાર	વર્મા સિંહ
278	જે સી 54852 એ	"	વેબેન્દ્ર સિંહ
279	જે સી 76503 બાઈ	"	હરમન્દન સિંહ
280	જે સી 50322 ડબ્લ્યુ	"	જગત સિંહ
281	જે સી 76479 એ	"	સુલેષ સિંહ
282	જે સી 69030 એ	"	તેજા સિંહ

વી સિલ્હ લાઈટ ઇન્ફેન્ટ્રી

283	જે સી 29464 એ	સૂબેબાર મેજર	ચક્ષીયા સિંહ
284	જે સી 42489 એ	"	મસીબ સિંહ
285	જે સી 44937 એ	"	પરસા સિંહ
286	જે સી 36548 ડબ્લ્યુ	"	પ્રીતમ સિંહ
287	જે સી 50138 એ	સૂબેબાર	ચનન સિંહ
288	જે સી 74669 બાઈ	"	ચાંચ સિંહ
289	જે સી 51724 એ	"	ગુરબચન સિંહ
290	જે સી 38611 બાઈ	"	હરવ્યાસ સિંહ

વી ઓગરા રેજીમેન્ટ

291	જે સી 29020 ડબ્લ્યુ	સૂબેબાર મેજર	સાયફ ચન્દ કટોચ
292	જે સી 39136 એ	"	માન સિંહ

293	જે સી 36666 કે	સુબેદાર મેજર	શિવ રામ
294	જે સી 72998 વાઈ	સુબેદાર	હરી સિંહ
295	જે સી 74407 એલ	"	હન્નર સિંહ
296	જે સી 68450 ડબ્લ્યુ	"	જોગિશ્વર સિંહ
297	જે સી 64662 કે	"	કાહન સિંહ
298	જે સી 77611 પી	"	જિયાલી રામ
299	જે સી 71488 એલ	"	પ્યાર સિંહ
વી શત્રુવાસ રાજકોસ્ટ			
300	જે સી 35593 ડબ્લ્યુ	સુબેદાર મેજર	બ્રહ્મી રામ પુરોહિત
301	જે સી 42950 ડબ્લ્યુ	"	બલવન્ત સિંહ રાવત
302	જે સી 41390 એલ	"	ચન્દર સિંહ રાણા
303	જે સી 76889 કે	સુબેદાર	લલ્લુ સિંહ બિષ્ટ
304	જે સી 78569 એન	"	ગઘર સિંહ રાવત
305	જે સી 55043 પી	"	ગંગા રામ બિન્નોલા
306	જે સી 65195 કે	"	હરી વત્ત ઠોંઝિયાલ
307	જે સી 64036 એ	"	મનન લાલ ભિગલાલ
308	જે સી 74005 એન	"	કિશોરી લાલ
309	જે સી 62410 વાઈ	"	કુંવર સિંહ મંઢારી
310	જે સી 84221 પી	"	રાજેશ્વર પ્રસાદ વસમાળા
311	જે સી 63692 પી	"	સમિયા નમ્બ વઘોશા
વી કુચીઝ રેજીમેન્ટ			
312	જે સી 35504 એમ	સુબેદાર મેજર	રામ કુમાર
313	જે સી 39283 એલ	સુબેદાર	બ્રામ્યા રામ
314	જે સી 67716 એલ	"	બ્રમર સિંહ
315	જે સી 51236 એફ	"	લલ્લુ સિંહ
316	જે સી 45028 એમ	"	લલ્લુ સિંહ યાચલ
317	જે સી 57677 કે	"	લામોશ્વર જોશી
318	જે સી 61848 એલ	"	લેલ સિંહ
319	જે સી 70239 એ	"	લિલાન સિંહ
320	જે સી 74404 એલ	"	હરીશ ચન્દ્ર પન્થ
321	જે સી 77493 એમ	"	હયાત સિંહ
322	જે સી 78468 એમ	"	જય નારાયન
323	જે સી 76888 એફ	"	જમ્મી વત્ત જોશી
324	જે સી 51215 એફ	"	પરતાપ ચન્દ્ર
325	જે સી 75046 કે	"	પ્રેમ સિંહ
326	જે સી 74400 પી	"	પૂર્ણી નમ્બ
327	જે સી 74401 કે	"	પુષ્કર સિંહ
328	જે સી 68263 એલ	"	સોહન લાલ
વી બ્રાહ્મણ રેજીમેન્ટ			
329	જે સી 55899 એ	સુબેદાર મેજર	જુગાદર વઘોશા
330	જે સી 45144 પી	"	મોગલોદેન લેલકો
331	જે સી 42362 એલ	"	મંગલસોડ હમર
332	જે સી 32958 પી	"	સુલુયા
વી બિહાર રેજીમેન્ટ			
333	જે સી 29646 એન	સુબેદાર મેજર	જદુનાથ સિંહ યાચલ
334	જે સી 54916 એલ	"	મનાઈ ગગરાઈ
335	જે સી 31342 પી	"	માર્ગલ મોંગરા
336	જે સી 31630 એફ	"	રામ પુષ્કર સિંહ
337	જે સી 48416 પી	"	ભિનાથ મોલા
338	જે સી 63771 કે	સુબેદાર	પૈટ્લિક કુન્દર
339	જે સી 56158 પી	"	રામ રસિકા સિંહ

बी महार रेजिमेंट

340.	जे सी 60315 एन	सूबेदार	बाबू बन्सोदे
341.	जे सी 71587 एन	"	मोहन सिंह
342.	जे सी 61886 बाई	"	नरलोक माथ

बी जम्मु व काश्मीर राइफल

343.	जे सी 33074 पी	सूबेदार मेजर	हंस राज
344.	जे सी 27819 एफ	"	हरनाम सिंह
345.	जे सी 31337 के	"	जगदीश सिंह
346.	जे सी 44218 एम	"	जनमेज सिंह
347.	जे सी 37562 पी	"	काश्मीर सिंह
348.	जे सी 63850 बाई	"	परमेश्वरी सिंह
349.	जे सी 16688 एफ	"	रत्न सिंह
350.	जे सी 59925 एन	सूबेदार	अनूप सिंह

बी जम्मु व काश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री

351.	जे सी 62 ए	सूबेदार मेजर	जनक सिंह
352.	जे सी 248 के	"	मंगल शन जर्मा
353.	जे सी 208 एच	"	बिजोकी माथ कील
354.	जे सी 209 एल	सूबेदार	गिरजारी साल

बी नैकेगाईज इन्फेन्ट्री रेजीमेंट

355.	जे सी 42168 एन	सूबेदार मेजर	अमर माथ
356.	जे सी 59941 एल	"	जनी राम
357.	जे सी 37305 एम	"	मुलच राज
358.	जे सी 37301 एफ	"	नगिन्द्र सिंह
359.	जे सी 36949 एल	"	पद्म बहादुर मल्ल
360.	जे सी 36138 ए	"	श्री राम पाठक
361.	जे सी 18422 एन	"	गुणपाल सिंह
362.	जे सी 39378 एच	"	मुकेश सिंह
363.	जे सी 67706 एफ	सूबेदार	वीर सिंह सामवाल
364.	जे सी 62959 एम	"	गोबिन्द गुर्ग
365.	जे सी 62005 एफ	"	जोगिन्द्र सिंह
366.	जे सी 63796 डबल्यू	"	बेम सिंह
367.	जे सी 75381 एन	"	मदन सिंह रावत
368.	जे सी 77055 के	"	प्रताप सिंह
369.	जे सी 74875 एम	"	प्रेम चन्द
370.	जे सी 47056 एच	"	रमेश चन्द्र पाण्डे
371.	जे सी 66984 एच	"	रिखी राम धरतरी
372.	जे सी 71290 एम	"	सरजीत सिंह, सेना मेडल

1 गोरखा राइफल

373.	जे सी 53450 बाई	सूबेदार मेजर	केवल कृष्ण कपूर
374.	जे सी 41944 डबल्यू	"	टीका राम राणा
375.	जे सी 64177 पी	सूबेदार	दया राम थापा
376.	जे सी 51091 एन	"	धुब सिंह थापा
377.	जे सी 71895 एन	"	सहर सिंह गुर्ग

3 गोरखा राइफल

378.	जे सी 36706 ए	सूबेदार मेजर	वीर बहादुर थापा
379.	जे सी 44123 एम	"	जगत बहादुर थापा
380.	जे सी 28810 बाई	"	माम सिंह गुर्ग

5 गोरखा राइफल

381.	जे सी 44884 एन	"	हेम लाल गुर्ग
------	----------------	---	---------------

382.	जे सी 44275 एन	सूबेदार मेजर	टेक बहादुर गुर्ग
383.	जे सी 68487 एक्स	सूबेदार	मोहन सिंह थापा

8 गोरखा राइफल्स

384.	जे सी 43890 के	सूबेदार मेजर	जमना बीर गुर्ग
385.	जे सी 53941 पी	"	गुमान सिंह गुर्ग
386.	जे सी 44875 डबल्यू	"	सहाबीर थापा
387.	जे सी 37358 डबल्यू	"	टेक बहादुर गुर्ग
388.	जे सी 67329 डबल्यू	सूबेदार	धनबीर गुर्ग
389.	जे सी 77511 के	"	टेक बहादुर गुर्ग
390.	जे सी 56950 एफ	"	टेक बहादुर गुर्ग
391.	जे सी 65086 एक्स	"	गुलाराम थापा

9 गोरखा राइफल्स

392.	जे सी 58028 एल	सूबेदार मेजर	गोसाई सिंह धनिक
393.	जे सी 39978 एल	"	खरका बहादुर साही
394.	जे सी 49067 एल	"	खरका बहादुर साही

11 गोरखा राइफल्स

395.	जे सी 44964 पी	सूबेदार मेजर	भक्त बहादुर लिम्बू
396.	जे सी 46093 बाई	"	जगत सिंह लामा
397.	जे सी 40750 एफ	"	रत्ना प्रसाद विजान
398.	जे सी 58435 एम	सूबेदार	समूत बहादुर लिम्बू
399.	जे सी 58592 ए	"	गोपाल प्रधान
400.	जे सी 73080 एल	"	रमेश कुमार विजान

आर्मी सर्विस कोर (सप्लाय)

401.	जे सी 26884 पी	सूबेदार मेजर	बलदेव राज
402.	जे सी 21981 एल	"	भगत राम
403.	जे सी 50285 एल	"	कमल प्रकाश
404.	जे सी 51274 एल	"	गुरभोज सिंह
405.	जे सी 21954 बाई	"	जमना दास
406.	जे सी 26846 बाई	"	नबीम खन्ना
407.	जे सी 21955 एफ	"	नन्द किशोर
408.	जे सी 60202 एल	"	नारायण सिंह सोहोरोट
409.	जे सी 21959 एल	"	परकाश खन्ना परमार
410.	जे सी 51273 एल	"	पुष्पी स्वर खन्ना
411.	जे सी 51270 एक्स	"	राजेश पाल मोहन
412.	जे सी 26837 एक्स	"	राम नारायण सिंह
413.	जे सी 57458 एल	"	रास बिहारी दास
414.	जे सी 29709 एल	"	शैलेन्द्र प्रसाद
415.	जे सी 21980 ए	"	शक्ति प्रसाद कार
416.	जे सी 57425 एक्स	"	सुखपाल सिंह
417.	जे सी 26848 के	"	त्रिलोक सिंह
418.	जे सी 51382 एक्स	"	बी जी जार्ज
419.	जे सी 29708 एल	"	बुद्धी सिंह चौहान
420.	जे सी 69796 एम	सूबेदार	आत्मा राम नावले
421.	जे सी 65467 बाई	"	अमर बली सिंह
422.	जे सी 57015 एफ	"	ध्यान सिंह
423.	जे सी 73303 डबल्यू	"	गौरी सिंह
424.	जे सी 50637 ए	"	गोकुल नन्द भट्ट
425.	जे सी 69799 ए	"	गुरलाम सिंह लोटिया
426.	जे सी 59643 पी	"	हरी सिंह यादव
427.	जे सी 57008 एल	"	हरमेश लाल
428.	जे सी 65456 एल	"	इन्दर सिंह
429.	जे सी 29823 एल	"	के कुन्ही कृष्णा कुरुप
430.	जे सी 65457 पी	"	कमला प्रसाद पानिग्रही

431.	જે સી 47485 બાર્ડ	સૂરેશ્વર	કેસર સિંહ સાહી
432.	જે સી 40862 ફ	"	મહેશ્વર ભામ
433.	જે સી 68797 ફ	"	મુખત્યાર સિંહ
434.	જે સી 63534 ફ	"	ધોમ પરકાશ
435.	જે સી 59629 ફ	"	વી પટ્ટાભિ રમચંદ્ર
436.	જે સી 61348 ફ	"	વી એમ ગોપાલભ
437.	જે સી 69797 પી	"	વી બી કુન્દી રમચંદ્ર તમ્બિયાર
438.	જે સી 69809 બાર્ડ	"	પ્રાર ધર્મા રાજભ
439.	જે સી 57608 ફ	"	રવિન્દ્ર ચન્દ્ર વલ્લા રામ
440.	જે સી 65459 ફ	"	રામ જનમ સિંહ
441.	જે સી 75513 ડબલ્યુ	"	રામ કિશન સિંહ
442.	જે સી 59667 બાર્ડ	"	રામ સિંહ
443.	જે સી 57626 ડબલ્યુ	"	શામ રામ સર્વજી
444.	જે સી 69017 ફ	"	શામ મુન્દર
445.	જે સી 69798 ફ	"	મુજીત કુમાર ધોષ
446.	જે સી 69791 ફ	"	ઉત્તમ સિંહ
447.	જે સી 65460 પી	"	ચૈકટ મુખત્યાર રામ વેવાનેની

ધાર્મિક સર્વિસ કોર (ઇમિગ્રેશન ડાસ્પોર્ટ)

448.	જે સી 34938 ફ	રિયાલિટી મેજર	ધર્મ સિંહ
449.	જે સી 17873 ફ	"	વલ્લા વલ્લ
450.	જે સી 17741 ફ	"	ઝરવા વલ્લ

ધાર્મિક સર્વિસ કોર (સેક્રેટરિયલ ડાસ્પોર્ટ)

451.	જે સી 42022 ફ	સૂરેશ્વર મેજર	જયસિંહ
452.	જે સી 42023 ફ	"	જુમી લાલ
453.	જે સી 43364 ફ	"	જગાભાઈ
454.	જે સી 41854 પી	"	લાલ સિંહ
455.	જે સી 42671 ફ	"	મહા સિંહ
456.	જે સી 43468 ફ	"	મોહન સિંહ ભેગી
457.	જે સી 41847 બાર્ડ	"	મોહિન્દ્ર સિંહ સરોહી
458.	જે સી 42675 ફ	"	નચ્છીત્તર સિંહ
459.	જે સી 42028 ફ	"	પરભાઈ સિંહ
460.	જે સી 43355 બાર્ડ	"	મરુપ સિંહ
461.	જે સી 43354 ડબલ્યુ	"	તરસીમ સિંહ
462.	જે સી 43510 પી	"	બાલાભપરામચીલ પદમાનાભમ પિન્ડી બાલાકુળનન નાયર
463.	જે સી 41877 ફ	"	વાસુ વેવન
464.	જે સી 43359 પી	"	વલાયતી માલ
465.	જે સી 75519 ફ	સૂરેશ્વર	અરુન્ધ
466.	જે સી 75853 ફ	"	ધાની સિંહ
467.	જે સી 78027 ફ	"	જેત રામ
468.	જે સી 75529 ફ	"	હરી સિંહ
469.	જે સી 75528 બાર્ડ	"	ફરુક સિંહ
470.	જે સી 75518 પી	"	જસન્ધર સિંહ
471.	જે સી 75535 પી	"	જોગિન્દ્ર સિંહ
472.	જે સી 75530 ડબલ્યુ	"	કિશોરી લાલ
473.	જે સી 75521 પી	"	મુની પાન્દે
474.	જે સી 76570 ફ	"	ધોમ પ્રકાશ
475.	જે સી 75520 ફ	"	રવિચંદ્ર સિંહ
476.	જે સી 78016 ફ	"	રામ નાથ
477.	જે સી 75524 ફ	"	રત્ની રામ
478.	જે સી 76573 ફ	"	રોશન લાલ ધર્મા

ધાર્મિક સર્વિસ કોર

479.	જે સી 68741 ડબલ્યુ	સૂરેશ્વર મેજર	અત્તર સિંહ
480.	જે સી 67482 ફ	"	સહનાર સિંહ

481.	जे सी 68792 के	सूबेदार	बलदेव कुमार
482.	जे सी 45692 एम	"	विनेश्वर सिंह
483.	जे सी 77834 एम	"	प्रभाकर जोशी
484.	जे सी 77124 पी	"	प्रताप सिंह रावत
485.	जे सी 79380 एम	"	शिव पूजन सिंह
486.	जे सी 63286 पी	"	बिठल

भारती प्राविणेंस कोर

487.	जे सी 38298 बाई	सूबेदार मेजर	मंगल सिंह
488.	जे सी 50451 डबल्यू	"	मस्तान सिंह
489.	जे सी 49317 बाई	"	एम मेवू-भाषवन नायर
490.	जे सी 65733 एम	सूबेदार	अजमो-वीन-नालधर
491.	जे सी 76619 पी	"	अमर सिंह
492.	जे सी 68404 ए	"	बन्धु शेखर तिवारी
493.	जे सी 67704 एल	"	दुर्गावल जोशी
494.	जे सी 68363 एच	"	हरी शंकर परम
495.	जे सी 65710 एल	"	हरी हर प्रसाद
496.	जे सी 65696 के	"	जनेन्द्र बन्धु शर
497.	जे सी 80645 एम	"	जोगिन्द्र सिंह
498.	जे सी 64416 बाई	"	काली सहाय तिवारी
499.	जे सी 68362 ए	"	कुलवन्त सिंह
500.	जे सी 66831 बाई	"	मनीष भूषण दास
501.	जे सी 68361 एक्स	"	मैथ्यू सी टी
502.	जे सी 66827 डबल्यू	"	मोहम्मद शहीर अली खान
503.	जे सी 70593 पी	"	पलेट्ट राम
504.	जे सी 67743 पी	"	मदाशिव बिनायक मुन्हाले
505.	जे सी 66837 ए	"	शीश पाल सिंह
506.	जे सी 76609 एल	"	श्याम नारायण चौबे
507.	जे सी 78262 एम	"	सित्तन सिंह दास
508.	जे सी 69332 पी	"	मुक्ता चौधरी

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग

509.	जे सी 54546 एम	सूबेदार मेजर	ए. एन मोहन
510.	जे सी 54293 के	"	अमर सिंह
511.	जे सी 38959 एम	"	सी रामाचन्द्रन मेनन
512.	जे सी 28878 एम	"	छकन लाल
513.	जे सी 39663 एफ	"	धर्म पाल सामंत
514.	जे सी 33889 डबल्यू	"	बबलरका प्रसाद गुप्ता
515.	जे सी 33891 एम	"	गुरधियाल सिंह
516.	जे सी 33920 एक्स	"	जसवंत सिंह
517.	जे सी 38722 डबल्यू	"	के प्रार बाफेकर
518.	जे सी 36306 एम	"	कमल देव
519.	जे सी 36305 एल	"	कपल देव
520.	जे सी 33896 एम	"	कार्तिक बन्धु राहा
521.	जे सी 36313 के	"	किरणलाल सिंह
522.	जे सी 38699 एम	"	लक्ष्मी बन्धु
523.	जे सी 52930 डबल्यू	"	एम ध्यागाराजू
524.	जे सी 54580 एम	"	मोहन लाल
525.	जे सी 56582 एक्स	"	प्रेम सिंह
526.	जे सी 45977 बाई	"	राम नाथ
527.	जे सी 38753 डबल्यू	"	सम्पूर्ण सिंह
528.	जे सी 32640 एक्स	"	सुधीर बन्धु सुलराबर
529.	जे सी 33918 ए	"	सुरज मल
530.	जे सी 46439 एक्स	"	वरधाम सिंह
531.	जे सी 46685 एम	"	जिने सिंह खून

532.	जे सी 56534 एक्स	सूबेदार	ग्राबासाहेब जाधव
533.	जे सी 56601 एक्स	"	अमरजीत सिंह
534.	जे सी 76727 वाई	"	अश्वन लेनी
535.	जे सी 56544 एफ	"	बलभीष सिंह
536.	जे सी 69375 के	"	सी पी कुशिरामान नाम्बियार
537.	जे सी 65131 ए	"	चन्द्रभान सिंह
538.	जे सी 52917 एम	"	धरम चन्द
539.	जे सी 56558 एफ	"	ध्रुवा चरन घोषा
540.	जे सी 56368 पी	"	हनुमान सिंह जोषा
541.	जे सी 65133 के	"	हुकम चन्द
542.	जे सी 67831 एल	"	जगजीत सिंह
543.	जे सी 54277 एम	"	प्रताप सिंह
544.	जे सी 56359 एन	"	राम धर ठूने
545.	जे सी 70719 के	"	राम घारी
546.	जे सी 74578 एक्स	"	राम कृष्ण सिंह
547.	जे सी 74576 एम	"	राम कुमार पान्डे
548.	जे सी 56533 पी	"	राम प्रसाद ठूने
549.	जे सी 63115 एच	"	एस कृष्णा करनाडर
550.	जे सी 72293 एम	"	सतवन्त सिंह
551.	जे सी 63137 एफ	"	श्रीराम खेड़कर
552.	जे सी 59164 एन	"	सुखे सिंह
553.	जे सी 63130 एक्स	"	वी सी फिनिप
554.	जे सी 52425 एन	"	वास देव]
555.	जे सी 58818 ए	"	विद्यासागर डोगरा

गार्डी एजुकेशन कोर

556.	जे सी 26673 एम	सूबेदार मेजर	भगवान सिंह यादव
557.	जे सी 22145 एल	"	भरत सिंह बटन
558.	जे सी 47134 के	"	गणेश परकाश पटेल
559.	जे सी 21325 एफ	"	लाल चन्द सेठी
560.	जे सी 22155 पी	"	माम चन्द
561.	जे सी 21314 पी	"	रत्न सिंह क्षामी
562.	जे सी 31171 एन	"	सोमा राम कपूर
563.	जे सी 21318 एल	"	उमराव सिंह ठाकूर
564.	जे सी 76920 एल	सूबेदार	अजीत सिंह
565.	जे सी 66589 पी	"	अनुर सिंह
566.	जे सी 77204 एम	"	अनन्तार सिंह भिज्जार
567.	जे सी 77530 पी	"	बुधी चन्द राना
568.	जे सी 74385 एक्स	"	चन्दर बल्ल शर्मा
569.	जे सी 73084 एफ	"	गुरमीत सिंह
570.	जे सी 66098 वाई	"	जग राम
571.	जे सी 66592 पी	"	किशन सिंह
572.	जे सी 66593 एक्स	"	फूल सिंह
573.	जे सी 66100 एल	"	राम बाबू पान्डे
574.	जे सी 76563 एन	"	राम बीर सिंह गौर
575.	जे सी 73656 एक्स	"	राम प्रकाश संधीर
576.	जे सी 66615 एल	"	रंजीत सिंह
577.	जे सी 66605 एफ	"	शंकर सिंह
578.	जे सी 77208 एच	"	सुखचैन सिंह

वी रिमाइन्ड बेटरिमरी कोर

579.	आर वी 7910 ए	रिमाइन्डर मेजर	आशा नन्दन सिंह
------	--------------	----------------	----------------

वी इन्वेस्टिगैस कोर

580.	जे सी 32465 एन	सूबेदार मेजर	किशन सिंह
581.	जे सी 33548 एल	"	राम करन सिंह

582.	जे सी 32464 एल	सूबेदार मेजर	रत्नी राम
583.	जे सी 32466 डबल्यू	"	शंकर सिंह बिष्ट
584.	जे सी 68770 एल	सूबेदार	बलजीत सिंह
585.	जे सी 62443 के	"	के कल्काराजू
586.	जे सी 44453 एल	"	कुलदीप सिंह
587.	जे सी 41696 एल	"	शेर सिंह कारकी
588.	जे सी 43921 एल	"	वेदानाथगम

कोर ग्राफ मिलिटरी पुलिस

589.	जे सी 78115 ए	सूबेदार	चित्रा मणि भट्ट
------	---------------	---------	-----------------

बी पाई बिपर कोर

590.	जे सी 50534 एफ	सूबेदार मेजर	प्रह्लाद राम
------	----------------	--------------	--------------

डिफेंस सिविलियन कोर

591.	जे सी 8535	सूबेदार मेजर	अबतार सिंह
592.	जे सी 71019	"	विष्णुनाथ सिंह
593.	जे सी 76380	"	सशी राम
594.	जे सी 63892	"	श्याम लाल यादव
595.	जे सी 64862	"	श्री राम सिंह
596.	जे सी 58891	"	टी जी योहानम्न
597.	जे सी 77550	सूबेदार	एल किशोरचरण

MINISTRY OF DEFENCE**(ARMY BRANCH)**

New Delhi, the 26th January, 1982

N. 1-E dated 23rd January 1982. The President is pleased to grant honorary commissions to the undermentioned JCOs on active list under para 178 of the Regulations for the Army, 1962, with effect from 26 January 1982 :—

TO BE HONORARY CAPTAINS**7 CAVALRY**

1.	JC 70797F	RIS & HONY LT	SUMER SINGH
----	-----------	---------------	-------------

63 CAVALRY

2.	JC 24673N	RIS MAJ & HONY LT	TARLOCHAN SINGH
----	-----------	-------------------	-----------------

65 ARMoured REGIMENT

3.	JC 73530X	RIS & HONY LT	DHARAM SINGH AZAD
----	-----------	---------------	-------------------

81 ARMoured REGIMENT

4.	JC 33274L	RIS MAJ & HONY LT	RAM CHANDAR YADHAV
----	-----------	-------------------	--------------------

86 ARMoured REGIMENT ?

5.	JC 32607A	RIS MAJ & HONY LT	MOHD AYYUB KHAN, V.C
----	-----------	-------------------	----------------------

REGIMENT OF ARTILLERY

6.	JC 33292N	SUB MAJ & HONY LT	AJATB SINGH
7.	JC 32248X	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN THAKRE
8.	JC 40995X	SUB MAJ & HONY LT	BAL RAM SINGH
9.	JC 17327P	SUB MAJ & HONY LT	DAYA RAM
10.	JC 67585L	SUB MAJ & HONY LT	HUSIAN CHAND
11.	JC 28478N	SUB MAJ & HONY LT	K. KANIYAPPAN
12.	JC 24280X	SUB MAJ & HONY LT	N CHANDRAN
13.	JC 30310A	SUB MAJ & HONY LT	PANDURANG BHOSLE
14.	JC 45508W	SUB MAJ & HONY LT	PRITAM SINGH
15.	JC 40197K	SUB MAJ & HONY LT	RAM LAL
16.	JC 33290H	SUB MAJ & HONY LT	SANKARAN
17.	JC 31008N	SUB MAJ & HONY LT	VISHAL SINGH
18.	JC 34030K	SUB MAJ & HONY LT	WASUDEO DALVI
19.	JC 50805N	SUB & HONY LT	CHANDER BHAN

20.	JC 58210L	SUB & HONY LT	K KASIM
21.	JC 73567Y	SUB & HONY LT	KIRPAL SINGH
22.	JC 53666A	SUB & HONY LT	P BALAKRISHNAN
MADRAS ENGINEER GROUP			
23.	JC 34055W	SUB MAJ & HONY LT	GEORGE
24.	JC 34039Y	SUB MAJ & HONY LT	GOVINDARAJU
25.	JC 34040N	SUB MAJ & HONY LT	NARAYANA NAIDU
26.	JC 34047X	SUB MAJ & HONY LT	SOWRIMUTHU
BENGAL ENGINEER GROUP			
27.	JC 44512M	SUB MAJ & HONY LT	BASANT BALLABH JOSHI
28.	JC 43731F	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWAN DASS
29.	JC 42149H	SUB MAJ & HONY LT	BUDHI BALLABH
30.	JC 43934L	SUB MAJ & HONY LT	KIRPA RAM BALODI
31.	JC 20845A	SUB MAJ & HONY LT	LAL SINGH
32.	JC 64678P	SUB & HONY LT	SHIV DATT JOSHI
BOMBAY ENGINEER GROUP			
33.	JC 27757M	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH
34.	JC 28253L	SUB MAJ & HONY LT	DAYAL SINGH
35.	JC 27758P	SUB MAJ & HONY LT	GURMEL SINGH
36.	JC 27761P	SUB MAJ & HONY LT	MALKIAT SINGH JODHAN
37.	JC 31837F	SUB MAJ & HONY LT	OM PARKASH
38.	JC 27769F	SUB MAJ & HONY LT	PAKHAR SINGH
39.	JC 27760M	SUB MAJ & HONY LT	RAMCHANDRA PARLE
40.	JC 31836Y	SUB MAJ & HONY LT	WAMAN NIKAM
41.	JC 78404P	SUB & HONY LT	ADRIAS MASIH
42.	JC 48536N	SUB & HONY LT	DATTAJI DEOKAR
43.	JC 47673A	SUB & HONY LT	VINAYAK DANGE
CORPS OF SIGNALS			
44.	JC 36787L	SUB MAJ & HONY LT	ANNA SHIB SHINDE
45.	JC 60205Y	SUB MAJ & HONY LT	BHAGAT SINGH, SM
46.	JC 37284M	SUB MAJ & HONY LT	GIAN CHAND
47.	JC 36774N	SUB MAJ & HONY LT	HARBANS SINGH
48.	JC 32120M	SUB MAJ & HONY LT	MANBAR SINGH NEGI
49.	JC 34870K	SUB MAJ & HONY LT	PRITAM DASS
50.	JC 52772M	SUB MAJ & HONY LT	SHURATI PARKASH
51.	JC 52127X	SUB MAJ & HONY LT	TIRATH SINGH
52.	JC 36797P	SUB MAJ & HONY LT	UDHAM SINGH
53.	JC 60215H	SUB MAJ & HONY LT	ZORA SINGH
THE PUNJAB REGIMENT			
54.	JC 54980A	SUB MAJ & HONY LT	KABAL SINGH
55.	JC 33209L	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH, MVC
56.	JC 38219Y	SUB MAJ & HONY LT	PADAM SINGH
THE MADRAS REGIMENT			
57.	JC 40662L	SUB MAJ & HONY LT	VP LAKSHMANAN
THE GRENADIER :			
58.	JC 37761H	SUB MAJ & HONY LT	HASIM KHAN
59.	JC 78692M	SUB & HONY LT	ATTAR SINGH
THE RAJPUTANA RIFLES			
60.	JC 53291M	SUB MAJ & HONY LT	KAPILDEO SINGH
61.	JC 35262P	SUB MAJ & HONY LT	PAHALAD SINGH
62.	JC 35346H	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUBIR SINGH
THE RAJPUT REGIMENT			
63.	JC 41888H	SUB MAJ & HONY LT	RAM JANAM SINGH
64.	JC 34722Y	"	RAM SINGH
THE JAT REGIMENT			
65.	JC 37773X	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM SINGH, SC
66.	JC 35921Y	"	PIARE LAL

67.	JC 58395X	SUB & HONY LT	DAYA NAND, KC
68.	JC 58169A	"	RAM NARAIN
THE SIKH REGIMENT			
69.	JC 26606F	SUB MAJ & HONY LT	DALJIT SINGH
70.	JC 40621F	"	GURCHARAN SINGH
71.	JC 48032A	"	MAHAN SINGH
72.	JC 34752W	"	RAGHBIR SINGH
THE SIKH LIGHT INFANTRY			
73.	JC 38617A	SUB MAJ & HONY LT	DILBAGH SINGH
74.	JC 32460P	"	HARI SINGH
75.	JC 37789H	"	KARAM SINGH
76.	JC 37692K	"	KARTAR SINGH
77.	JC 39934N	"	MALKIT SINGH
THE DOGRA REGIMENT			
78.	JC 34615X	SUB MAJ & HONY LT	HARI CHAND
79.	JC 37570N	"	KUSHAL CHAND
80.	JC 72509H	SUB & HONY LT	LAL SINGH
THE GARHWAL RIFLES			
81.	JC 42493N	SUB MAJ & HONY LT	GIRJA NAND BAUKHANDI
82.	JC 41389N	"	SHANKAR SINGH RAWAT
THE KUMAON REGIMENT			
83.	JC 76247P	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH
THE MAHAR REGIMENT			
84.	JC 32564W	SUB MAJ & HONY LT	BHILWASAN AMBHORE, Vrc
85.	JC 35642N	"	DADARAO GHODESWAR, Vrc
86.	JC 35373M	"	SAHADEO KANASE
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES			
87.	JC 20783L	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH
88.	JC 26666W	"	GIAN CHAND
THE LADAKH SCOUTS			
89.	JC 25948H	SUB MAJ & HONY LT	CHHERING STOB DAN
THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT			
90.	JC 39258K	SUB MAJ & HONY LT	GURCHARAN SINGH
91.	JC 32917L	"	MAN SINGH, SC
92.	JC 39259M	"	MOHINDAR SINGH
93.	JC 36137X	"	PRIAG SINGH
94.	JC 27831H	"	RAJE SINGH RAWAT
95.	JC 35358X	"	RAM PRASAD PUROHIT
5 GORKHA RIFLES			
96.	JC 41934M	SUB MAJ & HONY LT	PREM BAHADUR ALE
11 GORKHA RIFLES			
97.	JC 49512W	SUB MAJ & HONY LT	BHAV DEV SHARMA
ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)			
98.	JC 52463K	SUB MAJ & HONY LT	INDER SINGH
99.	JC 29725H	"	TRILOKI NATH PANDITH
100.	JC 50286W	"	UDAI NARAIN RAI
ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)			
101.	JC 43501N	SUB MAJ & HONY LT	BALWANT SINGH
102.	JC 43363X	"	BHOOP SINGH
103.	JC 42995W	"	BIKA RAM
104.	JC 42670H	"	DARSHAN SINGH
105.	JC 43462A	"	GURDEV SINGH SIDHU
106.	JC 43357K	"	JAGDISH CHANDRA BHATTACHER- JEE

107.	JC 43367N	SUB MAJ & HONY LT	SADH RAM
108.	JC 42025N	"	SADULLA KHAN
109.	JC 43422Y	"	WARYAM SINGH
ARMY MEDICAL CORPS			
110.	JC 54404W	SUB MAJ & HONY LT	AUTAR SINGH
111.	JC 45185Y	"	GURDIP SINGH
112.	JC 63644P	"	RANBIR SINGH
113.	JC 48238X	"	SURENDRA SINGH, SM
114.	JC 45182L	"	UDHAM SINGH
115.	JC 77830W	SUB & HONY LT	JALINDAR DESHMUKH
116.	JC 77832F	"	KARAM SINGH GARHIYA
117.	JC 76998W	"	MAHADEO PATIL
118.	JC 48025K	"	SUDHIR KUMAR MANDAL
ARMY ORDNANCE CORPS			
119.	JC 72231M	SUB MAJ & HONY LT	GOVIND SINGH
120.	JC 49316W	"	KISHAN CHAND
121.	JC 46674W	"	MADHAV DIVANE
122.	JC 57149A	"	PANDEY KAILASHPATI SHARMA
123.	JC 65726W	SUB & HONY LT	CHANDI PRASAD BUDAKOTI
124.	JC 64415W	"	NAWAB SINGH
125.	JC 64396W	"	SURAJ BHAN
CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS			
126.	JC 28877X	SUB MAJ & HONY LT	CHATTAR SINGH
127.	JC 33896K	"	HEM RAJ SINGH
128.	JC 33937L	"	JOGINDER SINGH SAINI
129.	JC 36302X	"	KASTURI LAL SHARMA
130.	JC 33934A	"	KEWAL SINGH
131.	JC 33935A	"	KHYALI RAM PANDEY
132.	JC 45979K	"	MADHAVAN NAIR K
133.	JC 38783N	"	PARMATMA SINGH
134.	JC 38963W	"	R MUNNIAPPA
135.	JC 38705W	"	RAM PARKASH
136.	JC 38696H	"	SADA RAM
137.	JC 33897P	"	SADHU SINGH
138.	JC 54560A	SUB & HONY LT	AJIT SINGH
139.	JC 56594M	"	DINABANDHU MAHARANA
ARMY EDUCATION CORPS			
140.	JC 21332X	SUB MAJ & HONY LT	DIWAN SINGH
141.	JC 46504M	"	LAL SINGH GULERIA
142.	JC 21319N	"	OM PARKASH
143.	JC 34144P	"	UMA SHANKAR JOSHI
THE INTELLIGENCE CORPS			
144.	JC 35758K	SUB MAJ & HONY LT	JARNAIL SINGH
145.	JC 43916H	SUB & HONY LT	BRAHM PARKASH
146.	JC 43920L	"	HARBIR SINGH TOMAR
147.	JC 41692P	"	PUSHKAR SINGH BISHT
CORPS OF MILITARY POLICE			
148.	JC 44903X	SUB MAJ & HONY LT	CHANAN SHAH
DEFENCE SECURITY CORPS			
149.	JC 11715	SUB MAJ & HONY LT	KALI RAM
TO BE HONORARY LIEUTENANTS			
8 CAVALRY			
1.	JC 70284M	RIS	SARMUKH SINGH

1 HORSE

2.	JC 43698P	RIS	JANGBIR SINGH
3.	JC 73528A	RIS	PHOOL SINGH BHAKAR

14 HORSE

4.	JC 69871L	RIS MAJ	GURNAM SINGH
----	-----------	---------	--------------

4 HORSE

5.	JC 62000H	RIS MAJ	SARWAN SINGH
----	-----------	---------	--------------

20 LANCERS

6.	JC 67428N	RIS	MATA DIN
----	-----------	-----	----------

61 CAVALRY

7.	JC 37656M	RIS MAJ	FATEH MOHD KHAN, VSM
----	-----------	---------	----------------------

45 CAVALRY

8.	JC 38367K	RIS MAJ	BIKRAMA RAI
----	-----------	---------	-------------

64 CAVALRY

9.	JC 48730H	RIS MAJ	BALBIR SINGH
10.	JC 65213F	RIS	CHAIN SINGH
11.	JC 77937L	RIS	GURBACHAN SINGH

65 ARMoured REGIMENT

12.	JC 44720F	RIS MAJ	BAJRANG SINGH
-----	-----------	---------	---------------

68 ARMoured REGIMENT

13.	JC 54771H	RIS	RAM CHANDER SINGH
-----	-----------	-----	-------------------

71 ARMoured REGIMENT

14.	JC 60400W	RIS MAJ	MOHINDAR SINGH
-----	-----------	---------	----------------

84 ARMoured REGIMENT

15.	JC 70204K	RIS	SURAJNATH SINGH
-----	-----------	-----	-----------------

89 ARMoured REGIMENT

16.	JC 63877K	RIS	GURCHARAN SINGH
-----	-----------	-----	-----------------

90 ARMoured REGIMENT

17.	JC 72852L	RIS	SHER SINGH
-----	-----------	-----	------------

ARMoured CORPS

18.	JC 87016Y	RIS	ATMA SINGH
19.	JC 87817A	RIS	HARI CHAND
20.	JC 79786W	RIS	PRITAM SINGH

REGIMENT OF ARTILLERY

21.	JC 24265H	SUB MAJ	A KESAVAN
22.	JC 25894M	SUB MAJ	BALDEV DATT
23.	JC 32810W	SUB MAJ	D PALANI CHAMI
24.	JC 45490L	SUB MAJ	DATTU PATIL
25.	JC 62114N	SUB MAJ	DURGA SINGH
26.	JC 41015X	SUB MAJ	G VELAPPAN NAIR
27.	JC 40278K	SUB MAJ	HARI SINGH
28.	JC 31023H	SUB MAJ	HARNARAIN SINGH
29.	JC 27052A	SUB MAJ	ISHWAR SINGH
30.	JC 42985M	SUB MAJ	JAGDISH SINGH
31.	JC 32261F	SUB MAJ	JAIPAL SINGH
32.	JC 45424H	SUB MAJ	K APPUKUTTAN NAIR
33.	JC 33277Y	SUB MAJ	KV PARAMESWARA KURUP
34.	JC 47938Y	SUB MAJ	LAKHA SINGH
35.	JC 45483P	SUB MAJ	LAKHI RAM
36.	JC 25868L	SUB MAJ	MB PONNAPPA
37.	JC 45386X	SUB MAJ	MANIKRAO POWAR
38.	JC 45467X	SUB MAJ	NITYA NAND YADAV
39.	JC 33299X	SUB MAJ	PERIYASWAMY
40.	JC 25833P	SUB MAJ	RAM CHINT YADAWA

41.	JC 25881P	SUB MAJ	RAM KARAN
42.	JC 32797X	SUB MAJ	SHISHPAL SINGH
43.	JC 25794F	SUB MAJ	SIS RAM
44.	JC 45468A	SUB MAJ	SURAJ BHAN
45.	JC 41003H	SUB MAJ	VN BHASKARAN
46.	JC 66735K	SUB	A KRISHNA MURTHY
47.	JC 73421L	SUB	AVTAR SINGH
48.	JC 73552W	SUB	AVTAR SINGH
49.	JC 76283A	SUB	BIKRAM SINGH
50.	JC 74764N	SUB	BRAHMDEO SINGH
51.	JC 74324A	SUB	DHARAM PAL
52.	JC 76860F	SUB	EK RAMAKRISHNA PILLAI
53.	JC 60358H	SUB	HAKAM SINGH
54.	JC 74332K	SUB	HARPHOOL SINGH RAO
55.	JC 73550L	SUB	JAL SINGH
56.	JC 72595Y	SUB	KANWAR SINGH
57.	JC 78420M	SUB	KARNAIL SINGH
58.	JC 72155L	SUB	KEWAL SINGH
59.	JC 62580H	SUB	KISHAN SINGH
60.	JC 74797Y	SUB	M AROKIA SWAMY
61.	JC 66808L	SUB	MV JOSEPH
62.	JC 62827Y	SUB	MOHAN SINGH
63.	JC 64135H	SUB	NADANDA K UTHAPPA
64.	JC 62122M	SUB	ONKAR SINGH KATOCH
65.	JC 73648Y	SUB	PV GANGADHARAN
66.	JC 69721P	SUB	RAM CHANDER
67.	JC 51298X	SUB	RAM KAWAR
68.	JC 72086A	SUB	TA ACHUTHAN
69.	JC 78217W	SUB	UDAI BIR SINGH
70.	JC 70809L	SUB	VASUDEVAN KC

MADRAS ENGINEER GROUP

71.	JC 34258A	SUB MAJ	KUPPUSWAMY, VSM
72.	JC 34369X	SUB MAJ	S ADIMOOLAM
73.	JC 19639K	SUB MAJ	T MARKANDAN
74.	JC 49057Y	SUB MAJ	VI POTHAN
75.	JC 66208H	SUB	DAMODARAM
76.	JC 57349W	SUB	KK UNNI NAIR
77.	JC 66218M	SUB	KALIMUTHU
78.	JC 57374P	SUB	N ACHUTHAN NAIR
79.	JC 57357P	SUB	P UNNEEN
80.	JC 66140M	SUB	RG CHINNAKANNU
81.	JC 53624N	SUB	RADHAKRISHNAN C
82.	JC 55505W	SUB	RAGHAVAN TK
83.	JC 60780A	SUB	S KRISHNAN

BENGAL ENGINEER GROUP

84.	JC 36123X	SUB MAJ	GAJJAN SINGH
85.	JC 51798P	SUB MAJ	INDRADEO PANDEY
86.	JC 42127K	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH
87.	JC 44540Y	SUB MAJ	MALDEV SINGH
88.	JC 44533H	SUB MAJ	MUTAK SINGH
89.	JC 45260X	SUB MAJ	NARENDRA SINGH ASWAL
90.	JC 35681M	SUB MAJ	PARKASH SINGH
91.	JC 26300P	SUB MAJ	R BALAKRISHNAN NAIR
92.	JC 46068A	SUB MAJ	RAM PRAKASH SINGH
93.	JC 38076K	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH
94.	JC 74841X	SUB	ANAND SINGH RAWAT
95.	JC 69568K	SUB	CHANNAN SINGH
96.	JC 70775H	SUB	DEWAN SINGH
97.	JC 48177L	SUB	DINA NATH
98.	JC 59774A	SUB	GAJJINDRA SINGH BHANDARI
99.	JC 74830L	SUB	GOPAL DASS
100.	JC 61668A	SUB	GURDEV SINGH

101.	JC 66745N	SUB	GURNAM SINGH
102.	JC 51838L	SUB	HARI SINGH
103.	JC 76763K	SUB	KHEEM BAHADUR
104.	JC 53927H	SUB	MAHABIR SINGH
105.	JC 63077X	SUB	PIARA SINGH
106.	JC 75369M	SUB	PREM SINGH
107.	JC 74444Y	SUB	RAM KANWAR
108.	JC 74633H	SUB	SHAMSHER SINGH
109.	JC 74636W	SUB	SHTB CHARAN
110.	JC 69967N	SUB	SHIV RATTAN
111.	JC 65493M	SUB	SURJIT SINGH
112.	JC 77702Y	SUB	TIRATH SINGH
113.	JC 50416N	SUB	UMA SHANKAR SINGH
114.	JC 69567F	SUB	VIDYA DATT

BOMBAY ENGINEER GROUP

115.	JC 33703F	SUB MAJ	DHONDU SAKPAL
116.	JC 27762X	SUB MAJ	HUKAM CHAND
117.	JC 33689A	SUB MAJ	PANDURANG MORE
118.	JC 33696W	SUB MAJ	SHAIKH USUF-UD-DIN
119.	JC 70867P	SUB	BABU MAHABDI
120.	JC 47689L	SUB	BALDEV SINGH
121.	JC 70942N	SUB	DIWAN SINGH
122.	JC 72880X	SUB	GANPTI TIBILE
123.	JC 47670M	SUB	GURDIAL SINGH
124.	JC 48537W	SUB	MALKIAT SINGH
125.	JC 66305A	SUB	MOHINDER SINGH
126.	JC 60433F	SUB	PRATAP SAWANT
127.	JC 70933M	SUB	PRITAM SINGH
128.	JC 70935X	SUB	PRITAM SINGH
129.	JC 70934P	SUB	SHANTARAM SURVE

CORPS OF SIGNALS

130.	JC 42056N	SUB MAJ	BACHITTAR SINGH
131.	JC 59833F	SUB MAJ	C UNNI-KRISHNAN
132.	JC 60651A	SUB MAJ	GOPI CHAND
133.	JC 60214A	SUB MAJ	GUMAN SINGH
134.	JC 48216Y	SUB MAJ	GURBACHAN SINGH
135.	JC 52059P	SUB MAJ	GURMEJ SINGH
136.	JC 37262N	SUB MAJ	GURMIT SINGH
137.	JC 56174M	SUB MAJ	HANS RAJ SINGH
138.	JC 59857L	SUB MAJ	HARGOVIND PATHAK
139.	JC 32125L	SUB MAJ	HARIBANSH DUBEY
140.	JC 37293N	SUB MAJ	JAGJIT SINGH
141.	JC 64737W	SUB MAJ	KEHAR SINGH
142.	JC 59856H	SUB MAJ	KULA NAND SHARMA
143.	JC 42054H	SUB MAJ	MAN SINGH
144.	JC 52796W	SUB MAJ	MASSA SINGH
145.	JC 36786H	SUB MAJ	MUKHTIAR SINGH
146.	JC 48212H	SUB MAJ	PARTAP SINGH
147.	JC 59835M	SUB MAJ	PRITAM SINGH HAYRE
148.	JC 52141K	SUB MAJ	R GOPALA PILLAI
149.	JC 52770F	SUB MAJ	RR RAJPUT
150.	JC 53204N	SUB MAJ	RAM PARKASH
151.	JC 60212P	SUB MAJ	SATYA SWARUP SINGH
152.	JC 60218W	SUB MAJ	SOHAN SINGH
153.	JC 48218K	SUB MAJ	UPENDRO APATO
154.	JC 52847Y	SUB MAJ	WARAYAM SINGH
155.	JC 71155Y	SUB	BIDHI CHAND
156.	JC 75994N	SUB	CHARANJIT LAL
157.	JC 72937F	SUB	DHANI RAM SHARMA
158.	JC 71157K	SUB	HAWA SINGH
159.	JC 55146N	SUB	JANAK RAJ
160.	JC 74052L	SUB	O VISWAMBHARAN
161.	JC 71190F	SUB	SUSHIL RANJAN GHOSH

BRIGADE OF THE GUARDS

162.	JC 56398M	SUB MAJ	GOVIND GAIKWAD
163.	JC 67538N	SUB	CHIRANJI LAL
164.	JC 58605M	SUB	KHAZAN SINGH
165.	JC 68522P	SUB	MANGAL SINGH
166.	JC 66204M	SUB	MUNSHI RAM
167.	JC 81185K	SUB	RAM PRASHAD SHARMA

THE PARACHUTE REGIMENT

168.	JC 30750N	SUB MAJ	BISHAN SINGH
169.	JC 24782A	SUB MAJ	CHANDAN SINGH RAWAT
170.	JC 47096Y	SUB MAJ	RAM AUDH PANDEY
171.	JC 45866F	SUB	MANI RAM

THE PUNJAB REGIMENT

172.	JC 40425 F	SUB MAJ	SHANGARA SINGH
173.	JC 54003F	SUB	BALDEV SINGH
174.	JC 66040F	SUB	DARSHAN SINGH
175.	JC 58536F	SUB	GOBARDHAN CHAND KATOCH
176.	JC 48545P	SUB	GURDEV SINGH
177.	JC 72974P	SUB	KABAL SINGH
178.	JC 47587P	SUB	PARTAP SINGH
179.	JC 67171Y	SUB	RAM LAL
180.	JC 46611N	SUB	SHER SINGH
181.	JC 53873M	SUB	SHER SINGH
182.	JC 50166X	SUB	SUDARSHAN KUMAR

THE MADRAS REGIMENT

183.	JC 17167A	SUB MAJ	P BALARAMAN NAMBIAR
184.	JC 44873L	SUB MAJ	S ISRAEL
185.	JC 38592Y	SUB MAJ	T GOPAL KRISHNA
186.	JC 63984X	SUB	GANESAN
187.	JC 51149K	SUB	KUMARAN EZHUTHACHAN
188.	JC 49287M	SUB	M SANKARAN NAIR
189.	JC 65860F	SUB	TM DANIEL
190.	JC 46490X	SUB	VICTOR DAVID

THE GRENADIERS

191.	JC 47339Y	SUB MAJ	INDAR SINGH
192.	JC 16109K	SUB MAJ	MOHAN RAM
193.	JC 46588L	SUB MAJ	RANDHIR SINGH
194.	JC 48170F	SUB	AJI RAM
195.	JC 68129N	SUB	BUDH RAM
196.	JC 50006X	SUB	CHUNI LAL
197.	JC 72123H	SUB	RAM DHAN
198.	JC 36186A	SUB	RAMU LAL

THE MARATHA INFANTRY

199.	JC 42309X	SUB MAJ	DAJI SAWANT
200.	JC 37625M	SUB MAJ	DNYANESHWAR GORE
201.	JC 36538M	SUB MAJ	GOPAL INGLE
202.	JC 28054X	SUB MAJ	NANAJIRAO KADAM
203.	JC 26582H	SUB MAJ	PANDURANG MANE
204.	JC 17115K	SUB MAJ	RAGHUNATH SIRKE
205.	JC 32999Y	SUB MAJ	RAMCHANDRA JAGDALE
206.	JC 35636A	SUB MAJ	VASANT CHAVAN
207.	JC 39054X	SUB MAJ	YOGRAJ THAKRE
208.	JC 65048Y	SUB	ANANDRAO MANE
209.	JC 44023F	SUB	GANPATI PANURANG NAKIL
210.	JC 47428X	SUB	JAGADISH LAGAD
211.	JC 65047Y	SUB	PANDURANG LAGAD
212.	JC 50025H	SUB	RAJA RAM KADAM
213.	JC 50056H	SUB	RAM CHANDRA SONARE

14.	JC 77850Y	SUB	SAMBHAJI DATTU SHINDE
15.	JC 54721X	SUB	SHRIRANG NIKAM
THE RAJPUTANA RIFLES			
216.	JC 41357L	SUB MAJ	BHANWAR SINGH
217.	JC 49580K	SUB MAJ	KUNDAN SINGH RATHORE
218.	JC 45725M	SUB MAJ	MAN SINGH
219.	JC 24438P	SUB MAJ	RAGHBIR SINGH
220.	JC 60302W	SUB MAJ	RANBIR SINGH
221.	JC 48030P	SUB MAJ (RT)	SAYED AKRAM WARIS ABDI
222.	JC 78575F	SUB	GAJE SINGH
223.	JC 73003W	SUB	GAYA SINGH
224.	JC 68142W	SUB	HOSHIAR SINGH
225.	JC 56391H	SUB	MITTHAN SINGH
226.	JC 50573M	SUB	PHOOL SINGH
227.	JC 78384M	SUB	PHUL SINGH RAM
228.	JC 61978A	SUB	RAM AUTAR GUPTA
229.	JC 70900F	SUB	RAMCHANDER RAM
230.	JC 80019K	SUB	RAM KUMAR
231.	JC 65328P	SUB	RUP SINGH
232.	JC 49299F	SUB	TIRTHRAJ SINGH
THE RAJPUT REGIMENT			
233.	JC 19964K	SUB MAJ	MATU SINGH
234.	JC 36026A	SUB MAJ	RATI RAM
235.	JC 37978M	SUB MAJ	SARAB DEO TIWARI
236.	JC 35594Y	SUB MAJ	SAYAR SINGH
237.	JC 39182P	SUB MAJ	SHEORAJ SINGH
238.	JC 28347H	SUB MAJ	UMAR KHAN
239.	JC 20903Y	SUB MAJ	UMRAO SINGH
240.	JC 54184N	SUB	AMAR SINGH
241.	JC 50124L	SUB	BHAGWAN SAHAI
242.	JC 55836X	SUB	DALLE RAM
243.	JC 71525N	SUB	DIWAN SINGH GARIA
244.	JC 63726X	SUB	GIRRAJ SINGH
245.	JC 59239A	SUB	HARI SINGH
246.	JC 46345A	SUB	KARAN SINGH
247.	JC 68937K	SUB	KAUSHAL PRATAP SINGH
248.	JC 45634H	SUB	PANCHANAND SINGH
249.	JC 56408L	SUB	RAM DAS SINGH
250.	JC 59018N	SUB	RAM SINGH, SM
251.	JC 35529Y	SUB	RUP LAL
252.	JC 77484I	SUB	SHITAL SINGH
253.	JC 58685P	SUB	VIRENDRA SINGH
THE JAT REGIMENT			
254.	JC 37771M	SUB MAJ	DALIP SINGH
255.	JC 43908K	SUB MAJ	GOPI CHAND
256.	JC 36248P	SUB MAJ	PARTAP SINGH
257.	JC 55481X	SUB	BIRDHI CHAND
258.	JC 73680N	SUB	DAYA RAM
259.	JC 79453K	SUB	GHARS RAM
260.	JC 63804K	SUB	HET RAM
261.	JC 68502F	SUB	JAWAHAR SINGH
262.	JC 58168H	SUB	KARAN SINGH
263.	JC 77486W	SUB	NAHAR SINGH
264.	JC 68503K	SUB	NARAYAN SINGH
265.	JC 55945K	SUB	RUP CHAND
266.	JC 68447W	SUB	SAMAY SINGH
267.	JC 66990W	SUB	SURAJ MAL
268.	JC 61878A	SUB	TEJ RAM
THE SIKH REGIMENT			
269.	JC 20152H	SUB MAJ	DARSHAN SINGH
270.	JC 35895H	SUB MAJ	HARBANS SINGH

271.	JC 45635L	SUB MAJ	JOGINDER SINGH
272.	JC 51230W	SUB MAJ	KARNAIL SINGH
273.	JC 35882L	SUB MAJ	MOHINDER SINGH
274.	JC 34746H	SUB MAJ	MOHINDER SINGH
275.	JC 37038F	SUB MAJ	PIARA SINGH
276.	JC 44373N	SUB MAJ	SARWAN SINGH
277.	JC 72517F	SUB	DARSHAN SINGH
278.	JC 54052H	SUB	DEVENDAR SINGH
279.	JC 76503Y	SUB	HARNANDAN SINGH
280.	JC 50322W	SUB	JAGAT SINGH
281.	JC 76479N	SUB	SUKHDEV SINGH
282.	JC 69030H	SUB	TEJA SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

283.	JC 29464A	SUB MAJ	BAKSHISH SINGH
284.	JC 42489L	SUB MAJ	NASIB SINGH
285.	JC 44937L	SUB MAJ	PERSA SINGH
286.	JC 36548W	SUB MAJ	PRITAM SINGH
287.	JC 50138L	SUB	CHANAN SINGH
288.	JC 74669Y	SUB	CHAND SINGH
289.	JC 51724A	SUB	GURBACHAN SINGH
290.	JC 38611Y	SUB	HARDIAL SINGH

THE DOGRA REGIMENT

291.	JC 29020W	SUB MAJ	LAIK CHAND KATOCH
292.	JC 39136A	SUB MAJ	MAN SINGH
293.	JC 36666K	SUB MAJ	SHIV RAM
294.	JC 72998Y	SUB	HARI SINGH
295.	JC 74407L	SUB	INDAR SINGH
296.	JC 68450W	SUB	JOGISHWAR SINGH
297.	JC 64662K	SUB	KAHAN SINGH
298.	JC 77611P	SUB	KHIALI RAM
299.	JC 71488L	SUB	PIAR SINGH

THE GARHWAL RIFLES

300.	JC 35593W	SUB MAJ	BACHI RAM PUROHIT
301.	JC 42950W	SUB MAJ	BALWANT SINGH RAWAT
302.	JC 41390H	SUB MAJ	CHANDAR SINGH RANA
303.	JC 76889K	SUB	DALBIR SINGH BISHT
304.	JC 78569N	SUB	GABAR SINGH RAWAT
305.	JC 55043P	SUB	GANGA RAM BINJOLA
306.	JC 65195K	SUB	HARI DATT DHAUNDIYAL
307.	JC 64036A	SUB	JHABAN LAL LINGWAL
308.	JC 74005N	SUB	KISHORI LAL
309.	JC 62410Y	SUB	KUNWAR SINGH BHANDARI
310.	JC 84221P	SUB	RAJESHWAR PRASAD DHASMANA
311.	JC 63692P	SUB	SACHIDA NAND BADOLA

THE KUMAON REGIMENT

312.	JC 35504M	SUB MAJ	RAM KUMAR
313.	JC 39283H	SUB	AGYA RAM
314.	JC 67716L	SUB	AMAR SINGH
315.	JC 51236X	SUB	BALBIR SINGH
316.	JC 45028M	SUB	BALBIR SINGH YADAV
317.	JC 57677K	SUB	DAMODAR JOSHI
318.	JC 61848H	SUB	DEB SINGH
319.	JC 70239A	SUB	DEWAN SINGH
320.	JC 74404X	SUB	HARISH CHAND LA PANT
321.	JC 77493M	SUB	HAYAT SINGH
322.	JC 78465M	SUB	JAI NARAIN
323.	JC 76888F	SUB	LAXMI DATT JOSHI
324.	JC 51215F	SUB	PARTAP CHAND
325.	JC 75046K	SUB	PREM SINGH
326.	JC 74400P	SUB	PURNA NAND
327.	JC 74401K	SUB	PUSHKAR SINGH
328.	JC 68263X	SUB	SOHAN LAL

THE ASSAM REGIMENT

329.	JC 55899A	SUB MAJ	JUGADHAR BARUAH
330.	JC 45144P	SUB MAJ	MANGKHOHEN VAIPHEI
331.	JC 42262H	SUB MAJ	THANGKHOSAT HMAR
332.	JC 32958P	SUB MAJ	TLUANGA

THE BIHAR REGIMENT

333.	JC 29646N	SUB MAJ	JADUNATH SINGH YADAVA
334.	JC 54916H	SUB MAJ	MANAI GAGRAI
335.	JC 31342P	SUB MAJ	MARSHEL BHENGRA
336.	JC 31620F	SUB MAJ	RAM PUKAR SINGH
337.	JC 48416P	SUB MAJ	TRINATH BHOLA
338.	JC 63771K	SUB	PATRIC KUJUR
339.	JC 56158P	SUB	RAM RASIKA SINGH

THE MAHAR REGIMENT

340.	JC 60315N	SUB	BABU BANSODE
341.	JC 71587N	SUB	MOHAN SINGH
342.	JC 61886Y	SUB	TARLOK NATH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

343.	JC 33074P	SUB MAJ	HANS RAJ
344.	JC 27819F	SUB MAJ	HARNAM SINGH
345.	JC 31337K	SUB MAJ	JAGDISH SINGH
346.	JC 44218M	SUB MAJ	JANMEZ SINGH
347.	JC 37562P	SUB MAJ	KASHMIR SINGH
348.	JC 63850Y	SUB MAJ	PARMESHWARI SINGH
349.	JC 16688F	SUB MAJ	RATTAN SINGH
350.	JC 59925N	SUB MAJ	KHAJOOR SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

351.	JC 62A	SUB MAJ	JANAK SINGH
352.	JC 248K	SUB MAJ	MANGAL SEN SHARMA
353.	JC 208H	SUB MAJ	TRILOKI NATH KAUL
354.	JC 209L	SUB	GIRDHARI LAL

THE MACHANISED INFANTRY REGIMENT

355.	JC 42168N	SUB MAJ	AMAR NATH
356.	JC 59941L	SUB MAJ	MANI RAM
357.	JC 37305X	SUB MAJ	MULKH RAJ
358.	JC 37301F	SUB MAJ	NAGINDER SINGH
359.	JC 36949L	SUB MAJ	PADAM BAHADUR MALL
360.	JC 36138A	SUB MAJ	SHRE RAM PATHAK
361.	JC 18422N	SUB MAJ	SHUSHPAL SINGH
362.	JC 39378H	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH
363.	JC 67706F	SUB	BIR SINGH SAMYAL
364.	JC 62959M	SUB	GOVARDHAN GURUNG
365.	JC 62005F	SUB	JOGINDER SINGH
366.	JC 63796W	SUB	KHEM SINGH
367.	JC 75381N	SUB	MADAN SINGH RAWAT
368.	JC 77055K	SUB	PARTAP SINGH
369.	JC 74875L	SUB	PREM CHAND
370.	JC 47056X	SUB	RAMESH CHANDRA PANDEY
371.	JC 63984H	SUB	RIKHI RAM ATTRI
372.	JC 71290M	SUB	SARJIT SINGH, SM

1 GORKHA RIFLES

373.	JC 53450Y	SUB MAJ	KEWAL KRISHAN KAPUR
374.	JC 41944W	SUB MAJ	TIKA RAM RANA
375.	JC 64177P	SUB	DAYA RAM THAPA
376.	JC 51091X	SUB	DHURUB SINGH THAPA
377.	JC 71895N	SUB	RUDDAR SINGH GURUNG

3 GORKHA RIFLES

378.	JC 26706A	SUB MAJ	BIR BAHADUR THAPA
379.	JC 44123M	SUB MAJ	JAGAT BAHADUR THAPA
380.	JC 28810Y	SUB MAJ	MAN SING GURUNG

5 GORKHA RIFLES

381.	JC 44884X	SUB MAJ	HEMLAL GURUNG
382.	JC 44275 N	SUB MAJ	TEK BAHADUR GURUNG
383.	JC 68487 X	SUB	MOHAN SINGH THAPA

8 GORKHA RIFLES

384.	JC 43696 K	SUB MAJ	CHANDRA BIR GURUNG
385.	JC 53941P	SUB MAJ	GUMAN SINGH GURUNG
386.	JC 44875W	SUB MAJ	SAHABIR THAPA
387.	JC 37358W	SUB MAJ	TEK BAHADUR GURUNG
388.	JC 67329W	SUB	GHANBIR GURUNG
389.	JC 77511K	SUB	TEK BAHADUR GURUNG
390.	JC 56950F	SUB	TEK BAHADUR GURUNG
391.	JC 65086X	SUB	TULARAM THAPA

9 GORKHA RIFLES

392.	JC 58028L	SUB MAJ	GUSHIAN SINGH DHANIK
393.	JC 39978L	SUB MAJ	KHARKA BAHADUR SAHI
394.	JC 49067H	SUB MAJ	KHARKA BAHADUR SAHI

11 GORKHA RIFLES

395.	JC 44964 P	SUB MAJ	BAKHAT BAHADUR LIMBU
396.	JC 46093Y	SUB MAJ	JAGAT SING LAMA
397.	JC 40750 F	SUB MAJ	RATNA PRASAD DEWAN
398.	JC 58435N	SUB	AMRIT BAHADUR LIMBU
399.	JC 58592A	SUB	GOPAL PRADHAN
400.	JC 73080L	SUB	INDRA KUMAR DEWAN

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

401.	JC 26884P	SUB MAJ	BALDEV RAJ
402.	JC 21981H	SUB MAJ	BHAGAT RAM
403.	JC 50285N	SUB MAJ	CHANDER PARKASH
404.	JC 51274N	SUB MAJ	GURMEJ SINGH
405.	JC 21954Y	SUB MAJ	JAMNA DASS
406.	JC 26846 Y	SUB MAJ	NABIN CHANDRA
407.	JC 21955F	SUB MAJ	NAND KISHORE
408.	JC 60202L	SUB MAJ	NARAIN SINGA SOJLOT
409.	JC 21959X	SUB MAJ	PARKASH CHAND PARMAR
410.	JC 51273L	SUB MAJ	PRITHWISWOR CHAKRABORTY
411.	JC 51270X	SUB MAJ	RAJINDER PAL MOHAN
412.	JC 26837X	SUB MAJ	RAM NARAIN SINGH
413.	JC 57458H	SUB MAJ	RAS BEHARI DASH
414.	JC 29709L	SUB MAJ	SAILENDRA PRASAD
415.	JC 21980A	SUB MAJ	SAKTI PRASAD KAR
416.	JC 57425X	SUB MAJ	SUKH PAL SINGH
417.	JC 26848K	SUB MAJ	TRILOK SINGH
418.	JC 51382X	SUB MAJ	VG GEORGE
419.	JC 29708H	SUB MAJ	VRIDHI SINGH CHAUHAN
420.	JC 69796M	SUB	ATMA RAM NAWLE
421.	JC 65467Y	SUB	CHANDER BALLI SINGH
422.	JC 57015F	SUB	DHIAN SINGH
423.	JC 73303W	SUB	GAURI SINGH
424.	JC 50637A	SUB	GOKULA NAND BHATT
425.	JC 69799A	SUB	GURNAM SINGH LOTAY
426.	JC 59643P	SUB	HARI SINGH YADAV
427.	JC 57008L	SUB	HARMESH LAL
428.	JC 65456M	SUB	ISHAR SINGH
429.	JC 29823H	SUB	K KUNHI KRISHNA KURUP
430.	JC 65457P	SUB	KAMALA PRASAD PANIGRAHI
431.	JC 47485Y	SUB	KESAR SINGH SHAHI
432.	JC 40562A	SUB	MEHNGA RAM
433.	JC 68797H	SUB	MUKHTIAR SINGH
434.	JC 63534A	SUB	OM PARKASH
435.	JC 59629H	SUB	P PATTABHI RAMAIAH
436.	JC 61348L	SUB	PS GOPALAN

437.	JC 69797P	SUB	PV KUNHI RAMAN NAMBIAR
438.	JC 69809Y	SUB	R DHARMA RAJAN
439.	JC 57608N	SUB	RABINDRA CHANDRA DUTTA ROY
440.	JC 65459A	SUB	RAM JANAM SINGH
441.	JC 75513W	SUB	RAM KISHAN SINGH
442.	JC 59667Y	SUB	RAM SINGH
443.	JC 57626W	SUB	SHAM RAO SALUNKHE
444.	JC 69017F	SUB	SHAM SUNDER
445.	JC 69798X	SUB	SUJIT KUMAR GHOSH
446.	JC 69791N	SUB	UTTAM SINGH
447.	JC 65460P	SUB	VENKATA SUBBARAO DEVANENI

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

448.	JC 34938A	RIS MAJ	DHARAM SINGH
449.	JC 17873F	RIS MAJ	PADMA DATT
450.	JC 17741N	RIS MAJ	URBA DATT

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

451.	JC 42022A	SUB MAJ	CHARAN SINGH
452.	JC 42023H	SUB MAJ	CHUNI LALL
453.	JC 43364A	SUB MAJ	JAGANATHAN
454.	JC 41854P	SUB MAJ	LABH SINGH
455.	JC 42671L	SUB MAJ	MAHA SINGH
456.	JC 43468 F	SUB MAJ	MOHAN SINGH NEGI
457.	JC 41847Y	SUB MAJ	MOHINDER SINGH SAROHI
458.	JC 42675F	SUB MAJ	NACHHITTAR SINGH
459.	JC 42028F	SUB MAJ	PARTAP SINGH
460.	JC 43355Y	SUB MAJ	SARUP SINGH
461.	JC 43354W	SUB MAJ	TARSEEM SINGH
462.	JC 43510P	SUB MAJ	VALANPARAMBIL PADMANABHA
			PILLAI BALAKRISHNAN NAIR
463.	JC 41877A	SUB MAJ	VASUDEVAN
464.	JC 43359P	SUB MAJ	WALITI LAL
465.	JC 75519X	SUB	ARULAND
466.	JC 75853F	SUB	BANI SINGH
467.	JC 78027K	SUB	CHET RAM
468.	JC 75529F	SUB	HARI SINGH
469.	JC 75528Y	SUB	ISHWAR SINGH
470.	JC 75518P	SUB	JASWANT SINGH
471.	JC 75535P	SUB	JOGINDER SINGH
472.	JC 75530W	SUB	KISHORI LAL
473.	JC 75521P	SUB	MUNI PANDEY
474.	JC 76570F	SUB	OM PARKASH
475.	JC 75520M	SUB	RAGHBIR SINGH
476.	JC 78016X	SUB	RAM NATH
477.	JC 75524H	SUB	RATTI RAM
478.	JC 76573X	SUB	ROSHAN LAL SHARMA

ARMY MEDICAL CORPS

479.	JC 68741W	SUB MAJ	CHATTAR SINGH
480.	JC 67482M	SUB MAJ	SAHTAR SINGH
481.	JC 68792K	SUB	BALDEV KUMAR
482.	JC 45692M	SUB	DINESHWAR SINGH
483.	JC 77834M	SUB	PRABHAKAR JOSHI
484.	JC 77124P	SUB	PRATAP SINGH RAWAT
485.	JC 79380H	SUB	SHIO PUJAN SINGH
486.	JC 63286P	SUB	VITHAL

ARMY ORDNANCE CORPS

487.	JC 38298Y	SUB MAJ	MANGAL SINGH
488.	JC 50451W	SUB MAJ	MASTAN SINGH
489.	JC 49317Y	SUB MAJ	N SETHU MADHAVAN NAIR
490.	JC 65733M	SUB	AJAM-O-DIN BHALDAR
491.	JC 76619P	SUB	AMAR SINGH

492.	JC 68404A	SUB	CHANDRA SHEKHAR TEWARI
493.	JC 67764L	SUB	DURGA DATT JOSHI
494.	JC 68363H	SUB	HARI SHANKAR PANT
495.	JC 65710L	SUB	HARIHAR PRASAD
496.	JC 65696K	SUB	JANENDRA CHANDRA DHAR
497.	JC 80641N	SUB	JOGINDER SINGH
498.	JC 64416Y	SUB	KALI SAHAI TIWARI
499.	JC 68362A	SUB	KULWANT SINGH
500.	JC 66831Y	SUB	MANISH BHUSHAN DAS
501.	JC 68361X	SUB	MATHEW PT
502.	JC 66827W	SUB	MOHD SHABEER ALI KHAN
503.	JC 70593P	SUB	PALTU RAM
504.	JC 67743P	SUB	SADASHIV VINAYAK MUNGALE
505.	JC 66837A	SUB	SHISH PAL SINGH
506.	JC 76609L	qUB	SHYAM NARAIN CHAUBE
507.	JC 78262H	SUB	SULTAN SINGH DASS
508.	JC 69332P	SUB	SUBRATA CHOWDHURY

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

509.	JC 54546N	SUB MAJ	AN MOHAN
510.	JC 54293K	SUB MAJ	AMAR SINGH
511.	JC 38959N	SUB MAJ	C RAMACHANDRAN MENON
512.	JC 28878H	SUB MAJ	CHHAKAN LAL
513.	JC 39663F	SUB MAJ	DHARAM PAUL SAMANT
514.	JC 33889W	SUB MAJ	DWARKA PRASAD GUPTA
515.	JC 33891N	SUB MAJ	GURDIAL SINGH
516.	JC 33920X	SUB MAJ	JASWANT SINGH
517.	JC 38722W	SUB MAJ	KR CHAPHEKAR
518.	JC 36306N	SUB MAJ	KAMAL DEV
519.	JC 36305L	SUB MAJ	KAPAL DEO
520.	JC 33886H	SUB MAJ	KARTICK CHANDRA RAHA
521.	JC 36313K	SUB MAJ	KIRPAL SINGH
522.	JC 38699N	SUB MAJ	LAKHMI CHAND
523.	JC 52930W	SUB MAJ	M THYAGARAJU
524.	JC 54580N	SUB MAJ	MOHAN LAL
525.	JC 56582X	SUB MAJ	PREM SINGH
526.	JC 45977Y	SUB MAJ	RAM NATH
527.	JC 38753W	SUB MAJ	SAMPURN SINGH
528.	JC 32640X	SUB MAJ	SUDHIR CHANDRA SUTRADHAR
529.	JC 33918A	SUB MAJ	SURAJMAL
530.	JC 46439X	SUB MAJ	WARYAM SINGH
531.	JC 46685H	SUB MAJ	ZILE SINGH JOON
532.	JC 56534X	SUB	ABASAHEB JADHAV
533.	JC 56601X	SUB	AMARJIT SINGH
534.	JC 76727Y	SUB	ANANT TENI
535.	JC 56544F	SUB	BAKHSISH SINGH
536.	JC 69375K	SUB	CP KUNHIRAMAN NAMBIAR
537.	JC 65131A	SUB	CHANDRABHAN SINGH
538.	JC 52917M	SUB	DHARAM CHAND
539.	JC 56558F	SUB	DHRUBA CHARAN OJHA
540.	JC 56368P	SUB	HANUMAN SINGH JODHA
541.	JC 65133K	SUB	HUKAM CHAND
542.	JC 67831 L	SUB	JAGJIT SINGH
543.	JC 54277M	SUB	PARTAP SINGH
544.	JC 56359N	SUB	RAM DHAR DUBE
545.	JC 70719K	SUB	RAM DHARI
546.	JC 74578X	SUB	RAM KRISHAN SINGH
547.	JC 74576M	SUB	RAM KUMAR PANDEY
548.	JC 56533P	SUB	RAM PRASAD DUBEY
549.	JC 63115H	SUB	S KRISHNAKARNAVAR
550.	JC 72293M	SUB	SATWANT SINGH
551.	JC 63137F	SUB	SHRIRAM KHEDKAR
552.	JC 59164N	SUB	SUBE SINGH
553.	JC 63130X	SUB	VC PHILIP

554.	JC 52425N	SUB	VAS DEV
555.	JC 58818A	SUB	VIDYA SAGAR DOGRA
ARMY EDUCATION CORPS			
556.	JC 26673M	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH YADAVA
557.	JC 22145L	SUB MAJ	BHARAT SINGH BATAN
557.	JC 47134K	SUB MAJ	GANESH PARSHAD PATEL
559.	JC 21325F	SUB MAJ	LAL CHAND SETHI
560.	JC 22155P	SUB MAJ	MAM CHAND
561.	JC 21314P	SUB MAJ	RATTAN SINGH GIANI
562.	JC 31171N	SUB MAJ	SOMA RAM KAPUR
563.	JC 21318L	SUB MAJ	UMRAO SINGH THAKUR
564.	JC 76920L	SUB	AJIT SINGH
565.	JC 66589P	SUB	ATTAR SINGH
566.	JC 77204M	SUB	AVTAR SINGH NIJJAR
567.	JC 77530P	SUB	BUDHI CHAND RANA
568.	JC 74385X	SUB	CHANDER DUTT SHARMA
569.	JC 73084F	SUB	GURMIT SINGH
570.	JC 66098Y	SUB	JAG RAM
571.	JC 66592P	SUB	KISHAN SINGH
572.	JC 66593X	SUB	PHOOL SINGH
573.	JC 66100L	SUB	RAM BABOO PANDEY
574.	JC 76563N	SUB	RAM BIR SINGH GAUR
575.	JC 73656X	SUB	RAM PAR KASH SANDHIR
576.	JC 66615L	SUB	RANJEET SINGH
577.	JC 66605F	SUB	SHANKAR SINGH
578.	JC 77208H	SUB	SUKHCHAIN SINGH
REMOUNT VETERINARY CORPS			
579.	RV 7190A	RIS MAJ	ASHA NANDAN SINGH
THE INTELLIGENCE CORPS			
580.	JC 32465N	SUB MAJ	KISHAN SINGH
581.	JC 33548L	SUB MAJ	RAMA KARAN SINGH
582.	JC 32464L	SUB MAJ	RATI RAM
583.	JC 32466W	SUB MAJ	SHANKER SINGH BISHT
584.	JC 68770L	SUB	BALJIT SINGH
585.	JC 62443K	SUB	K KANAKARAJU
586.	JC 44453L	SUB	KULDIP SINGH
587.	JC 41696L	SUB	SHER SINGH KARKI
588.	JC 43921N	SUB	VEDANAYAGAM
CORPS OF MILITARY POLICE			
589.	JC 78115A	SUB	CHITRA MANI BHATT
THE PIONEER CORPS			
590.	JC 50534F	SUB MAJ	PRAHLAD RAM
DEFENCE SECURITY CORPS			
591.	JC 8535	SUB MAJ	AVTAR SINGH
592.	JC 71019	SUB MAJ	BISHWA NATH SINGH
593.	JC 76380	SUB MAJ	SASHI RAM
594.	JC 63892	SUB MAJ	SHYAM LAL YADAV
595.	JC 64862	SUB MAJ	SREE RAM SINGH
596.	JC 58891	SUB MAJ	TG YOHANNAN
597.	JC 77550	SUB	L KIRUPACHARAN

सं० 2 ई दिनांक 23 जनवरी 1982-राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 1982) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी एमो को उनके अवकाश प्राप्त करने पर सेना विनियमावली 1962 के पैरा 180 के अधीन उनके नाम के सामने की गई तारीख से अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :-

अवैतनिक कौशल के रैंक में

वी प्रेसिडेंट्स बाइयोग्राफ

1. जे सी 52354 एकस

रिसालदार मेजर व अवैतनिक सेफ्टिनेट

जगदीश सिंह

01-01-32

14 हील

2.	जे सी 72959 ए	रिसालदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बाबू सिंह	01-09-81
3.	जे सी 70264 एक्स	रिसालदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	शिव राम वर्मा	01-12-81
4.	जे सी 70793 एल	रिसालदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सीता राम वर्मा	01-01-82

4 हील

5.	जे सी 75043 डबल्यू	रिसालदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मलकियत सिंह गुरेवाल	01-11-81
----	--------------------	-------------------------------	---------------------	----------

70 फार्मेट रेजीमेंट

6.	जे सी 60396 बार्ड	रिसालदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	धर्मराज सिंह	01-11-81
7.	जे सी 67416 के	रिसालदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सेवा सिंह	01-12-81

87 फार्मेट रेजीमेंट

8.	जे सी 75291 एम	रिसालदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	निर्मल सिंह	01-01-82
9.	जे सी 58387 बार्ड	रिसालदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राम सम्हार सिंह	01-12-81

फार्मेट कोर

10.	जे सी 47352 एच	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	कुशलपाल सिंह	01-09-81
-----	----------------	------------------------------------	--------------	----------

रेजीमेंट आफ आर्टिलरी

11.	जे सी 33411 बार्ड	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	ए इनासी सुबू	01-12-81
12.	जे सी 45364 बार्ड	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भरत सिंह	01-10-81
13.	जे सी 25897 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भीम सिंह	01-09-81
14.	जे सी 95072 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	छबी नाथ सिंह	01-01-82
15.	जे सी 49526 डबल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुलाब सिंह	01-09-81
16.	जे सी 32807 डबल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जसवंत सिंह	01-10-81
17.	जे सी 25871 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के प्रभुचम	01-09-81
18.	जे सी 26911 डबल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एम सेतुभाबन	01-09-81
19.	जे सी 17294 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रणवीर सिंह	01-09-81
20.	जे सी 28627 डबल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	शिव शंकर मूलगे	01-01-82
21.	जे सी 24214 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सुशील कुमार दत्ता	01-01-82
22.	जे सी 70068 बार्ड	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	ए एस राब	01-11-81
23.	जे सी 53664 पी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	धर्म सिंह	01-11-81
24.	जे सी 55226 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भाग सिंह	01-11-81
25.	जे सी 66798 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सी पी अली	01-12-81
26.	जे सी 68229 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	छज्जू राम शर्मा	01-12-81
27.	जे सी 73649 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	धर्म पाल	01-01-82
28.	जे सी 62537 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हनुमन्त नानावरे	01-10-81
29.	जे सी 55878 के	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हरभजन सिंह	01-12-81
30.	जे सी 55877 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जरनैल सिंह मन्थू	01-12-81
31.	जे सी 73408 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जोगिन्दरपाल सिंह	01-12-81
32.	जे सी 55224 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के भारीसामी	01-10-81
33.	जे सी 69732 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के एन लक्ष्मन्	01-09-81
34.	जे सी 68223 डबल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के वी केशवन कुट्टी मेनन	01-01-82
35.	जे सी 73412 के	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	करनैल सिंह	01-01-82
36.	जे सी 64201 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	काशीनाथ सेल	01-10-81
37.	जे सी 59788 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	खाल बहादुर	01-09-81
38.	जे सी 75096 पी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एम जयरतनम	01-11-81
39.	जे सी 70083 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	नारायण स्वामी	01-09-81
40.	जे सी 73402 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रघवीर सिंह	01-01-82
41.	जे सी 76282 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रघवीर सिंह यादव	01-11-81
42.	जे सी 51305 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राम कंवर	01-12-81
43.	जे सी 55874 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राम कुमार सिंह	01-09-81
44.	जे सी 58649 के	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सदाशिव पाटिल	01-10-81
45.	जे सी 62579 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सुधाराम राव	01-09-81
46.	जे सी 66456 बार्ड	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वी आर रामकृष्णन	01-11-81

महाराष्ट्र इन्जीनियर ग्रुप

47.	जे सी 28284 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के परसुराम तावनिपल लीनोई	01-09-81
48.	जे सी 45807 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भार वासुदेवन नायर	01-12-81
49.	जे सी 58373 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	टी के गोपाल	01-10-81

बंगाल इन्जीनियर ग्रुप

50.	जे सी 43055 एकस	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जीत सिंह	01-10-81
51.	जे सी 43512 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	कृष्ण चन्द्र प्रबुद्धी	01-10-81
52.	जे सी 26495 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मोहम्मद अब्दुल्ला	01-11-81
53.	जे सी 28260 एक	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सतपाल शर्मा	01-10-81
54.	जे सी 44450 एकस	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बी दुर्गेयन्दी	01-01-82
55.	जे सी 48418 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वासुदेवा पार्नाकर	01-09-81
56.	जे सी 33521 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बिम्बानाथ जोशी	01-09-81
57.	जे सी 70488 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जी प्रसाद राव	01-12-81
58.	जे सी 61687 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जय सिंह	01-09-81
59.	जे सी 70785 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मारायण दत्त	01-12-81
60.	जे सी 64677 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	उमेश सिंह	01-10-81

बीम्बे इन्जीनियर ग्रुप

61.	जे सी 47663 डबल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वसंत सिंह	01-10-81
62.	जे सी 67040 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रघुनाथ पाषाण्डे	01-10-81

कोर झाफ सिगनल

63.	जे सी 37944 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	ए ए पी लोसे	01-10-81
64.	जे सी 37947 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अलीन नाथ मित्रा	01-01-82
65.	जे सी 52794 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जी परमेश्वरन पिल्ले	01-01-82
66.	जे सी 29430 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के गोपालाकृष्णन नायर	01-11-81
67.	जे सी 42045 एक	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	कुलदीप सिंह	01-11-81
68.	जे सी 32055 एकस	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एम टी चेरियान	01-01-82
69.	जे सी 32508 एकस	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मलकीत सिंह	01-10-81
70.	जे सी 31288 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	व्यास सिंह	01-12-81
71.	जे सी 32085 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	पिशोरी लाल	01-09-81
72.	जे सी 52793 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बी एस जोर्ज	01-12-81
73.	जे सी 68013 डबल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सी मुनीस्वामी	01-12-81
74.	जे सी 70352 पी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	देवा प्रसाद चक्रवर्ती	01-10-82
75.	जे सी 60620 के	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बयानू पाटिल	01-10-81
76.	जे सी 73776 डबल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	किशोरी लाल तारा	01-11-81
77.	जे सी 74049 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मोहन लाल	01-11-81
78.	जे सी 60230 एकस	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	श्रीम प्रकाश खन्ना	01-01-82
79.	जे सी 60251 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	पी कुटालम	01-11-81
80.	जे सी 71201 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राम बली सिंह	01-01-82
81.	जे सी 60250 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सत्येन्द्र कुमार चन्ना	01-09-81
82.	जे सी 74048 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	उपकार सिंह	01-11-81

बी ब्रिगेड झाफ बी गार्ड्स

83.	जे सी 42408 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सीम राम	01-11-81
-----	---------------	-----------------------------------	---------	----------

बी पैराशूट रेजीमेंट

84.	जे सी 31461 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गणेश सिंह	01-01-82
85.	जे सी 37555 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	नाथू राम ठाकुर	01-12-81

बी पंजाब रेजीमेंट

86.	जे सी 50162 एक	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	करतार सिंह	01-12-81
87.	जे सी 50167 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मन्तर सिंह गुरवाल	01-10-81
88.	जे सी 33542 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सुरिन्दर कुमार	01-10-81
89.	जे सी 52617 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अमर सिंह	01-10-81

90.	जे सी 58378 एकस	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	भमरीक सिंह	01-11-81
91.	जे सी 48395 के	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	जगवीर सिंह	01-09-81
92.	जे सी 62949 एक	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	किशन सिंह	01-12-81
93.	जे सी 64772 वार्ड	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	मस्त राम	01-01-82
94.	जे सी 66936 एक	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	प्रेम चन्द	01-12-81
95.	जे सी 50502 वार्ड	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	रतन सिंह	01-11-81
96.	जे सी 62948 ए	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	संतोष सिंह	01-10-81
97.	जे सी 56326 एक	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	शेर सिंह	01-01-82

बी मद्रास रेजीमेंट

98.	जे सी 36734 एम	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	के गोविन्दकुटि नायर	01-09-81
99.	जे सी 44947 पी	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	एस चन्द्र राजन	01-12-81
100.	जे सी 63960 एन	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	ई कुन्दिरामन मारार	01-01-82
101.	जे सी 68749 एक	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	जी राजा	01-10-81
102.	जे सी 48069 एक	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	के ए वीरास्वामी	01-09-81
103.	जे सी 74846 ब्रह्म	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	पम्पिकयम एन	01-09-81
104.	जे सी 44689 ए	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	वी यु उर्मिकुण्णन नायर	01-01-82
105.	जे सी 38593 एक	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	वी वी कुट्टिकन	01-10-81

बी पैमिडियर्स

106.	जे सी 36919 एन	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	अम्बुल मजीद	01-01-82
107.	जे सी 48166 वार्ड	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	बलर सिंह	01-01-82
108.	जे सी 23290 पी	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	बुर्गा सिंह	01-01-82
109.	जे सी 35821 एन	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	नंद राम	01-12-81
110.	जे सी 22054 एक	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	नाजीर खाँ	01-10-81
111.	जे सी 23287 पी	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	पसे सिंह	01-01-82
112.	जे सी 41914 वार्ड	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	किशन चंद	01-11-81
113.	जे सी 35934 ब्रह्म	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	मान सिंह	01-09-81

बी माराठा लाइट इन्फैंट्री

114.	जे सी 41748 एल	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	विष्णू कृष्णा खेराडे	01-01-82
115.	जे सी 40648 वार्ड	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	मिकू साणूके	01-10-81
116.	जे सी 62934 ए	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	गोविन्द नामबियार ए के	01-10-81
117.	जे सी 49497 एम	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	नारायण मोहिते	01-11-81
118.	जे सी 46360 पी	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	वेंकटेश नाईक	01-12-81

बी राजपुताना राईफल्स

119.	जे सी 39443 एकस	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	दया राम	01-01-82
120.	जे सी 15994 के	"	सुमेर सिंह चौहान	01-11-81
121.	जे सी 22742 ए	"	विजयवीर सिंह	01-01-82
122.	जे सी 62763 वार्ड	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	बबलू राम	01-10-81
123.	जे सी 46726 एक	"	मंगे राम	01-01-82
124.	जे सी 67495 के	"	मेहताब सिंह	01-10-81
125.	जे सी 60328 एम	"	नन्द राम ; शीर्य चक्र	01-09-81
126.	जे सी 72541 एकस	"	शीतला प्रसाद सिंह	01-12-81
127.	जे सी 38102 ए	"	उदित नारायण सिंह	01-09-81

बी राजपुत रेजीमेंट

128.	जे सी 24941 एम	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	मुख्तार सिंह	01-10-81
129.	जे सी 21095 वार्ड	"	सत राम	01-01-82
130.	जे सी 25638 एकस	"	विधराज सिंह	01-09-81
131.	जे सी 42907 पी	सूबेदार व प्रवैतनिक लेफ्टिनेंट	भीम सिंह	01-10-81
132.	जे सी 48973 एम	"	हरी सिंह	01-11-81
133.	जे सी 39183 एकस	"	मुरी सिंह	01-09-81
134.	जे सी 46827 पी	"	मयाद सिंह	01-12-81

135.	જે સી 47849 એ	સુબેદાર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	નેત રામ	01-01-82
136.	જે સી 66522 ઢક્લ્લુ	"	પ્રભાકર સહસરા મુલે	01-12-81
137.	જે સી 48148 ઢક્લ્લુ	"	રેવતી લાલ	01-10-81

બી જાલ રેજીમેન્ટ

138.	જે સી 29628 એમ	સુબેદાર મેજર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	હર કિશન	01-01-82
139.	જે સી 34399 પી	"	રાય સિહ	01-09-81
140.	જે સી 60508 એન	સુબેદાર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	મર્જુન સિહ	01-09-81
141.	જે સી 67699 ઢક્લ્લુ	"	બાપુ લાલ	01-10-81
142.	જે સી 67188 એમ	"	નાંદ રામ	01-12-81
143.	જે સી 39067 પી	"	મલીપ સિહ	01-11-81
144.	જે સી 68934 ઢક્લ્લુ	"	જુગ લાલ	01-10-81
145.	જે સી 69991 કે	"	મોન પ્રભાજ	01-11-81
146.	જે સી 68490 એક્સ	"	મમુ રામ	01-01-82
147.	જે સી 70849 એમ	"	પરશાદી લાલ	01-11-81
148.	જે સી 67189 પી	"	ફૂલ સિહ	01-01-82
149.	જે સી 49264 એલ	"	રામ સિહ	01-09-81
150.	જે સી 75118 એમ	"	રેખા રામ	01-01-82
151.	જે સી 51041 એમ	"	ભેજ પાલ સિહ	01-01-82

બી કિશ રેજીમેન્ટ

152.	જે સી 31211 કે	સુબેદાર મેજર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	મુરબીપ સિહ	01-01-82
153.	જે સી 35607 એલ	સુબેદાર મેજર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	હરી સિહ, બી એલ એલ	01-01-82
154.	જે સી 35892 પી	સુબેદાર મેજર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	મુરજન સિહ	01-12-81
155.	જે સી 70864 એફ	સુબેદાર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	મલીપ સિહ	01-11-81
156.	જે સી 75256 કે	"	હરભન્ન સિહ	01-10-81
157.	જે સી 48156 પી	"	હરદીપ સિહ	01-11-81
158.	જે સી 52620 એલ	"	મગત સિહ	01-12-81
159.	જે સી 58215 કે	"	મિતમ સિહ	01-12-81
160.	જે સી 72160 ઢક્લ્લુ	"	ભંગારા સિહ	01-01-82

બી સિલ્હ લાલ ઢ કમ્પેન્ટી

161.	જે સી 35487 એક્સ	સુબેદાર મેજર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	ફૂલચન્ન સિહ	01-01-82
162.	જે સી 48079 એલ	"	સોહન સિહ	01-09-81
163.	જે સી 38614 એમ	"	મુરજીત સિહ	01-01-82
164.	જે સી 50030 એન	સુબેદાર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	મપૂર સિહ	01-09-81
165.	જે સી 50031 ઢક્લ્લુ	"	મોહિન્દર સિહ	01-12-81
166.	જે સી 50614 વાર્ડ	સુબેદાર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	મોહિન્દર સિહ	01-01-82
167.	જે સી 43046 ઢક્લ્લુ	"	પ્રકાશ સિહ	01-12-81

બી ડોગરા રેજીમેન્ટ

168.	જે સી 35766 એલ	સુબેદાર મેજર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	ચતારકા સિહ	01-01-82
169.	જે સી 33444 કે	"	હાકમ સિહ	01-12-81
170.	જે સી 42370 એફ	"	પ્રેમ સિહ	01-11-81
171.	જે સી 70191 એક્સ	સુબેદાર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	વિક્રમ સિહ	01-09-81
172.	જે સી 59302 કે	"	જબાહર લાલ	01-10-81
173.	જે સી 66174 એ	"	કરતાર સિહ	01-01-82
174.	જે સી 65097 કે	"	પુની ચંદ કટોચ	01-09-81
175.	જે સી 73981 એક્સ	"	પુર્વ સિહ	01-01-82
176.	જે સી 68287 એફ	"	રોહન લાલ	01-11-81
177.	જે સી 63781 એમ	"	રોહન લાલ	01-12-81
178.	જે સી 63686 એફ	"	સંત રાય	01-12-81

બી ગઢવાલ રાહસક્ષ

179.	જે સી 39167 એ	સુબેદાર મેજર વ ધર્મતત્તિક લેફ્ટનન્ટ	મલીપ સિહ બિન્ડ	01-09-81
180.	જે સી 35381 એલ	"	મજબન્ન સિહ મુલર	01-01-82

181.	जे सी 72477 एल	सूबेदार व अवैतनिक सैफिदनेट	बालम सिंह रावत	01-12-81
182.	जे सी 50349 एल	"	बलबीर सिंह बिष्ट	01-09-81
183.	जे सी 61857 के	"	बलबीर सिंह रावत	01-09-81
184.	जे सी 62571 एफ	"	बनोप सिंह बिष्ट	01-09-81
185.	जे सी 63035 एल	"	बीत सिंह राणा	01-01-82
186.	जे सी 55421 एल	"	कुंवर सिंह रौतागंजी	01-11-81

बी कुमाऊं रेजीमेंट

187.	जे सी 42760 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सैफिदनेट	चिरन्जी लाल यादव	01-01-82
188.	जे सी 41 982 एम	"	जनार्दन पन्त	01-10-81
189.	जे सी 41983 पी	"	जोहर सिंह पवार	01-10-81
190.	जे सी 30740 के	"	केशव बरत	01-12-81
191.	जे सी 33468 एल	"	खुशाश सिंह	01-01-82
192.	जे सी 70201 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक सैफिदनेट	भगवत सिंह	01-12-81
193.	जे सी 66585 बाई	"	देव सिंह	01-01-82
194.	जे सी 63917 एम	"	दिवान सिंह बानी	01-09-81
195.	जे सी 68956 पी	"	गिरीश चन्द्र पंडे	01-01-82
196.	जे सी 60513 बाई	"	हरीश चन्द्र	01-01-82
197.	जे सी 58967 एल	"	महेन्द्र सिंह	01-01-82
198.	जे सी 77492 के	"	उमेश सिंह	01-01-82

बी असम रेजीमेंट

199.	जे सी 28619 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सैफिदनेट	लक्ष्मणा	01-11-81
200.	जे सी 62936 एल	सूबेदार व अवैतनिक सैफिदनेट	हरचरण सिंह संग्रा	01-10-81
201.	जे सी 70860 एल	"	जयन्ती बास शर्मा	01-10-81
202.	जे सी 59045 एक्स	"	प्रेमनाथ	01-11-81

बी बिहार रेजीमेंट

203.	जे सी 52118 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सैफिदनेट	मोको राम झांसी	01-01-82
204.	जे सी 33446 पी	"	नानु प्रसाद सिंह	01-11-81
205.	जे सी 74366 एम	सूबेदार व अवैतनिक सैफिदनेट	राम परवेश तिवारी	01-01-82
206.	जे सी 71906 पी	"	रामा सिंह	01-01-82

बी महार रेजीमेंट

207.	जे सी 33946 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सैफिदनेट	साहबराव मंगोडे	01-12-81
208.	जे सी 69069 पी	सूबेदार व अवैतनिक सैफिदनेट	बहादुर सिंह	01-09-81
209.	जे सी 47370 एल	"	भोक् जाधव	01-09-81
210.	जे सी 43892 के	"	जगत सिंह	01-12-81
211.	जे सी 67786 के	"	कन्हैया लाल	01-09-81
212.	जे सी 58128 डब्ल्यू	"	नैन सिंह मेगी	01-11-81
213.	जे सी 44576 एक्स	"	नामदेव बन्गोरे	01-09-81

बी जम्मू एवं कश्मीर राइफल

214.	जे सी 13747 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सैफिदनेट	अबुल गनी	01-09-81
215.	जे सी 48686 ए	सूबेदार व अवैतनिक सैफिदनेट	दिवान सिंह	01-10-81
216.	जे सी 49849 बाई	"	प्रतीम सिंह	01-10-81

बी जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री

217.	जे सी 271 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक सैफिदनेट	जगीर सिंह	01-10-81
218.	जे सी 91941 बाई	"	जोमकार सिंह, सेना मेडल	01-11-81
219.	जे सी 92139 पी	"	प्रेम सिंह धनवाल	01-10-81

बी मैकनाईज्ड इन्फेन्ट्री रेजीमेंट

220.	जे सी 22925 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सैफिदनेट	मनसा राम	01-09-81
221.	जे सी 37528 पी	"	पी श्रीरामपी	01-10-81
222.	जे सी 31346 एल	"	पार सिंह रावत	01-01-82

223.	જે સી 18505 વાઈ	સૂબેદાર મેજર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	રામકુલારે સિંહ	01-11-81
224.	જે સી 61834 એચ	સૂબેદાર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	ગુરુદુવ સિંહ, બીર જાક	01-11-81
225.	જે સી 41880 ડબ્લ્યુ	"	અસવન્ત સિંહ	01-10-81
226.	જે સી 37610 કે	"	મનોહર લાલ	01-11-81
227.	જે સી 50328 એક્સ	"	મેલા સિંહ	01-12-81
228.	જે સી 71873 પી	"	રાજેન્દ્ર સિંહ	01-10-81
229.	જે સી 50345 એક્સ	"	રામ સરુપ	01-01-82

1 ગોરખા રાઇફલ્સ

230.	જે સી 34425 એલ	સૂબેદાર મેજર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	જમ્ના બહાદુર ગુરંગ	01-11-81
231.	જે સી 35335 ડબ્લ્યુ	"	દમ્માન સિંહ ગુરંગ	01-01-82
232.	જે સી 49840 કે	"	સંત રામ રસૈલી	01-09-81
233.	જે સી 76924 એફ	સૂબેદાર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	ટેક બહાદુર બાપા	01-12-81

3 ગોરખા રાઇફલ્સ

234.	જે સી 48432 એમ	સૂબેદાર મેજર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	બિન બહાદુર ગુરંગ	01-11-81
235.	જે સી 62427 એમ	સૂબેદાર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	ધસ બહાદુર ગુરંગ	01-12-81
236.	જે સી 65532 એમ	"	દેવ બહાદુર ગુરંગ	01-01-82
237.	જે સી 64625 ડબ્લ્યુ	"	હસ્તા બહાદુર રાના	01-12-81
238.	જે સી 66325 એન	"	ધન પ્રગાથ ગુરંગ	01-11-81
239.	જે સી 64627 એફ	"	યમ બહાદુર ગુરંગ	01-11-81

4 ગોરખા રાઇફલ્સ

240.	જે સી 12356 એ	સૂબેદાર મેજર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	પરાયાગ ધત્ત જામી	01-12-81
241.	જે સી 29250 કે	"	શિવ રતન બાપા	01-10-81
242.	જે સી 52473 એન	સૂબેદાર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	ભીમ બહાદુર પુત	01-11-81
243.	જે સી 67331 એમ	"	જમ્ના બહાદુર ગુરંગ	01-11-81
244.	જે સી 59009 એમ	"	જિત્તા બહાદુર ગુરંગ	01-11-81
245.	જે સી 58421 એમ	"	ગગન બહાદુર ગુરંગ	01-11-81
246.	જે સી 48723 એમ	"	કિશન સિંહ ગુરંગ	01-12-81
247.	જે સી 50744 એફ	"	રાજિન્દ્ર સિંહ ધર્તી	01-12-81
248.	જે સી 68272 વાઈ	"	શિવ જન બાપા	01-12-81
249.	જે સી 68273 એફ	"	તેજ બહાદુર ગુરંગ	01-11-81

5 ગોરખા રાઇફલ્સ

250.	જે સી 49637 એન	સૂબેદાર મેજર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	દેવ બહાદુર પુત	01-11-81
251.	જે સી 76936 ડબ્લ્યુ	સૂબેદાર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	જિત્તા બહાદુર ગુરંગ	01-11-81
252.	જે સી 64153 એલ	"	હસ્તા બહાદુર બાપા	01-01-82
253.	જે સી 64817 એન	"	જાન્કુ ગુરંગ	01-12-81
254.	જે સી 65555 પી	"	તેજ બહાદુર રાના	01-01-82
255.	જે સી 72386 એફ	"	ટેક બહાદુર ગુરંગ	01-12-81
256.	જે સી 64993 એન	"	ચિરેન્દ્ર કુમાર બાપા	01-11-81
257.	જે સી 53470 એમ	"	વિશન સિંહ બાપા	01-01-82

8 ગોરખા રાઇફલ્સ

258.	જે સી 70013 પી	સૂબેદાર ધ અવૈતનિક લેફ્ટનન્ટ	ભીમ બહાદુર બાપા	01-12-81
259.	જે સી 65088 એચ	"	ધનસાલ ગુરંગ	01-11-81
260.	જે સી 56421 પી	"	જમ્ના કુમાર બાપા	01-10-81
261.	જે સી 61762 કે	"	અગવીશ ગુરંગ	01-11-81
262.	જે સી 35916 એન	"	બીરબહાદુર ગુરંગ	01-12-81
263.	જે સી 74933 કે	"	મન પ્રસાદ ગુરંગ	01-01-82
264.	જે સી 54371 ડબ્લ્યુ	"	મોહન સિંહ ગુરંગ	01-10-81
265.	જે સી 61761 એફ	"	રમસુર ગુરંગ	01-12-81
266.	જે સી 65090 એ	"	રતનામની નેચાર	01-01-82
267.	જે સી 71294 કે	"	ટોપ બહાદુર બાપા	01-01-82
268.	જે સી 65789 વાઈ	"	ગુણવીર પુત	01-12-81

9 गोरखा राईफल

269	जे सी 31358 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	विक्रम सिंह खत्री	01-09-81
270	जे सी 30674 एम	"	पदम बहादुर रोफा	01-10-81
271	जे सी 55563 ए	"	विजेन्द्र सिंह पनवार	01-01-82
272	जे सी 62479 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एक बहादुर खत्री	01-01-82
273	जे सी 45704 डब्ल्यू	"	हन्ना सिंग बापा	01-12-81
274	जे सी 60339 एम	"	यम बहादुर कार्की	01-11-81

11 गोरखा राईफल

275	जे सी 31990 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बोलत मान राई	01-09-81
276	जे सी 39922 बार्ड	"	ईश्वर सिंह गुर्ग	01-01-82
277	जे सी 59959 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भीम बहादुर लिम्बू	01-11-81
278	जे सी 54324 बार्ड	"	दिल मन राय	01-12-81
279	जे सी 53934 बार्ड	"	पूर्णा बहादुर राय	01-11-81

ग्रामीं सर्विस कोर (सप्लाय)

280	जे सी 20463 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बलदेव कृष्ण बोपड़ा	01-10-81
281	जे सी 21986 एफ	"	कपूर चन्द्र शर्मा	01-12-81
282	जे सी 21985 बार्ड	"	तिलक राज	01-11-81
283	जे सी 57004 पी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	ए लक्ष्मी श्री राव	01-09-81
284	जे सी 63431 एफ	"	धर्मसेन्दु बिकाश राय	01-10-81
285	जे सी 31927 एच	"	धर्मजीत सिंह	01-01-82
286	जे सी 63449 एक्स	"	बालेश्वर सिंह	01-11-81
287	जे सी 61413 ए	"	बाने सिंह शोखावन	01-09-81
288	जे सी 63437 एच	"	भगत सिंह	01-10-81
289	जे सी 30123 के	"	भीम सिंह बोहरा	01-11-81
290	जे सी 63524 बार्ड	"	बुध राम	01-01-82
291	जे सी 63521 एफ	"	बाको के एम	01-01-82
292	जे सी 61410 एम	"	बी विष्णुनाथन	01-09-81
293	जे सी 63525 बार्ड	"	वसन्त सिंह राजपूत	01-01-82
294	जे सी 29863 के	"	बोलत सिंह	01-12-81
295	जे सी 40550 एल	"	बभी राम	01-01-82
296	जे सी 63442 एक्स	"	ध्रुव नारायण सिंह	01-10-81
297	जे सी 30137 एफ	"	हंसो के एस	01-10-81
298	जे सी 29861 बार्ड	"	हेम चन्द	01-10-81
299	जे सी 69790 एन	"	जय बल	01-01-82
300	जे सी 29868 एच	"	के बी एकजावीयर	01-12-81
301	जे सी 63434 पी	"	काली शंकर मुखोपाध्याय	01-10-81
302	जे सी 29819 ए	"	कमलानन्द प्रसाद	01-12-81
303	जे सी 37510 बार्ड	"	केदार सिंह बनकोटी	01-01-82
304	जे सी 29859 के	"	लाल मोहन मंडल	01-11-81
305	जे सी 63527 के	"	लाल सिंह	01-01-82
306	जे सी 29864 एम	"	एम सीमन	01-11-81
307	जे सी 29740 बार्ड	"	मधुकर धटवाडेकर	01-11-81
308	जे सी 40555 के	"	महानन्द ऊर्जीयाल	01-01-82
309	जे सी 63440 एच	"	एन परमुरामन	01-10-81
310	जे सी 57518 एम	"	नरेश सिंह	01-09-81
311	जे सी 57520 एम	"	प्रकाश सिंह	01-09-81
312	जे सी 63441 एच	"	परशुराम कुमार मुखोपाध्याय	01-10-81
313	जे सी 63438 एल	"	राम किशोर शर्मा	01-10-81
314	जे सी 40559 ए	"	राम कुमार सिंह यादव	01-10-81
315	जे सी 63435 एक्स	"	राम प्रताप	01-10-81
316	जे सी 30131 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रामा शंकर सिंह	01-11-81
317	जे सी 61416 एन	"	रामानुज प्रसाद सिंह	01-09-81
318	जे सी 63448 पी	"	रामचन्द्रन प्रियोबी एन बी	01-11-81
319	जे सी 63516 एक्स	"	रमेश प्रधान	01-11-81

320	जे सी 63430 बाई	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रंगाधर महापात्रा	01-09-81
321	जे सी 63439 एन	"	रूप सिंह	01-10-81
322	जे सी 63515 पी	"	एस ए भस्तर	01-11-81
323	जे सी 59394 एफ	"	श्री कृष्ण पाल सिंह चौहान	01-11-81
324	जे सी 29733 एफ	"	श्री राम	01-11-81
325	जे सी 30142 एम	"	रघुम सिंह	01-10-81
326	जे सी 63532 पी	"	सुन्दर सिंह	01-01-82
327	जे सी 68801 ए	"	सुभाषिता कुमार सरकार	01-01-82
328	जे सी 63520 ए	"	सचन सुरवे	01-12-81
329	जे सी 30122 बाई	"	उमर शंकर कुबे	01-09-81
330	जे सी 29866 एक्स	"	विजय समपथ कुमार	01-11-81
331	जे सी 61411 पी	"	विक्रमावित्त्य तिवारी	01-09-81
332	जे सी 57535 एक्स	"	विवेकानंदन जी	01-09-81

ग्रामी लैफ्टिनेंट कोर (मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

333	जे सी 41829 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	विनोद कुमार बास	01-09-81
334	जे सी 42027 बाई	"	हरेन्द्र सिंह	01-01-82
335	जे सी 43411 एम	"	जसवंत सिंह	01-12-81
336	जे सी 41845 एन	"	पी बी नारायणा स्वामी	01-01-82
337	जे सी 43449 डबल्यू	"	राम चन्द्र	01-01-82
338	जे सी 41832 डबल्यू	"	रामा प्रोसाव जटर्जी	01-11-81
339	जे सी 43423 एफ	"	तरहेम लाल	01-01-82
340	जे सी 75816 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ऐ एम चाक्को	01-11-81
341	जे सी 75804 डबल्यू	"	अब्दुल अजीज	01-11-81
342	जे सी 75624 एन	"	अन्नमा सिंह	01-09-81
343	जे सी 75839 एम	"	गंगा सरन	01-01-82
344	जे सी 75833 एन	"	शुद्धचम सिंह	01-12-81
345	जे सी 75629 एम	"	हरी चरन राय	01-09-81
346	जे सी 75648 एम	"	हरी कृष्ण	01-11-81
347	जे सी 75701 एक्स	"	हिम्मत सिंह	01-04-81
348	जे सी 75634 एक्स	"	होशियार सिंह	01-10-82
349	जे सी 75632 एम	"	इन्द्र सिंह	01-09-81
350	जे सी 75837 एफ	"	जय नारायण	01-01-82
351	जे सी 75636 एन	"	जसवंत सिंह	01-09-81
352	जे सी 75820 एम	"	कर्ता राम	01-12-81
353	जे सी 71425 एन	"	केहर सिंह	01-12-81
354	जे सी 75842 एम	"	खुशाल सिंह	01-01-82
355	जे सी 75627 एफ	"	लक्ष्मी चन्व	01-09-81
356	जे सी 75619 ए	"	लक्ष्मी प्रसाद श्रीवास्तव	01-09-81
357	जे सी 75630 एफ	"	नारायणन	01-09-81
358	जे सी 75639 डबल्यू	"	राजबीर सिंह	01-10-81
359	जे सी 75849 डबल्यू	"	शिव चन्द्रा प्रसाद सिंह	01-01-82
360	जे सी 75817 एन	"	श्री राम	01-11-81
361	जे सी 75635 ए	"	सुर्यकांत विष्णु कुलकर्णी	01-10-81

ग्रामी मेडिकल कोर

362	जे सी 75223 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	महानन्द पाण्डेय	01-01-82
363	जे सी 77162 एन	"	रानीजी बत्तालय कुलकर्णी	01-01-82

ग्रामी आर्जिन्स कोर

364	जे सी 60887 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमोलक राम अग्रवाल	01-01-82
365	जे सी 38300 एन	"	भगत पाल सिंह	01-09-81
366	जे सी 60945 एन	"	गंगा सिंह	01-01-82
367	जे सी 25213 बाई	"	जसवंत सिंह	01-09-81
368	जे सी 52525 बाई	"	पी एम कुमारन	01-09-81

369.	जे सी 69299 एन	सूबेदार व प्रवैतनिक सैफिन्ट	अरविदा राय चौधरी	01-10-81
370.	जे सी 73936 एन	"	बलवीर सिंह कादियान	01-12-81
371.	जे सी 70579 एन	"	बेसाखी राम राजपूत	01-01-82
372.	जे सी 63165 एन	"	सी एम गुरुमूर्थी	01-09-81
373.	जे सी 67766 डबल्यू	"	चिरंजी लाल यादव	01-10-81
374.	जे सी 74978 के	"	डी मूर्गन	01-11-81
375.	जे सी 66501 ए	"	वन सिंह खतरी	01-01-82
376.	जे सी 76585 एम	"	गुरबजन सिंह राजपूत	01-11-81
377.	जे सी 74994 एफ	"	जगत राम राना	01-01-82
378.	जे सी 68419 के	"	जय लाल यादव	01-09-81
379.	जे सी 68428 एन	"	केवल सिंह रहिल्ल	01-09-81
380.	जे सी 68397 डबल्यू	"	भाई राम	01-01-82
381.	जे सी 66850 के	"	माता फेर	01-09-81
382.	जे सी 68408 एक्स	"	नारायणन	01-09-81
383.	जे सी 68413 एन	"	पद्माक्षन के	01-10-81
384.	जे सी 68383 डबल्यू	"	राम राछे पाल	01-11-81
385.	जे सी 69272 एन	"	शिव नारायण	01-01-82
386.	जे सी 68393 ए	"	टी येयुसी	01-01-82
387.	जे सी 64364 ए	"	टी सी चेरियन	01-01-82
388.	जे सी 64382 डबल्यू	"	टी पी अरविदाक्षन नायर	01-09-81
389.	जे सी 64384 एफ	"	तारकेश्वर सिंह	01-09-81
390.	जे सी 68423 एम	"	बी एम कुरियन	01-09-81
कीर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजिनियर्स				
391-	जे सी 52746 एन	सूबेदार मेजर व प्रवैतनिक सैफिन्ट	जगवीश लाल बक्शी	01-09-81
392.	जे सी 32643 एन	"	सुखदेव सिंह	01-09-81
393.	जे सी 57193 के	सूबेदार व प्रवैतनिक सैफिन्ट	अरविन्द राय	01-11-81
394.	जे सी 63124 के	"	अबधेण कुमार सिंह	01-01-82
395.	जे सी 74215 एन	"	बलवीर सिंह	01-12-81
396.	जे सी 73361 एफ	"	बसन्त सिंह कौशल	01-10-81
397.	जे सी 57254 एन	"	बागुदेव सिंह	01-01-82
398.	जे सी 76723 डबल्यू	"	बिमल सिंह	01-12-81
399.	जे सी 57728 एन	"	चीवानन्दा लिप्तापुर	01-10-81
400.	जे सी 58817 एक्स	"	वत्सलरिया मंमूरबासे	01-12-81
401.	जे सी 74242 एक्स	"	वेवी प्रसाद चमोली	01-12-81
402.	जे सी 54566 एफ	"	ज्ञान बाबू मिश्रा	01-12-81
403.	जे सी 56741 के	"	गुरमोज सिंह	01-01-82
404.	जे सी 48312 एन	"	हरबन्स सिंह	01-10-81
405.	जे सी 69366 एच	"	इन्द्र सिंह	01-11-81
406.	जे सी 50678 के	"	जीत सिंह सन्धू	01-11-81
407.	जे सी 58815 एम	"	के राघवन	01-10-81
408.	जे सी 56374 एन	"	के रामन कुट्टी	01-11-81
409.	जे सी 56736 बाई	"	कमलाकर दिवाकर	01-01-82
410.	जे सी 56367 एम	"	लाल सिंह	01-01-82
411.	जे सी 56733 एन	"	नन्हे लाल पालीवाल	01-10-81
412.	जे सी 61182 पी	"	नरसोमहाचारी पीसापती	01-10-81
413.	जे सी 52909 एन	"	पी बी प्रोसक	01-12-81
414.	जे सी 73194 डबल्यू	"	पूरुषी सिंह	01-10-81
415.	जे सी 74572 डबल्यू	"	पुनम सिंह	01-01-82
416.	जे सी 57261 एन	"	राजेश्वर प्रसाद	01-11-81
417.	जे सी 55779 एफ	"	राम सिंह	01-12-81
418.	जे सी 52905 एक्स	"	राम खैरात	01-09-81
419.	जे सी 56541 एन	"	रण सिंह	01-01-82
420.	जे सी 74212 ए	"	राना केशव प्रसाद सिंह	01-11-81
421.	जे सी 69392 के	"	रिसाल सिंह	01-12-81
422.	जे सी 76724 ए	"	शमशेर सिंह यापा	01-12-81
423.	जे सी 50953 बाई	"	श्याम लाल सिंह	01-10-81

424.	जे सी 59265 एफ	सूबेदार व अभैतनिक लैफ्टिनेंट	तेज बहादुर सिंह	01-01-82
425.	जे सी 56345 एन	"	उभेद सिंह नेगी	01-11-81

भारती एजुकेशन कोर

426.	जे सी 34142 के	सूबेदार मेजर व अभैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरबक्श सिंह लाम्बा	01-01-82
427.	जे सी 31190 वाई	"	गुरन प्रसाद पांडे	01-01-82
428.	जे सी 65849 एच	"	बनी सिंह चौहान	01-12-81
429.	जे सी 66095 एल	"	वशिष्ठ मिश्रा	01-12-81
430.	जे सी 76354 डबल्यू	"	शिवता मनी पुरोहित	01-01-82
431.	जे सी 65845 एम	"	हरबंस सिंह	01-11-81
432.	जे सी 66094 एच	"	नगीना सिंह	01-10-81
433.	जे सी 65852 एच	"	राधे श्याम	01-01-82
434.	जे सी 66090 एम	"	राज बहादुर राय	01-09-81
435.	जे सी 65851 ए	"	राजिन्द्र सिंह	01-01-82
436.	जे सी 76353 एन	"	शेर सिंह पोखारिया	01-10-81
437.	जे सी 66091 पी	"	विजय सिंह मुन्दावन	01-09-81
438.	जे सी 76060 एच	"	बिरेन्द्र सिंह	01-09-81

बी ईटिलिजेंस कोर

439.	जे सी 37507 वाई	सूबेदार व अभैतनिक लैफ्टिनेंट	मुपान सिंह फरसवान	01-01-81
------	-----------------	------------------------------	-------------------	----------

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

440.	जे सी 53570 एक्स	सूबेदार मेजर व अभैतनिक लैफ्टिनेंट	सोम नाथ कोल	01-01-82
441.	जे सी 74741 एम	सूबेदार व अभैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरदयाल सिंह	01-09-81

डिफेंस सिक्पूरिटी कोर

442.	जे सी 32372	सूबेदार मेजर व अभैतनिक लैफ्टिनेंट	पी सी नारायणन नायर	01-01-82
------	-------------	-----------------------------------	--------------------	----------

अभैतनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में

भारत ई कोर

1	जे सी 12934 के	रिसालदार मेजर (रिलीजियस टीचर)	मुन्ना लाल	01-12-81
---	----------------	-------------------------------	------------	----------

बंगाल इंजीनियर ग्रेड

2.	जे सी 44102 डबल्यू	सूबेदार मेजर	मेहर सिंह धानीवाल	01-01-82
3.	जे सी 48160 डबल्यू	सूबेदार मेजर	सुरजीत सिंह	01-09-81

कोर आफ सिग्नल

4.	जे सी 34850 डबल्यू	सूबेदार मेजर	वी कृष्णा पानिकर	01-10-81
----	--------------------	--------------	------------------	----------

भारती एजुकेशन कोर

5.	जे सी 22153 के	सूबेदार मेजर	मुखी राम	01-10-81
----	----------------	--------------	----------	----------

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

6.	जे सी 54006 पी	सूबेदार मेजर	हरबंस सिंह	01-11-81
----	----------------	--------------	------------	----------

डिफेंस सिक्पूरिटी कोर

7.	जे सी 62311	सूबेदार मेजर	बचन सिंह	01-09-81
8.	जे सी 32382	सूबेदार मेजर	बरया राम	01-01-82
9.	जे सी 32388	सूबेदार मेजर	तुर्गापदा मट्टाचार्जी	01-10-81
10.	जे सी 4200	सूबेदार मेजर	गजिन्द्र सिंह	01-09-81
11.	जे सी 32373	सूबेदार मेजर	एम पनवीरन	01-09-81
12.	जे सी 74506	सूबेदार मेजर	राम सिंह	01-09-81

अभैतनिक रिसालदार/सूबेदार मेजर के रैंक में

7 होर्स

1.	जे सी 73387 डबल्यू	रिसालदार	बलदेव सिंह	01-01-82
----	--------------------	----------	------------	----------

9 होर्स

2.	जे सी 67413 डबल्यू	रिसालदार	अजीत सिंह	10-11-81
----	--------------------	----------	-----------	----------

70 प्रार्थन रोजीमेंट

3.	जे सी 56474 एन	रिसालदार	राम प्रकाश सिंह	01-09-81
----	----------------	----------	-----------------	----------

73 प्रार्थन रोजीमेंट

4.	जे सी 75286 एफ	रिसालदार	प्यारा सिंह	01-09-81
----	----------------	----------	-------------	----------

84 प्रार्थन रोजीमेंट

5.	जे सी 75280 के	रिसालदार	हरपाल सिंह	01-01-82
----	----------------	----------	------------	----------

प्रार्थन कोर

6.	जे सी 69902 ए	रिसालदार	मैथु के एम	01-11-81
----	---------------	----------	------------	----------

7.	जे सी 73836 एफ	"	सुरेंद्र बहादुर सिंह	01-12-82
----	----------------	---	----------------------	----------

रोजीमेंट आफ प्रार्थनरी

8.	जे सी 68187 डब्ल्यू	सूबेदार	आत्माराम जाधव	01-12-81
9.	जे सी 47961 एम	"	बाबु लाल शर्मा	01-12-81
10.	जे सी 73575 एक्स	"	वनवारी लाल यादव	01-11-81
11.	जे सी 72593 एन	"	भोजा राम	01-10-81
12.	जे सी 68217 एन	सूबेदार	लाल सिंह	01-11-81
13.	जे सी 58665 एफ	सूबेदार	नारायणन	01-11-81
14.	जे सी 9891 पी	"	फगोन्ना नाथ शिवेदी	01-11-81
15.	जे सी 53331 एन	"	भार सुब्बाया	01-09-81
16.	जे सी 45408 एल	"	सुरत सिंह	01-10-81
17.	जे सी 71848 डब्ल्यू	"	स्वर्ण सिंह	01-01-82
18.	जे सी 45380 डब्ल्यू	सूबेदार	त्रिलोक सिंह	01-01-82
19.	जे सी 66779 एफ	सूबेदार	उमाहर सिंह	01-08-81

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

20.	जे सी 71536 ए	सूबेदार	विक्रम सिंह	01-09-81
21.	जे सी 64103 पी	सूबेदार	इन्द्रजीत सिंह	01-11-81

बोम्बे इंजीनियर ग्रुप

22.	जे सी 47669 एक्स	सूबेदार	जयदत्त	01-01-82
23.	जे सी 50778 पी	सूबेदार	राजाराम मोरे	01-01-82
24.	जे सी 60430 एन	सूबेदार	राम सिंह	01-09-81

कोर आफ सिगनल

25.	जे सी 71150 ए	सूबेदार	अमर कृष्ण बाम	01-01-82
26.	जे सी 60631 एम	सूबेदार	बहादुर राम	01-10-81
27.	जे सी 75026 डब्ल्यू	सूबेदार	जगदेव सिंह पठानिया	01-09-81
28.	जे सी 71153 एन	सूबेदार	किशोरी लाल वर्मा	01-01-82
29.	जे सी 71744 पी	सूबेदार	कृष्ण कुमार भाटिया	01-01-82
30.	जे सी 71755 एफ	सूबेदार	निर्मल सिंह भिडर	01-11-81
31.	जे सी 52108 डब्ल्यू	सूबेदार	रामचन्द्र रमोला	01-01-82
32.	जे सी 78401 एफ	सूबेदार	राम निशान महेश्वरी	01-09-81
33.	जे सी 77401 पी	सूबेदार	शिव दत्त तिवारी	01-01-82

सी पंजाब रोजीमेंट

34.	जे सी 42306 के	सूबेदार	प्रोतम सिंह	01-09-81
-----	----------------	---------	-------------	----------

सी महाराष्ट्र रोजीमेंट

35.	जे सी 62062 एन	सूबेदार	एन सुंदरामूर्ति	02-12-81
-----	----------------	---------	-----------------	----------

सी सेमिकेडर

36.	जे सी 75869 के	सूबेदार	मंगे राम कौशिक	01-03-81
37.	जे सी 66047 एल	सूबेदार	प्यारा सिंह	01-07-81
38.	जे सी 64030 बार्ड	सूबेदार	सरधन सिंह कश्यप	01-05-81

बी मराठा लाइट इम्प्लेमेंटी

39.	जे सी 62577 एच	सूबेदार	श्रीम प्रकाश	01-09-81
-----	----------------	---------	--------------	----------

बी राजपूताना राइफल

40.	जे सी 50026 एल	सूबेदार	चन्वगी राम	01-09-81
41.	जे सी 73002 एन	सूबेदार	हरी सिंह	01-01-82
42.	जे सी 58307 डब्ल्यू	सूबेदार	सुरज मल राम	01-01-82

बी राजपूत रेजीमेंट

43.	जे सी 50540 पी	सूबेदार	अश्वनी कुमार चौबे	01-09-81
-----	----------------	---------	-------------------	----------

बी आइ रेजीमेंट

44.	जे सी 49600 एम	सूबेदार	भाग राम	01-01-82
45.	जे सी 72995 एल	सूबेदार	भजन लाल	01-01-82
46.	जे सी 60283 डब्ल्यू	सूबेदार	दलीप सिंह झांगी	01-12-81
47.	जे सी 72992 एक्स	सूबेदार	रती राम	01-01-82

बी सिख रेजीमेंट

48.	जे सी 67195 एच	सूबेदार	मान सिंह	01-04-81
-----	----------------	---------	----------	----------

बी बिहार रेजीमेंट

49.	जे सी 55994 एम	सूबेदार	उदित नारायण सिंह	01-12-81
-----	----------------	---------	------------------	----------

बी जम्मु एण्ड काश्मीर राईफल

50.	जे सी 66198 के	सूबेदार	श्रीवांगर सिंह	01-01-82
-----	----------------	---------	----------------	----------

1 गोरखा राईफल

51.	जे सी 68460 ए	सूबेदार	करभा बहादुर गुरुंग	01-12-81
-----	---------------	---------	--------------------	----------

3 गोरखा राईफल

52.	जे सी 74140 एफ	सूबेदार	सुरज मल थापा	01-12-81
-----	----------------	---------	--------------	----------

4 गोरखा राईफल

53.	जे सी 46091 एम	सूबेदार	बुध सिंह थापा	01-12-81
-----	----------------	---------	---------------	----------

5 गोरखा राईफल

54.	जे सी 76937 वाई	सूबेदार	अन्नाने गुरुंग	01-12-81
55.	जे सी 54856 एच	सूबेदार	खरका सिंह गुरुंग	01-11-81
56.	जे सी 71596 पी	सूबेदार	प्रेम लाल ठाकुर	01-01-82

9 गोरखा राईफल

57.	जे सी 62478 ए	सूबेदार	हरी बहादुर सिंग माझी	01-11-81
-----	---------------	---------	----------------------	----------

11 गोरखा राईफल

58.	जे सी 33965 एक्स	सूबेदार	भीम बहादुर झाले	01-12-81
59.	जे सी 50528 एन	सूबेदार	नीमा बोर्जे तामांग	01-12-81

भार्मो सविल कोर (सप्लाय)

60.	जे सी 59658 एक्स	सूबेदार	गोविन्द राम	01-12-81
61.	जे सी 61414 एच	सूबेदार	गुरुचरण सिंह मैगी	01-09-81
62.	जे सी 61377 ए	सूबेदार	हरी प्रसाद	01-10-81
63.	जे सी 63518 एच	सूबेदार	हरबन्त सिंह	01-12-81
64.	जे सी 63446 डब्ल्यू	सूबेदार	के बासासुम्बरन नम्बियर	01-11-81
65.	जे सी 32180 एन	"	कमल सिंह	01-11-81
66.	जे सी 53720 एच	"	करम सिंह	01-11-81
67.	जे सी 63445 एफ	"	मोहित्वर सिंह	01-11-81
68.	जे सी 29804 एक्स	"	निवेश चन्ना भट्टाचार्य	01-12-81

69.	जे सी 29776 डब्ल्यू	सूबेदार	ननी गोपाल बरठाकूर	01-10-81
70.	जे सी 29860 डब्ल्यू	"	पाल जोन	01-12-81
71.	जे सी 57517 के	"	प्रेम दास संभरवाल	01-09-81
72.	जे सी 40560 पी	"	राजेश्वर सिंह राठौर	01-01-82
73.	जे सी 63444 वार्ड	"	एस पंथ राज	01-11-81
74.	जे सी 57005 एक्स	"	धेकेटेसवारलू चिन्तावल्ली	01-09-81
75.	जे सी 59412 वार्ड	"	दियल कुलकर्णी	01-09-81

धार्मी सचिव कोर (मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

76.	जे सी 75826 पी	सूबेदार	अमरजीत सिंह	01-12-81
77.	जे सी 54846 पी	सूबेदार	अक्षी राम	01-01-82
78.	जे सी 75806 एफ	सूबेदार	विशान सिंह	01-11-81
79.	जे सी 75819 वार्ड	सूबेदार	चन्द्र सिंह	01-11-81
80.	जे सी 75845 ए	सूबेदार	गणपत सिंह	01-01-82
81.	जे सी 75638 एन	सूबेदार	जोसेफ कुंडुलता	01-10-81
82.	जे सी 75631 के	सूबेदार	कमल राधाःणन नायर	01-09-81
83.	जे सी 75648 एक्स	सूबेदार	खेम सिंह	01-11-81
84.	जे सी 75805 वार्ड	सूबेदार	मुबारक सिंह	01-11-81
85.	जे सी 75642 डब्ल्यू	सूबेदार	प्रेमचन्द	01-10-81
86.	जे सी 75618 ए	सूबेदार	रामेश्वर प्रसाद यादव	01-09-81

धार्मी मेडिकल कोर

87.	जे सी 61257 एफ	सूबेदार	के बी बरघोस	01-09-81
-----	----------------	---------	-------------	----------

धार्मी आर्म्स कोर

88.	जे सी 71703 एल	सूबेदार	भीकाजी राजत	01-07-81
89.	जे सी 72793 के	"	धरन सिंह	01-07-81
90.	जे सी 72193 एफ	"	हरीश चन्दर राठी	01-06-81
91.	जे सी 74982 एम	"	लक्ष्मी अम्ब	01-01-82
92.	जे सी 68427 एच	"	महावीर सिंह	01-01-82
93.	जे सी 65721 एक्स	"	मनोहर लाल	01-01-82
94.	जे सी 65694 वार्ड	"	नसीब सिंह	01-01-82
95.	जे सी 73969 डब्ल्यू	"	नाजर मोहम्मद	01-09-81
96.	जे सी 68384 वार्ड	"	निरपदा दास	01-01-82
97.	जे सी 70577 एक्स	"	पी माधवा मेनन	01-12-81
98.	जे सी 77013 एक्स	"	पी के नेनेया	01-01-82
99.	जे सी 72194 के	"	राजै राम	01-02-81
100.	जे सी 68402 डब्ल्यू	"	टी गोविन्दन कुट्टी नायर	01-01-82
101.	जे सी 73961 के	"	तुकाराम बुधाजी देसाई	01-11-81
102.	जे सी 68382 एन	"	वेंकटा रामा मोहना रामो अक्की रेड्डी	01-01-82

कोर थाफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स

103.	जे सी 59144 ए	सूबेदार	अधिक लाल मिस्त्री	01-10-81
104.	जे सी 65294 एम	सूबेदार	अन्तर सिंह	01-12-81
105.	जे सी 56540 एल	"	आरु राव जवालकर	01-11-81
106.	जे सी 54321 एफ	"	अलवीर सिंह	01-11-81
107.	जे सी 43186 एच	"	बेलम सिंह रावत	01-12-81
108.	जे सी 74213 एच	"	भूपाल चन्दा दासगुप्ता	01-11-81
109.	जे सी 57860 एम	"	दण्डू कुम्भार	01-01-82
110.	जे सी 73193 एन	"	धत्ता वेसाई	01-10-81
111.	जे सी 57711 वार्ड	"	दया कृष्ण शर्मा	01-11-81
112.	जे सी 66020 एन	"	देवदास जी एल	01-12-81
113.	जे सी 58762 के	"	धर्म चन्द्र	01-12-81
114.	जे सी 56537 वार्ड	"	गोपालन पी	01-11-81
115.	जे सी 66012 पी	"	हरभजन सिंह	01-09-81
116.	जे सी 74244 एच	सूबेदार	हीरा लाल जोषा	01-12-81

117.	जे सी 61181 एम	सूबेदार	जय सिंह	01-12-81
118.	जे सी 70100 एफ	"	अयकृत सिंह बिष्ट	01-01-82
119.	जे सी 57794 एफ	"	जीत सिंह	01-12-81
120.	जे सी 54520 बार्ड	"	के करुणाकरन पिन्नी	01-10-81
121.	जे सी 55781 बार्ड	"	के राघव कुरुप	01-11-81
122.	जे सी 56386 एम्स	"	काशी रेड्डी भाविमारायन	01-11-81
123.	जे सी 57700 एम	"	केलू चरन राउट राय	01-10-81
124.	जे सी 56742 एम	"	कोराचन बन्दी बालन	01-01-82
125.	जे सी 70101 एल	"	कुलबस्त सिंह	01-01-82
126.	जे सी 56604 एल	"	कृष्ण सिंह डांगी	29-01-82
127.	जे सी 57252 एल	"	मथुरा दत्त कर्नाटक	01-01-82
128.	जे सी 56335 के	"	मूल धन्व	01-12-81
129.	जे सी 52899 पी	"	नर सिंह	01-12-81
130.	जे सी 56353 एम	"	धोम प्रकाश दत्ता	01-12-81
131.	जे सी 58759 बार्ड	"	पेहप सिंह	01-11-81
132.	जे सी 57253 एल	"	प्रीतम सिंह	01-12-81
133.	जे सी 60717 एल	"	रविश्र नाथ साम्याल	01-12-81
134.	जे सी 57712 एफ	"	राम दत्त मिश्रा	01-01-82
135.	जे सी 70718 पी	सूबेदार	राम स्वरूप सिंह	01-01-82
136.	जे सी 57194 एम	"	रेहम सिंह	01-01-82
137.	जे सी 52734 बम्बू	"	श्री कृष्ण	01-12-81
138.	जे सी 70710 पी	"	स्वर्ण सिंह	01-11-81
139.	जे सी 56532 एम	"	टी के गोपालकृष्णा नायर	01-01-82
140.	जे सी 55650 एन	"	तारा सिंह	01-11-81
141.	जे सी 55793 एच	"	धन्काप्पन नायर पी	01-11-81
142.	जे सी 74571 एन	"	उदय सिंह रावत	01-10-81
143.	जे सी 58739 एम	"	बी धरनी राज	01-01-82

आर्मी एम्बुकेशन कोर

144.	जे सी 64696 एक्स	सूबेदार	गबर सिंह गुसाई	01-05-81
145.	जे सी 62330 एफ	सूबेदार	के पी बमोवरन	01-12-81

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

146.	जे सी 69200 एफ	सूबेदार	भखतावर सिंह पठानिया	01-10-81
------	----------------	---------	---------------------	----------

डिफेंस सिक्यूरिटी कोर

147.	जे सी 78847	सूबेदार	शिघ्रो प्रसाद शर्मा	01-11-81
------	-------------	---------	---------------------	----------

बी डेपेंडोरियन आर्मी

148.	टी जे 863	सूबेदार	बलबीर सिंह मानिक	01-10-81
149.	टी जे 1301	सूबेदार	धर्मद सिंह बिष्ट	01-07-81
150.	टी जे 1823	सूबेदार	कृष्णा शास्त्री	01-10-81
151.	टी जे 715	सूबेदार	सिसीर कुमार गुप्ता	01-07-81

अवैतनिक रिटायरवार/सूबेदार के रैंक में**बंगाल इन्जीनियर ग्रुप**

1.	जे सी 77714 एन	नायब सूबेदार	बखतावर सिंह	01-11-81
----	----------------	--------------	-------------	----------

आर्मी मेडिकल कोर

2.	जे सी 85786 एम	नायब सूबेदार	निरंजन अश्ववर्ती	01-07-81
----	----------------	--------------	------------------	----------

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इन्जीनियर्स

3.	जे सी 96035 एल	नायब सूबेदार	केवल कृष्ण	01-11-81
----	----------------	--------------	------------	----------

वी टेस्टोरेयल घामी

4.	टी जे 1858	नायब सूबेदार	धन्यनु शिंदे	01-03-81
5.	टी जे 1714	नायब सूबेदार	खमान सिंह	01-02-81
6.	टी जे 1715	नायब सूबेदार	मोहन लाल	01-03-81
7.	टी जे 1794	नायब सूबेदार	नूर नबाफ	01-02-81
8.	टी जे 2059	नायब सूबेदार	एस वी दूबे	01-07-81

No. 2-E, dated 23rd January, 1982. The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned JCOs on retirement under para 180 of Regulations for the Army, 1962, with effect from the dates shown against their names :—

TO BE HONORARY CAPTAINS

THE PRESIDENT'S BODYGUARD

1.	JC 52354X	RIS MAJ & HONY LT	JAGDISH SINGH	01-01-82
----	-----------	-------------------	---------------	----------

14 HORSE

2.	JC 72959A	RIS & HONY LT	CHAND SINGH	01-09-81
3.	JC 70264X	RIS & HONY LT	SHIV RAM VERMA	01-12-81
4.	JC 70793L	RIS & HONY LT	SITA RAM VERMA	01-01-82

4 HORSE

5.	JC 75043W	RIS & HONY LT	MALKIAT SINGH GREWAL	01-11-81
----	-----------	---------------	----------------------	----------

70 ARMoured REGIMENT

6.	JC 60396Y	RIS & HONY LT	DHARAMRAJ SINGH	01-11-81
7.	JC 67416K	RIS & HONY LT	SEWA SINGH	01-12-81

87 ARMoured REGIMENT

8.	JC 75291M	RIS & HONY LT	NIRMAL SINGH	01-01-82
9.	JC 58387Y	RIS & HONY LT	RAM SAMHAR SINGH	01-12-81

ARMoured CORPS

10.	JC 47352H	RIS MAJ & HONY LT	KUSHALPAL SINGH	01-09-81
-----	-----------	-------------------	-----------------	----------

REGIMENT OF ARTILLERY

11.	JC 33411Y	SUB MAJ & HONY LT	A INNASI MUTHU	01-12-81
12.	JC 45364Y	SUB MAJ & HONY LT	BHARAT SINGH	01-10-81
13.	JC 25897A	SUB MAJ & HONY LT	BHOM SINGH	01-09-81
14.	JC 95072M	SUB MAJ & HONY LT	CHHABI NATH SINGH	01-01-82
15.	JC 49526W	SUB MAJ & HONY LT	GULAB SINGH	01-09-81
16.	JC 32807W	SUB MAJ & HONY LT	JASWANT SINGH	01-10-81
17.	JC 25871L	SUB MAJ & HONY LT	K ACHUTHAN	01-09-81
18.	JC 26911W	SUB MAJ & HONY LT	M SETHUMADHAVAN	01-09-81
19.	JC 17294P	SUB MAJ & HONY LT	RANBIR SINGH	01-09-81
20.	JC 28627W	SUB MAJ & HONYLT	SHIV SHANKAR MULGE	01-01-82
21.	JC 24214P	SUB MAJ & HONY LT	SUSHIL KUMAR DUTTA	01-01-82
22.	JC 70068Y	SUB & HONY LT	AS RAO	01-11-81
23.	JC 53664P	SUB & HONY LT	AMAR SINGH	01-11-81
24.	JC 55226L	SUB & HONY LT	BHAG SINGH	01-11-81
25.	JC 66798M	SUB & HONY LT	CP ALI	01-12-81
26.	JC 68229X	SUB & HONY LT	CHHAJU RAM SHARMA	01-12-81
27.	JC 73649F	SUB & HONY LT	DHARAM PAUL	01-01-82
28.	JC 62537F	SUB & HONY LT	HANMANT NANAWARE	01-10-81
29.	JC 55878K	SUB & HONY LT	HARBHAJAN SINGH	01-12-81
30.	JC 55877F	SUB & HONY LT	JARNAIL SINGH SANDHU	01-12-81
31.	JC 73408F	SUB & HONY LT	JOENDER PAL SINGH	01-12-81
32.	JC 55224A	SUB & HONY LT	K MARISAMI	01-10-81
33.	JC 69732F	SUB & HONY LT	KN LAKSHMANAN	01-09-81
34.	JC 68223W	SUB & HONY LT	KV KESAVAN KUTTY MENON	01-01-82
35.	JC 73412K	SUB & HONY LT	KARNAIL SINGH	01-01-82
36.	JC 64201A	SUB & HONY LT	KASHI NATH SAIL	01-10-81
37.	JC 59788A	SUB & HONY LT	LAL BAHADUR	01-09-81
38.	JC 75096P	SUB & HONY LT	M JAYARATHANAM	01-11-81
39.	JC 70083N	SUB & HONY LT	NARAYANA SWAMY	01-09-81

40.	JC 73402A	SUB & HONY LT	RAGHBIR SINGH	01-01-82
41.	JC 76282X	SUB & HONY LT	RABHBIR SINGH YADAVA	01-11-81
42.	JC 51305H	SUB & HONY LT	RAM KANWAR	01-12-81
43.	JC 55874N	SUB & HONY LT	RAM KUMAR SINGH	01-09-81
44.	JC 58649K	SUB & HONY LT	SADASHIV PATIL	01-10-81
45.	JC 62579N	SUB & HONY LT	TUKARAM RAO	01-09-81
46.	JC 66456Y	SUB & HONY LT	VR RAMAKRISHNAN	01-11-81

MADRAS ENGINEER GROUP

47.	JC 28294P	SUB MAJ & HONY LT	PARASURAM NATHANIEL LEANORD	01-09-81
48.	JC 45907A	SUB & HONY LT	R VASUDEVAN NAIR	01-12-81
49.	JC 58373Y	SUB & HONY LT	TK GOPAL	01-10-81

BENGAL ENGINEER GROUP

50.	JC 43055X	SUB MAJ & HONY LT	JIT SINGH	01-10-81
51.	JC 33512M	SUB MAJ & HONY LT	KRISHAN CHANDER AWASTHI	01-10-81
52.	JC 26495P	SUB MAJ & HONY LT	MOHD ABDULLA	01-11-81
53.	JC 28260F	SUB MAJ & HONY LT	SAT PAL SHARMA	01-10-81
54.	JC 44450X	SUB MAJ & HONY LT	V DURGAYANDI	01-01-82
55.	JC 48418A	SUB MAJ & HONY LT	VASUDEVA PANICKER	01-09-81
56.	JC 33521P	SUB MAJ & HONY LT	VISHWANATH JOSHI	01-09-81
57.	JC 70488H	SUB & HONY LT	G PRASADA RAO	01-12-81
58.	JC 61687L	SUB & HONY LT	JAI SINGH	01-09-81
59.	JC 70785M	SUB & HONY LT	NARAYAN DATT	01-12-81
60.	JC 64677M	SUB & HONY LT	UMED SINGH	01-10-81

BOMBAY ENGINEER GROUP

61.	JC 47663W	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	01-10-81
62.	JC 67040N	SUB & HONY LT	RAGHUNATH PALANDE	01-10-81

CORPS OF SIGNALS

63.	JC 37544Y	SUB MAJ & HONY LT	AA POULOSE	01-10-81
64.	JC 37947M	SUB MAJ & HONY LT	ATINDRA NATH MITRA	01-01-82
65.	JC 52794L	SUB MAJ & HONY LT	C PARAMESWARAN PILLAI	01-01-82
66.	JC 29430M	SUB MAJ & HONY LT	K GOPALAKRISHNAN NAIR	01-11-81
67.	JC 42045F	SUB MAJ & HONY LT	KULDIP SINGH	01-11-81
68.	JC 32055X	SUB MAJ & HONY LT	MT CHERIYAN	01-01-82
69.	JC 32508X	SUB MAJ & HONY LT	MALKIT SINGH	01-10-81
70.	JC 31288M	SUB MAJ & HONY LT	PIARA SINGH	01-12-81
71.	JC 32085P	SUB MAJ & HONY LT	PISHORI LAL	01-09-81
72.	JC 52793H	SUB MAJ & HONY LT	VS GEORGE	01-12-81
73.	JC 68013W	SUB & HONY LT	C MUNISWAMY	01-12-81
74.	JC 70352P	SUB & HONY LT	DEBA PRASAD CHAKRABARTI	01-01-82
75.	JC 60630K	SUB & HONY LT	DNYNUPATIL	01-10-81
76.	JC 73776W	SUB & HONY LT	KISHORI LAL TARA	01-11-81
77.	JC 74049L	SUB & HONY LT	MOHAN LAL	01-11-81
78.	JC 60230X	SUB & HONY LT	OM PARKASH KHANNA	01-01-82
79.	JC 60251N	SUB & HONY LT	P KUTTALAM	01-11-81
80.	JC 71201H	SUB & HONY LT	RAM BALI SINGH	01-01-82
81.	JC 60250L	SUB & HONY LT	SATYENDRA KUMAR CHANDA	01-09-81
82.	JC 74048H	SUB & HONY LT	UPKAR SINGH	01-11-81

BRIGADE OF THE GUARDS

83.	JC 42408A	SUB MAJ & HONY LT	SIS RAM	01-11-81
-----	-----------	-------------------	---------	----------

THE PARACHUTE REGIMENT

84.	JC 31461L	SUB MAJ & HONY LT	GANESH SINGH	01-01-82
85.	JC 37555Y	SUB MAJ & HONY LT	NATHU RAM THAKUR	01-12-81

THE PUNJAB REGIMENT

86.	JC 50162F	SUB MAJ & HONY LT	KARTAR SINGH	01-12-81
87.	JC 50167A	SUB MAJ & HONY LT	NACHHATTAR SINGH GREWAL	01-10-81
88.	JC 33542K	SUB MAJ & HONY LT	SURINDAR KUMAR	01-10-81
89.	JC 52617L	SUB & HONY LT	AMAR SINGH	01-10-81

90.	JC 58378X	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH	01-11-81
91.	JC 48395K	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH	01-09-81
92.	JC 62949H	SUB & HONY LT	KISHAN SINGH	01-12-81
93.	JC 64772Y	SUB & HONY LT	MAST RAM	01-01-82
94.	JC 66936H	SUB & HONY LT	PREM CHAND	01-12-81
95.	JC 50502Y	SUB & HONY LT	RATTAN SINGH	01-11-81
96.	JC 62948A	SUB & HONY LT	SANTOKH SINGH	01-10-81
97.	JC 56326H	SUB & HONY LT	SHER SINGH	01-01-82
THE MADRAS REGIMENT				
98.	JC 36734M	SUB MAJ & HONY LT	K GOVINDANKUTTY NAIR	01-09-81
99.	JC 44947P	SUB MAJ & HONY LT	S CHANDRA RAJAN	01-12-81
100.	JC 63960N	SUB & HONY LT	E KUNHIRAMAN MARAR	01-01-82
101.	JC 68749H	SUB & HONY LT	G RAJA	01-10-81
102.	JC 48069F	SUB & HONY LT	KA VEERASWAMY	01-09-81
103.	JC 74846W	SUB & HONY LT	PACKIAM N	01-09-81
104.	JC 44689A	SUB & HONY LT	VU UNNIKRIISHNAN NAIR	01-01-82
105.	JC 38593F	SUB & HONY LT	VV KUNHIKANNAN	01-10-81
THE GRENADIERS				
106.	JC 36919N	SUB MAJ & HONY LT	ABDUL MAZID	01-01-82
107.	JC 48166Y	SUB MAJ & HONY LT	CHATAR SINGH	01-01-82
108.	JC 23290P	SUB MAJ & HONY LT	DURGA SINGH	01-01-82
109.	JC 35821N	SUB MAJ & HONY LT	NAND RAM	01-12-81
110.	JC 22054F	SUB MAJ & HONY LT	NAZIR KHAN	01-10-81
111.	JC 23287P	SUB MAJ & HONY LT	PANNEY SINGH	01-01-82
112.	JC 41914Y	SUB & HONY LT	KISHAN CHAND	01-11-81
113.	JC 35934W	SUB & HONY LT	MAN SINGH	01-09-81
THE MARATHA LIGHT INFANTRY				
114.	JC 41746L	SUB MAJ & HONY LT	VISHNU KRISHNA KHERADE	01-01-82
115.	JC 40648Y	SUB & HONY LT	BHIKU SALUNKE	01-10-81
116.	JC 62934A	SUB & HONY LT	GOVINDAN NAMBIAR AK	01-10-81
117.	JC 49497M	SUB & HONY LT	NARAYAN MOHITE	01-11-81
118.	JC 46360P	SUB & HONY LT	VENKATESH NAIK	01-12-81
THE RAJPUTANA RIFLES				
119.	JC 39443X	SUB MAJ & HONY LT	DAYA RAM	01-01-82
120.	JC 15994K	SUB MAJ & HONY LT	SUMMER SINGH CHAUHAN	01-11-81
121.	JC 22742A	SUB MAJ & HONY LT	VICHITRAVIR SINGH	01-01-82
122.	JC 62763Y	SUB & HONY LT	BADLU RAM	01-10-81
123.	JC 46726F	SUB & HONY LT	MANGE RAM	01-01-82
124.	JC 67495K	SUB & HONY LT	MEHTAB SINGH	01-10-81
125.	JC 60328L	SUB & HONY LT	NAND RAM, SC	01-09-81
126.	JC 72541X	SUB & HONY LT	SHITLA PRASAD SINGH	01-12-81
127.	JC 38102A	SUB & HONY LT	UDIT NARAIN SINGH	01-09-81
THE RAJPUT REGIMENT				
128.	JC 24941M	SUB MAJ & HONY LT	MUKHTAR SINGH	01-10-81
129.	JC 21095Y	SUB MAJ & HONY LT	SAT RAM	01-01-82
130.	JC 25638X	SUB MAJ & HONY LT	SHEORAJ SINGH	01-09-81
131.	JC 42907P	SUB & HONY LT	BHIM SINGH	01-10-81
132.	JC 48973N	SUB & HONY LT	HARI SINGH	01-11-81
133.	JC 39183X	SUB & HONY LT	JHURI SINGH	01-09-81
134.	JC 46827P	SUB & HONY LT	KIRPAL SINGH	01-12-81
135.	JC 47849A	SUB & HONY LT	NET RAM	01-01-82
136.	JC 66522W	SUB & HONY LT	PRABHAKAR SAHASRA BUDHE	01-12-81
137.	JC 48148W	SUB & HONY LT	REWATI LAL	01-10-81
THE JAT REGIMENT				
138.	JC 29628L	SUB MAJ & HONY LT	HAR KISHAN	01-01-82
139.	JC 34399P	SUB MAJ & HONY LT	RAI SINGH	01-09-81
140.	JC 60508N	SUB & HONY LT	ARJUN SINGH	01-09-81
141.	JC 67699W	SUB & HONY LT	BABU LAL	01-10-81
142.	JC 67188M	SUB & HONY LT	CHAND RAM	01-12-81

143.	JC 39067P	SUB & HONY LT	DALIP SINGH	01-11-81
144.	JC 68934W	SUB & HONY LT	JUG LAL	01-10-81
145.	JC 69991K	SUB & HONY LT	OM PARKASH	01-11-81
146.	JC 68490X	SUB & HONY LT	PARBHU RAM	01-01-82
147.	JC 70849M	SUB & HONY LT	PARSHADI LAL	01-11-81
148.	JC 67189P	SUB & HONY LT	PHOOL SINGH	01-01-82
149.	JC 49264L	SUB & HONY LT	RAM SINGH	01-09-81
150.	JC 75118H	SUB & HONY LT	REKHA RAM	01-01-82
151.	JC 51041M	SUB & HONY LT	TEJ PAL SINGH	01-01-82

THE SIKH REGIMENT

152.	JC 31211K	SUB MAJ & HONY LT	GURDIP SINGH	01-01-82
153.	JC 35607L	SUB MAJ & HONY LT	HARI SINGH, VSM	01-01-82
154.	JC 35892P	SUB MAJ & HONY LT	SURJAN SINGH	01-12-81
155.	JC 70864F	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	01-11-81
156.	JC 75256K	SUB & HONY LT	HARCHAND SINGH	01-10-81
157.	JC 48156P	SUB & HONY LT	HARDIP SINGH	01-11-81
158.	JC 52620L	SUB & HONY LT	PARGAT SINGH	01-12-81
159.	JC 58215K	SUB & HONY LT	PRITAM SINGH	01-12-81
160.	JC 72160W	SUB & HONY LT	SHANGARA SINGH	01-01-82

THE SIKH LIGHT INFANTRY

161.	JC 35487X	SUB MAJ & HONY LT	KULWANT SINGH	01-01-82
162.	JC 48079L	SUB MAJ & HONY LT	SOHAN SINGH	01-09-81
163.	JC 38614M	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT SINGH	01-01-82
164.	JC 50030N	SUB & HONY LT	KAPUR SINGH	01-09-81
165.	JC 50031W	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-12-81
166.	JC 50614Y	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-01-82
167.	JC 43046W	SUB & HONY LT	PARKASH SINGH	01-12-81

THE DOGRA REGIMENT

168.	JC 35766H	SUB MAJ & HONY LT	DWARKA SINGH	01-01-82
169.	JC 33444K	SUB MAJ & HONY LT	HAKAM SINGH	01-12-81
170.	JC 42370F	SUB MAJ & HONY LT	PREM SINGH	01-11-81
171.	JC 70191X	SUB & HONY LT	BIKRAM SINGH	01-09-81
172.	JC 59302K	SUB & HONY LT	JAWAHAR LAL	01-10-81
173.	JC 66174A	SUB & HONY LT	KARTAR SINGH	01-01-82
174.	JC 65097K	SUB & HONY LT	PUNI CHAND KATOCH	01-09-81
175.	JC 73981X	SUB & HONY LT	PURAB SINGH	01-01-82
176.	JC 68287F	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL	01-11-81
177.	JC 63781N	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL	01-12-81
178.	JC 63686F	SUB & HONY LT	SANT RAM	01-12-81

THE GARHWAL RIFLES

179.	JC 39167A	SUB MAJ & HONY LT	DALIP SINGH BISHT	01-09-81
180.	JC 35381L	SUB MAJ & HONY LT	YASHWANT SINGH KUNWAR	01-01-82
181.	JC 72477L	SUB & HONY LT	BALAM SINGH RAWAT	01-12-81
182.	JC 50349N	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH BIST	01-09-81
183.	JC 61857K	SUB & HONY LT	DALBIR SINGH RAWAT	01-09-81
184.	JC 62571F	SUB & HONY LT	DALIP SINGH BIST	01-09-81
185.	JC 63035L	SUB & HONY LT	JEET SINGH RANA	01-01-82
186.	JC 55421H	SUB & HONY LT	KUNWAR SINGH RAUTANGALI	01-11-81

THE KUMAON REGIMENT

187.	JC 42760K	SUB MAJ & HONY LT	CHIRANJI LAL YADAV	01-01-82
188.	JC 41982M	SUB MAJ & HONY LT	JANARDAN PANT	01-10-81
189.	JC 41983P	SUB MAJ & HONY LT	JOHAR SINGH PAWAR	01-10-81
190.	JC 30740K	SUB MAJ & HONY LT	KESHAB DATT	01-12-81
191.	JC 33468N	SUB MAJ & HONY LT	KHUSHAL SINGH	01-01-82
192.	JC 70201W	SUB & HONY LT	BHAGWAT SINGH	01-12-81
193.	JC 66585Y	SUB & HONY LT	DEB SINGH	01-09-81
194.	JC 63917M	SUB & HONY LT	DEWAN SINGH DHANI	01-09-81
195.	JC 68956P	SUB & HONY LT	GIRISH CHANDRA PANDE	01-01-82
196.	JC 60513Y	SUB & HONY LT	HARISH CHANDRA	01-01-82
197.	JC 58967N	SUB & HONY LT	MAHENDRA SINGH	01-01-82
198.	JC 77492K	SUB & HONY LT	UMED SINGH	01-01-82

THE ASSAM REGIMENT

199.	JC 29619K	SUB MAJ & HONY LT	LAIKUNGA	01-11-81
200.	JC 62936L	SUB & HONY LT	HARBHAJAN SINGH SANGHA	01-10-81
201.	JC 70860L	SUB & HONY LT	JAINTI DASS SIHARMA	01-10-81
202.	JC 59045X	SUB & HONY LT	PREM NATH	01-11-81

THE BIHAR REGIMENT

203.	JC 52118W	SUB MAJ & HONY LT	MOCHI RAM MAJHI	01-01-82
204.	JC 33446P	SUB MAJ & HONY LT	NANU PRASAD SINGH	01-11-81
205.	JC 74366M	SUB & HONY LT	RAM PARBESH TIWARI	01-01-82
206.	JC 71906P	SUB & HONY LT	RAMA SINGH	01-01-82

THE MAHAR REGIMENT

207.	JC 33946M	SUB MAJ & HONY LT	SAHEBRAO BANSODE	01-12-81
208.	JC 69069P	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH	01-09-81
209.	JC 47370L	SUB & HONY LT	BHIKU JADHAV	01-09-81
210.	JC 43892K	SUB & HONY LT	JAGAT SINGH	01-12-81
211.	JC 67786K	SUB & HONY LT	KANHYA LAL	01-09-81
212.	JC 58128W	SUB & HONY LT	NAIN SINGH NEGI	01-11-81
213.	JC 44576X	SUB & HONY LT	NAMDEO BANNORE	01-09-82

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

214.	JC 13747X	SUB MAJ & HONY LT	ABDUL GANI	01-09-81
215.	JC 46586A	SUB & HONY LT	DEWAN SINGH	01-10-81
216.	JC 49849Y	SUB & HONY LT	PRITAM SINGH	01-10-81

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

217.	JC 271X	SUB & HONY LT	JAGIR SINGH	01-10-81
218.	JC 91941Y	SUB & HONY LT	OMKAR SINGH, SM	01-11-81
219.	JC 92139P	SUB & HONY LT	PREM SINGH BALWAL	01-10-81

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

220.	JC 22925W	SUB MAJ & HONY LT	MANSA RAM	01-09-81
221.	JC 37528P	"	P THIRUPATHI	01-10-81
222.	JC 31346L	"	PAR SINGH RAWAT	01-01-82
223.	JC 18505Y	"	RAMDULARE SINGH	01-11-81
224.	JC 61834H	SUB & HONY LT	GURDEV SINGH, Vrc	01-11-81
225.	JC 41880W	"	JASWANT SINGH	01-10-81
226.	JC 37610K	"	MANOHAR LAL	01-11-81
227.	JC 50328X	"	MELA SINGH	01-12-81
228.	JC 71873P	"	RAJENDRA SINGH	01-10-81
229.	JC 50345X	"	RAM SARUP	01-01-82

1 GORKHA RIFLES

230.	JC 34425L	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA BAHADUR GURUNG	01-11-81
231.	JC 35335W	"	DAMMAN SINGH GURUNG	01-01-82
232.	JC 49840K	"	SANT RAM RASAILY	01-09-81
233.	JC 76924F	SUB & HONY LT	TEK BAHADUR THAPA	01-12-81

3 GORKHA RIFLES

234.	JC 48432M	SUB MAJ & HONY LT	BIN BAHADUR GURUNG	01-11-81
235.	JC 62427M	SUB & HONY LT	AS BAHADUR GURUNG	01-12-81
236.	JC 65532M	"	DEO BAHADUR GURUNG	01-01-82
237.	JC 64625W	"	HASTA BAHADUR RANA	01-12-81
238.	JC 66325N	"	THAN PRASAD GURUNG	01-11-81
239.	JC 64627F	"	YAM BAHADUR GURUNG	01-11-81

4 GORKHA RIFLES

240.	JC 12356A	SUB MAJ & HONY LT (RELIGIOUS TEACHER)	PARYAG DATT SHARMA	01-12-81
241.	JC 29250K	SUB MAJ & HONY LT	SHIV RATTAN THAPA	01-10-81
242.	JC 52473N	SUB & HONY LT	BHEM BAHADUR PUN	01-11-81
243.	JC 67331N	"	CHANDRA BAHADUR GURUNG	01-11-81
244.	JC 59009M	"	CHITRA BAHADUR GURUNG	01-11-81
245.	JC 58421N	"	GAGAN BAHADUR GURUNG	01-11-81

246.	JC 48723M	SUB & HONY LT	KISHAN SING GURUNG	01-12-81
247.	JC 50744F	"	RAJINDAR SING GHARTI	01-12-81
248.	JC 68272Y	"	SHIV JANG THAPA	01-12-81
249.	JC 68273F	"	TEJ BAHADUR GURUNG	01-11-81
5 GORKHA RIFLES				
250.	JC 49637N	SUB MAJ & HONY LT	DEO BAHADUR PUN	01-11-81
251.	JC 76936W	SUB & HONY LT	CHITRA BAHADUR GURUNG	01-11-81
252.	JC 64153L	"	HASTA BAHADUR THAPA	01-01-82
253.	JC 64817N	"	SHANKU GURUNG	01-12-81
254.	JC 65555P	"	TEJ BAHADUR RANA	01-01-82
255.	JC 72386F	"	TEK BAHADUR GURUNG	01-12-81
256.	JC 64993L	"	VIRENDAR KUMAR THAPA	01-11-81
257.	JC 53470M	"	VISHAN SING THAPA	01-01-82
8 GORKHA RIFLES				
258.	JC 70013P	SUB & HONY LT	BHIM BAHADUR THAPA	01-12-81
259.	JC 65088H	"	DHANLAL GURUNG	01-11-81
260.	JC 56421P	"	INDRA KUMAR THAPA	01-10-81
261.	JC 61762K	"	JAGDISH GURUNG	01-11-81
262.	JC 35916N	"	JIT BAHADUR GURUNG	01-12-81
263.	JC 74933K	"	MAN PRASAD GURUNG	01-01-82
264.	JC 54371W	"	MOHAN SING GURUNG	01-10-81
265.	JC 61761F	"	RANSUR GURUNG	01-12-81
266.	JC 65090A	"	RATNAMANI NEWAR	01-01-82
267.	JC 71294K	"	TOP BAHADUR THAPA	01-01-82
268.	JC 65789Y	"	TUL RIR PUN	01-12-81
9 GORKHA RIFLES				
269.	JC 31358A	SUB MAJ & HONY LT	BIKRAM SINGH KHATTRI	01-09-81
270.	JC 30674M	"	PADAM BAHADUR ROKA	01-01-81
271.	JC 55563A	"	VIJENDRA SINGH PANWAR	01-01-82
272.	JC 62479N	SUB & HONY LT	EK BAHADUR KHATTRI	01-01-82
273.	JC 45704W	"	INDRA SING THAPA	01-12-81
274.	JC 60339N	"	YEM BAHADUR KARKI	01-11-81
11 GORKHA RIFLES				
275.	JC 31990X	SUB MAJ & HONY LT	DAULAT MAN RAI	01-09-81
276.	JC 39922Y	"	ISHWAR SINGH GURUNG	01-01-82
277.	JC 59959F	SUB & HONY LT	BHIM BAHADUR LIMBU	01-11-81
278.	JC 54324Y	"	DIL MAN RAI	01-12-81
279.	JC 53934Y	"	PURNA BAHADUR RAI	01-11-81
ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)				
280.	JC 20463W	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV KRISHAN CHOPRA	01-10-81
281.	JC 21986F	"	KAPOOR CHANDRA SHARMA	01-12-81
282.	JC 21985Y	"	TILAK RAJ	01-11-81
283.	JC 57004P	SUB & HONY LT	A LAKSHMOJI RAO	01-09-81
284.	JC 63431F	"	AMALENDU BIKASH ROY	01-10-81
285.	JC 31927H	"	AMARJIT SINGH	01-01-82
286.	JC 63449X	"	BALESH WAR SINGH	01-11-81
287.	JC 61413A	"	BANEY SINGH SHEKHAWAT	01-09-81
288.	JC 63437H	"	BHAGAT SINGH	01-10-81
289.	JC 30123K	SUB & HONY LT	BHIM SINGH BOHRA	01-11-81
290.	JC 63524Y	"	BUDH RAM	01-01-82
291.	JC 63521F	"	CHACKO KM	01-01-82
292.	JC 61410M	"	D DIVYANATHAN	01-09-81
293.	JC 63525Y	"	DASRATH SINGH RAJPUT	01-01-82
294.	JC 29863K	"	DAULAT SINGH	01-12-81
295.	JC 40550L	"	DHANI RAM	01-01-82
296.	JC 63442X	"	DHRUB NARAIN SINGH	01-10-81
297.	JC 30137F	"	EASO KS	01-10-81
298.	JC 29861Y	"	HEM CHAND	01-10-81
299.	JC 69790N	"	JAI DATT	01-01-82
300.	JC 20868N	"	KV XAVIER	01-12-81
301.	JC 63434P	"	KALI SANKAR MUKHOPADHYAY	01-10-81

302.	JC 29819A	SUB & HONY LT	KAMALANAND PRASAD	01-12-81
303.	JC 37510Y	"	KEDAR SINGH BANKOTI	01-01-82
304.	JC 29859K	"	LAL MOHAN MANDAL	01-11-81
305.	JC 63527K	"	LAL SINGH	01-01-82
306.	JC 29864M	"	M SIMON	01-11-81
307.	JC 29746Y	"	MADHUKAR BHATAWADEKAR	01-11-81
308.	JC 40555K	"	MAHANAND DANDRIYAL	01-01-82
309.	JC 63440H	"	N PARASURAMAN	01-10-81
310.	JC 57518M	"	NARINDAR SINGH	01-09-81
311.	JC 57520M	"	PRAKASH SINGH	01-09-81
312.	JC 63441H	"	PRATULKUMAR MUKHOPADHYAY	01-10-81
313.	JC 63438L	"	RAM KISHORE SHARMA	01-10-81
314.	JC 40559A	"	RAM KUMAR SINGH YADAVA	01-10-81
315.	JC 63435X	"	RAM PRATAP	01-10-81
316.	JC 30131A	"	RAMA SHANKER SINGH	01-11-81
317.	JC 61415N	"	RAMANUJ PRASAD SINGH	01-09-81
318.	JC 63448P	"	RAMCHANDRAN ADIYODINV	01-11-81
319.	JC 63516X	"	RAMESH PRODHAN	01-11-81
320.	JC 63430Y	"	RANGADHAR MOHAPATRA	01-09-81
321.	JC 63439N	"	ROOP SINGH	01-10-81
322.	JC 63515P	"	SA SATTAR	01-11-81
323.	JC 59394F	"	SHRI KRISHAN PAL SINGH CHAUHAN	01-11-81
324.	JC 29733F	"	SHRI RAM	01-11-81
325.	JC 30142M	"	SHYAM SINGH	01-10-81
326.	JC 63532P	"	SUNDER SINGH	01-01-82
327.	JC 68801A	"	SUSHANTA KUMAR SARKAR	01-01-82
328.	JC 63520A	"	UDHAV SURVE	01-12-81
329.	JC 30122Y	"	UMA SHANKER DUBEY	01-09-81
330.	JC 29866X	"	VIJAYA SAMPATH KUMAR	01-11-81
331.	JC 61411P	"	VIKARMADITYA TIWARI	01-09-81
332.	JC 57535X	"	VIVEKANANDAN G	01-09-81

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

333.	JC 41829P	SUB MAJ & HONY LT	BINODE KUMAR DASS	01-09-81
334.	JC 42027Y	"	HARENDER SINGH	01-01-82
335.	JC 43411N	"	JASWANT SINGH	01-12-81
336.	JC 41845N	"	PV NARAYANA SWAMY	01-01-82
337.	JC 43449W	"	RAM CHANDER	01-01-82
338.	JC 41832W	"	RAMA PRASAD CHATTERJEE	01-11-81
339.	JC 43423F	"	TARSEM LAL	01-01-82
340.	JC 75816L	SUB & HONY LT	AM CHACKO	01-11-81
341.	JC 75804W	"	ABDUL AZEEZ	01-11-81
342.	JC 75624N	"	CHANDERMA SINGH	01-09-81
343.	JC 75839M	"	GANGA SARAN	01-01-82
344.	JC 75833L	"	GURBACHAN SINGH	01-12-81
345.	JC 75629M	"	HARI CHARAN RAY	01-09-81
346.	JC 75646M	"	HARI KRISHAN	01-11-81
347.	JC 75701X	"	HIMMAT SINGH	01-04-81
348.	JC 75634X	"	HOSHIAR SINGH	01-10-81
349.	JC 75632N	"	INDER SINGH	01-09-81
350.	JC 75837F	"	JAI NARAIN	01-01-82
351.	JC 75636H	"	JASWANT SINGH	01-09-81
352.	JC 75820M	"	KARTA RAM	01-12-81
353.	JC 71425H	"	LEHAR SINGH	01-12-81
354.	JC 75842M	"	KHUSHAL SINGH	01-01-82
355.	JC 75627F	"	LAXMI CHAND	01-09-81
356.	JC 75619A	"	LAXMI PRASAD SRIVASTAVA	01-09-81
357.	JC 75630F	"	NARAYANAN	01-09-81
358.	JC 75639W	"	RAJ BIR SINGH	01-10-81
359.	JC 75849W	"	SHIV CHANDRA PRASAD SINGH	01-01-82
360.	JC 75817N	"	SHRI RAM	01-11-81
361.	JC 75635A	"	SURYAKANT VISHNU KULKARNI	01-10-81

ARMY MEDICAL CORPS

362.	JC 75223X	SUB & HONY LT	MAHANAND PANDEY	01-01-82
363.	JC 77162L	"	RANOJI DATTATRY KULKARNI	01-01-82

ARMY ORDNANCE CORPS

364.	JC 60887P	SUB MAJ & HONY LT	AMOLAK RAM AGARWAL	01-01-82
365.	JC 38300L	"	BHAGAT PAL SINGH	01-09-81
366.	JC 60945N	"	GANGA SINGH	01-01-82
367.	JC 25213Y	"	JASWANT SINGH	01-09-81
368.	JC 52525Y	"	PM KUMARAN	01-09-81
369.	JC 69299N	SUB & HONY LT	ARABINDA RAY CHOUDHURY	01-10-81
370.	JC 73936L	"	BALBIR SINGH KADIAN	01-12-81
371.	JC 70579H	"	BASAKHI RAM RAJPUT	01-01-82
372.	JC 63165N	"	CM GURUMURTHY	01-09-81
373.	JC 67766W	"	CHIRANJI LAL YADAVA	01-10-81
374.	JC 74978K	"	D MURUGAN	01-11-81
375.	JC 66501A	"	DAN SINGH KIIATRI	01-01-82
376.	JC 76585M	"	GURBACHAN SINGH RAJPUT	01-11-81
377.	JC 74994I	"	JAGAT RAM RANA	01-01-82
378.	JC 68419K	"	JAI LAL YADAVA	01-09-81
379.	JC 68428L	"	KEWAL SINGH REHILL	01-09-81
380.	JC 68397W	"	MAI RAM	01-01-82
381.	JC 66850K	"	MATA PHER	01-09-81
382.	JC 68408X	"	NARAYANAN	01-09-81
383.	JC 68413H	"	PADMAKSHAN K	01-10-81
384.	JC 68383W	"	RAM RACHHE PAL	01-11-81
385.	JC 69272L	"	SHIV NARAIN	01-01-82
386.	JC 68393A	"	T THEYYUNNI	01-01-82
387.	JC 64364A	"	TC CHERIYAN	01-01-82
388.	JC 64382W	"	TP ARAVINDAKSHAN NAIR	01-09-81
389.	JC 64384F	"	TARKESHWAR SINGH	01-09-81
390.	JC 68423M	"	VM KURIAN	01-09-81

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

391.	JC 52746L	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH LAL BAKHSI	01-09-81
392.	JC 32643L	"	SUKHDEV SINGH	01-09-81
393.	JC 57193K	SUB & HONY LT	ARBINDA ROY	01-11-81
394.	JC 63124K	"	AWADHESH KUMAR SINGH	01-01-82
395.	JC 74215N	"	BALBIR SINGH	01-12-81
396.	JC 73361F	"	BASANT SINGH KAUSHAL	01-10-81
397.	JC 57254N	"	BASUDEO SINGH	01-01-82
398.	JC 76723W	"	BIMAL SINGH	01-12-81
399.	JC 57728L	"	CHIDANANDA LINGASUR	01-10-81
400.	JC 58817X	"	DATTATRYA MANSURWALE	01-12-81
401.	JC 74242X	"	DEVI PRASAD CHAMOLI	01-12-81
402.	JC 54566F	"	GAYAN BABU MISRA	01-12-81
403.	JC 56741K	"	GURBHEJ SINGH	01-01-82
404.	JC 48312N	"	HARBANS SINGH	01-10-81
405.	JC 69366H	"	INDER SINGH	01-11-81
406.	JC 50678K	"	JIT SINGH SANDHU	01-11-81
407.	JC 58815M	"	K RAGHAVAN	01-10-81
408.	JC 56374H	"	K RAMAN KUTTI	01-11-81
409.	JC 56736Y	"	KAMALAKAR DIVEKAR	01-01-82
410.	JC 56367M	"	LAL SINGH	01-01-82
411.	JC 56733L	"	NANEH LAL PALIWAL	01-10-81
412.	JC 61182P	"	NARASIMHACHARI PEESAPATI	01-10-81
413.	JC 52909N	"	PV OUSEPH	01-12-81
414.	JC 73194W	"	PIRTHI SINGH	01-10-81
415.	JC 74572W	"	PUNAM SINGH	01-01-82
416.	JC 57261L	"	RAJESHWAR PRASAD	01-11-81
417.	JC 55779F	"	RAM SINGH	01-12-81
418.	JC 52905X	"	RAMA KHARAT	01-09-81
419.	JC 56541N	"	RAN SINGH	01-01-82
420.	JC 74212A	"	RANA KESHAVA PRASAD SINGH	01-11-81
421.	JC 69392K	"	RISAL SINGH	01-12-81
422.	JC 76724A	"	SHAMSHER SINGH THAPA	01-12-81
423.	JC 50953Y	"	SHYAM LAL SINGH	01-10-81
424.	JC 59265F	"	TEJ BAHADUR SINGH	01-01-82
425.	JC 56345N	"	UMED SINGH NEGI	01-11-81

ARMY EDUCATION CORPS

426.	JC 34142K	SUB MAJ & HONY LT	GURBAKSH SINGH LAMBA	01-01-82
427.	JC 31190Y	"	PURAN PRASAD PANDEY	01-01-82
428.	JC 65849H	SUB & HONY LT	BANI SINGH CHOHAN	01-12-81
429.	JC 66095I	"	BASHISHTH MISHRA	01-12-81
430.	JC 76354W	"	CHINTA MANI PUROHIT	01-01-82
431.	JC 65845M	"	HARBANS SINGH	01-11-81
432.	JC 66094H	"	NAGINA SINGH	01-10-81
433.	JC 65852H	"	RADHE SHYAM	01-01-82
434.	JC 66090M	"	RAJ BAHADUR RAI	01-09-81
435.	JC 65851A	"	RAJENDRA SINGH	01-10-82
436.	JC 76353N	"	SHER SINGH POKHARIYA	01-10-81
437.	JC 66091P	"	VIJAY SINGH CHUNDAWAT	01-09-81
438.	JC 76060H	"	VIRENDRA SINGH	01-09-81

THE INTELLIGENCE CORPS

439.	JC 37507Y	SUB & HONY LT	BHUPAL SINGH PHARSWAN	01-02-81
------	-----------	---------------	-----------------------	----------

CORPS OF MILITARY POLICE

440.	JC 53570X	SUB MAJ & HONY LT	SOOM NATH KOAL	01-01-82
441.	JC 74741M	SUB & HONY LT	GURDIAL SINGH	01-09-81

DEFENCE SECURITY CORPS

442.	JC 32372	SUB MAJ & HONY LT	PC NARAYANAN NAIR	01-01-82
------	----------	-------------------	-------------------	----------

TO BE HONORARY LIEUTENANTS**ARMoured CORPS**

1.	JC 12934K	RIS MAJ (RELIGIOUS TEACHER)	MUNNA LAL	01-12-81
----	-----------	-----------------------------	-----------	----------

BENGAL ENGINEER GROUP

2.	JC 44102W	SUB MAJ	MEHAR SINGH DHALIWAL	01-01-82
3.	JC 48160W	SUB MAJ	SURJIT SINGH	01-09-81

CORPS OF SIGNALS

4.	JC 34850W	SUB MAJ	V KRISHNA PANICKER	01-10-81
----	-----------	---------	--------------------	----------

ARMY EDUCATION CORPS

5.	JC 22153K	SUB MAJ	SUKHI RAM	01-10-81
----	-----------	---------	-----------	----------

CORPS OF MILITARY POLICE

6.	JC 54006P	SUB MAJ	HARBANS SINGH	01-11-81
----	-----------	---------	---------------	----------

DEFENCE SECURITY CORPS

7.	JC 62311	SUB MAJ	BACHAN SINGH	01-09-81
8.	JC 32382	SUB MAJ	DARYA RAM	01-01-82
9.	JC 32388	SUB MAJ	DURGAPADA BHATTACHARJEE	01-10-81
10.	JC 4200	SUB MAJ	GAJINDAR SINGH	01-09-81
11.	JC 32373	SUB MAJ	M PANDIAN	01-09-81
12.	JC 74506	SUB MAJ	RAM SINGH	01-02-81

TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJORS**17 HORSE**

1.	JC 73387W	RIS	BALDEV SINGH	01-01-82
----	-----------	-----	--------------	----------

9 HORSE

2.	JC 67413W	RIS	AJIT SINGH	01-11-81
----	-----------	-----	------------	----------

70 ARMoured REGIMENT

3.	JC 56474N	RIS	RAM AWADH SINGH	01-02-81
----	-----------	-----	-----------------	----------

73 ARMoured REGIMENT

4.	JC 75286F	RIS	PIARA SINGH	01-02-81
----	-----------	-----	-------------	----------

84 ARMoured REGIMENT

5.	JC 75290K		HARPAL SINGH	01-01-82
----	-----------	--	--------------	----------

ARMoured CORPS

6.	JC 69902A	RIS	MATHEW KM	01-11-81
7.	JC 72856F	RIS	SURENDRA BAHADUR SINGH	01-12-81

REGIMENT OF ARTILLERY

8.	JC 68187W	SUB	ATMARAM JADHAV	01-12-81
9.	JC 47961M	SUB	BABU LAL SHARMA	01-12-81
10.	JC 73575X	SUB	BANWARI LAL YADAVA	01-11-81
11.	JC 72593N	SUB	BHOLA RAM	01-10-81
12.	JC 68217H	SUB	LALL SINGH	01-11-81
13.	JC 58665F	SUB	NARAYANAN	01-11-81
14.	JC 9891P	SUB (RELIGIOUS TEACHER)	PHARINDRA NATH TRIVEDI	01-11-81

15.	JC 53331H	SUB	R SUBBIAH	01-09-81
16.	JC 45408L	SUB	SURAT SINGH	01-10-81
17.	JC 71848W	SUB	SWARAN SINGH	01-01-82
18.	JC 45380W	SUB	TRILOK SINGH	01-01-82
19.	JC 66779F	SUB	UJAGAR SINGH	01-08-81

BENGAL ENGINEER GROUP

20.	JC 71536A	SUB	BIKRAM SINGH	01-09-81
21.	JC 64103P	SUB	INDRAJIT SINGH	01-11-81

BOMBAY ENGINEER GROUP

22.	JC 47669X	SUB	JAI DATT	01-01-82
23.	JC 50778P	SUB	RAJARAM MORE	01-01-82
24.	JC 60430N	SUB	RAM SINGH	01-09-81

CORPS OF SIGNALS

25.	JC 71150A	SUB	AMAR KRISHNA DAS	01-01-82
26.	JC 60631M	SUB	BAHADUR RAM	01-10-81
27.	JC 75026W	SUB	JAGDEV SINGH PATHANIA	01-09-81
28.	JC 71153N	SUB	KISHORI LAL VERMA	01-01-82
29.	JC 71744P	SUB	KRISHNA KUMAR BHATIA	01-01-82
30.	JC 71755F	SUB	NIRMAL SINGH BHINDER	01-11-81
31.	JC 52108W	SUB	RAMCHAND RAMOLA	01-01-82
32.	JC 78401F	SUB	RAM NIWAS MAHESHWARI	01-09-81
33.	JC 77401P	SUB	SHIB DATT TEWARI	01-01-82

THE PUNJAB REGIMENT

34.	JC 42306K	SUB	PRITAM SINGH	01-01-81
-----	-----------	-----	--------------	----------

THE MADRAS REGIMENT

35.	JC 62062H	SUB	N SUNDARAMURTHY	01-12-81
-----	-----------	-----	-----------------	----------

THE GRENADIERS

36.	JC 75869K	SUB	MANGE RAM KAUSHIK	01-03-81
37.	JC 66047L	SUB	PIARA SINGH	01-07-81
38.	JC 64030Y	SUB	SARWAN SINGH KASHYAP	01-05-81

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

39.	JC 62577H	SUB	OM PARKASH	01-09-81
-----	-----------	-----	------------	----------

THE RAJPUTANA RIFLES

40.	JC 50026L	SUB	CHANDGI RAM	01-09-81
41.	JC 73002N	SUB	HARI SINGH	01-01-82
42.	JC 58307W	SUB	SURAJ MAL RAM	01-01-82

THE RAJPUT REGIMENT

43.	JC 50540P	SUB	ASHWANI KUMAR CHAUBEY	01-09-81
-----	-----------	-----	-----------------------	----------

THE JAT REGIMENT

44.	JC 49600N	SUB	BHAG RAM	01-01-82
45.	JC 72995L	SUB	BHARAN LAL	01-01-82
46.	JC 60283W	SUB	DALIP SINGH	01-12-81
47.	JC 72995L	SUB	RAJ SINGH	01-01-82

THE SIKH REGIMENT			
48.	JC 67195H	SUB	GIAN SINGH 01-01-81
THE BIHAR REGIMENT			
49.	JC 55994M	SUB	UDIT NARAYAN SINGH 01-12-81
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES			
50.	JC 66198K	SUB	SODAGAR SINGH 01-01-82
1 GORKHA RIFLES			
51.	JC 68460A	SUB	KARNA BAHADUR GURUNG 01-12-81
3 GORKHA RIFLES			
52.	JC 74140F	SUB	SURAJ MAL THAPA 01-12-81
4 GORKHA RIFLES			
53.	JC 46091N	SUB	BUDH SING THAPA 01-12-81
GORKHA RIFLES			
54.	JC 76937Y	SUB	BAKHANE GURUNG 01-12-81
55.	JC 54656H	SUB	KHARKA SINGH GURUNG 01-11-81
56.	JC 71596P	SUB	PREM CHAND THAKUR 01-01-82
9 GORKHA RIFLES			
57.	JC 62478A	SUB	HARI BAHADUR SING MAJHI 01-11-81
11 GORKHA RIFLES			
58.	JC 33965X	SUB	BHIM BAHADUR ALE 01-12-81
59.	JC 50528N	SUB	NIMA DORJE TAMANG 01-12-81
ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)			
60.	JC 59658X	SUB	GOVIND RAM 01-12-81
61.	JC 61414H	SUB	GURCHARN SINGH NEGI 01-09-81
62.	JC 61377A	SUB	HARI PRASAD 01-10-81
63.	JC 63518H	SUB	HARWANT SINGH 01-12-81
64.	JC 63446W	SUB	K BALASUNDARAN NAMBIAR 01-11-81
65.	JC 32180N	SUB	KAMAL SINGH 01-11-81
66.	JC 33720H	SUB	KARAM SINGH 01-11-81
67.	JC 63445F	SUB	MOHINDAR SINGH 01-11-81
68.	JC 29804X	SUB	NIBESH CHANDRA BHATTACHARJEE 01-12-81
69.	JC 29776W	SUB	MANI GOPAL BARTHAHAKUR 01-10-81
70.	JC 29860W	SUB	PAUL JOHN 01-12-81
71.	JC 57517K	SUB	PREM DASS SABHARWAL 01-09-81
72.	JC 40560P	SUB	RAJESHWAR SINGH RATHORE 01-01-82
73.	JC 63444Y	SUB	S PETH RAJ 01-11-81
74.	JC 57005X	SUB	VENKATESWARLU CHINTAPALLI 01-09-81
75.	JC 59412Y	SUB	VITHAL KULKARNI 01-09-81
ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)			
76.	JC 75826P	SUB	AMARJIT SINGH 01-12-81
77.	JC 54846P	SUB	BACHI RAM 01-01-82
78.	JC 75806F	SUB	BISHAN SINGH 01-11-81
79.	JC 75819Y	SUB	CHANDER SINGH 01-11-81
80.	JC 75845A	SUB	GANPAT SINGH 01-01-82
81.	JC 75638N	SUB	JOSEPH KANDULNA 01-10-81
82.	JC 75631K	SUB	KANNATH RADHAKRISHNAN NAIR 01-09-81
83.	JC 75648X	SUB	KHEM SINGH 01-11-81
84.	JC 75805Y	SUB	MUBARAK SINGH 01-11-81
85.	JC 75642W	SUB	PREM CHAND 01-10-81
86.	JC 75618A	SUB	RAMESHWAR PRASAD YADAV 01-09-81
ARMY MEDICAL CORPS			
87.	JC 61257F	SUB	KV VARUGHESE 01-09-81
ARMY ORDNANCE CORPS			
88.	JC 71703L	SUB	BHIKAJI RAUT 01-07-81
89.	JC 72793K	SUB	CHARAN SINGH 01-07-81

90.	JC 72193F	SUB	HARISH CHANDER RATHEE	01-06-81
91.	JC 74982M	SUB	LAKHMI CHAND	01-01-82
92.	JC 68427H	SUB	MAHABIR SINGH	01-01-82
93.	JC 65721X	SUB	MANOHAR LAL	01-01-82
94.	JC 65694Y	SUB	NASIB SINGH	01-01-82
95.	JC 73969W	SUB	NAZAR MOHD	01-09-81
96.	JC 68384Y	SUB	NIRAPAD DAS	01-01-82
97.	JC 70577X	SUB	P MADHAVA MENON	01-12-81
98.	JC 77013X	SUB	PK NARATAH	01-01-82
99.	JC 72194K	SUB	RAJE RAM	01-02-81
100.	JC 68402W	SUB	T GOVINDAN KUTTY NAIR	01-01-82
101.	JC 73961 K	SUB	TUKARAM BUDHAJI DESAI	01-11-81
102.	JC 68382N	SUB	VENKATA RAMA MOHAN RAO	01-01-82
			AKKI REDDY	

COPRS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

103.	JC 59144A	SUB	ADHIK LAL MISTRI	01-10-81
104.	JC 65294M	SUB	ATTER SINGH	01-12-81
105.	JC 56540L	SUB	BABURAO JAWALKAR	01-11-81
106.	JC 54521 F	SUB	BALBIR SINGH	01-11-81
107.	JC 43186H	SUB	BELAM SINGH RAWAT	01-12-81
108.	JC 74213H	SUB	BHUPAL CHANDRA DASGUPTA	01-11-81
109.	JC 57860M	SUB	DAGADU KUMBHAR	01-01-82
110.	JC 73193N	SUB	DATTA DESAI	01-10-81
111.	JC 57711Y	SUB	DAYA KRISHAN SHARMA	01-11-81
112.	JC 66020N	SUB	DEVADAS GL	01-12-81
113.	JC 58762K	SUB	DHARAM CHAND	01-12-81
114.	JC 56537Y	SUB	GOPALAN P	01-11-81
115.	JC 66012P	SUB	HARBHAJ SINGH	01-09-81
116.	JC 74244H	SUB	HIRA LAL CHOPRA	01-12-81
117.	JC 61181M	SUB	JAI SINGH	01-12-81
118.	JC 70100F	SUB	JAIKRIT SINGH BISHT	01-01-82
119.	JC 57794F	SUB	JEET SINGH	01-12-81
120.	JC 54520Y	SUB	K KARUNAKARAN PILLAI	01-10-81
121.	JC 55781Y	SUB	K RAGHAVA KURUP	01-11-81
122.	JC 56386X	SUB	KASI REDDI ADINARAYANA	01-11-81
123.	JC 57700M	SUB	KELU CHARAN RAUTRAY	01-10-81
124.	JC 56742M	SUB	KORACHAN KANDI BALAN	01-01-82
125.	JC 70101L	SUB	KULWANT SINGH	01-01-82
126.	JC 56604L	SUB	KUNDAN SINGH DANGI	01-01-82
127.	JC 57252L	SUB	MATHURA DATT KARNATAK	01-01-82
128.	JC 56335K	SUB	MOOL CHAND	01-12-81
129.	JC 52899P	SUB	NAR SINGH	01-12-81
130.	JC 56353M	SUB	OM PARKASH DUTTA	01-12-81
131.	JC 58759Y	SUB	PEHAP SINGH	01-11-81
132.	JC 57253N	SUB	PRITAM SINGH	01-12-81
133.	JC 60717L	SUB	RABINDRA NATH SANYAL	01-12-81
134.	JC 57712F	SUB	RAM DATT MISRA	01-01-82
135.	JC 70718P	SUB	RAM SWARUP SINGH	01-01-82
136.	JC 57194M	SUB	RESHAM SINGH	01-01-82
137.	JC 52734W	SUB	SHRI KRISHAN	01-12-81
138.	JC 70710P	SUB	SWARN SINGH	01-11-81
139.	JC 56532M	SUB	TK GOPALAKRISHNAN NAIR	01-01-82
140.	JC 55650N	SUB	T ARA SINGH	01-11-81
141.	JC 55793H	SUB	THANKAPPAN NAIR P	01-11-81
142.	JC 74571N	SUB	UDAI SINGH RAWAT	01-10-81
143.	JC 58739M	SUB	V DHARANI RAJ	01-01-82

ARMY EDUCATION CORPS

144.	JC 696X	SUB	GABAR SINGH GUSAIN	01-05-81
145.	JC 62330F	SUB	KP DAMODARAN	01-12-81

CORPS OF MILITARY POLICE

146.	JC 69200F	SUB	BHAKHTAWER SINGH PATHANIA	01-10-81
------	-----------	-----	---------------------------	----------

DEFENCE SECURITY CORPS

147.	JC 78847	SUB	SHEO PRASAD SHARMA	01-11-81
THE TERRITORIAL ARMY				
148.	TJ 863	SUB	BALBIR SINGH MANIK	01-10-81
149.	TJ 1301	SUB	GHAMAND SINGH BIST	01-07-81
150.	TJ 1823	SUB	KRISHNA SHASTRY	1-10-81
151.	TJ 715	SUB	SISIR KUMAR GUPTA	01-07-81

TO BE HONORARY SUBEDARS**BENGAL ENGINEER GROUP**

1.	JC 77714N	NB SUB	BAKHTAWAR SINGH	01-11-81
----	-----------	--------	-----------------	----------

ARMY MEDICAL CORPS

2.	JC 85786M	NB SUB	NIRANJAN CHAKRABORTY	01-07-81
----	-----------	--------	----------------------	----------

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

3.	JC 96035L	NB SUB	KEWAL KRISHAN	01-11-81
----	-----------	--------	---------------	----------

THE TERRITORIAL ARMY

4.	TJ 1858	NB SUB	DNYANU SHINDE	01-03-81
5.	TJ 1714	NB SUB	KHAMAN SINGH	01-02-81
6.	TJ 1715	NB SUB	MOHAN LAL	01-03-81
7.	TJ 1794	NB SUB	NUR NADAF	01-02-81
8.	TJ 2059	NB SUB	SD DUBEY	01-07-81

सं० 3 ई बिनांक 23 जनवरी 1982—राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 1982) के अवसर पर निम्नलिखित एन सी एमो को उनके प्रकाश में प्रहण करने पर देना विनियमावली, 1962 के पैरा 181 के अधीन उनके नाम के सामने दी गई सारीख से अवैतनिक नायब रिमालवार/सुबेदार का पद प्रदान करते हैं :—

7 केवलरी

1.	1027798 एम	दफादार	तेज सिंह	01-09-81
----	------------	--------	----------	----------

8 केवलरी

2.	1028089 के	दफादार	निर्भय सिंह	01-10-81
3.	1028129 ए	„	मोमकार सिंह	01-08-81

14 हार्स

4.	1027776 एन	दफादार	किशन सिंह	01-09-81
----	------------	--------	-----------	----------

3 केवलरी

5.	1030092 एच	दफादार	राम फूल सिंह मुद्गा	01-06-81
----	------------	--------	---------------------	----------

18 केवलरी

6.	1027408 बार्ड	दफादार	मूरत सिंह	01-08-81
----	---------------	--------	-----------	----------

थो सेंट्रल इण्डिया हार्स

7.	1026873 के	दफादार	जिले सिंह	01-04-81
----	------------	--------	-----------	----------

63 केवलरी

8.	1026993 एक्स	दफादार	मोती सिंह	01-04-81
----	--------------	--------	-----------	----------

64 केवलरी

9.	1028111 के	दफादार	तोरही सिंह	01-09-81
----	------------	--------	------------	----------

65 आर्मड रेजीमेंट

10.	1027498 एल	„	सीकला राम	01-08-81
-----	------------	---	-----------	----------

67 आर्मड रेजीमेंट

11.	1028849 एफ	दफादार	बबरीश सिंह	01-01-82
12.	1027558 पी	„	बिशम्बर सिंह	01-08-81

69 प्रार्थन रेजीमेंट

13.	1027581 एन	दफादार	बकशी राम	01-08-81
14.	1028271 के	दफादार	शमशेर खान	01-10-81

70 प्रार्थन रेजीमेंट

15.	1028600 पी	दफादार	कान्त पाल	01-10-81
-----	------------	--------	-----------	----------

72 प्रार्थन रेजीमेंट

16.	1026496 एन	दफादार	ईशर दास	01-02-81
-----	------------	--------	---------	----------

74 प्रार्थन रेजीमेंट

17.	1027058 एम्स	दफादार	जयवंत सिंह	01-04-81
-----	--------------	--------	------------	----------

81 प्रार्थन रेजीमेंट

18.	1027326 डबल्यू	दफादार	शमशेर सिंह	01-07-81
-----	----------------	--------	------------	----------

प्रार्थन कोर

19.	1027292 एन	दफादार	बेद परकाश	01-06-81
20.	1097252 डबल्यू	दफादार	शान चन्द	01-06-81
21.	1097074 एम	दफादार	जगजीत	01-05-81
22.	1027832 एफ	दफादार	लोचन सिंह	01-09-81
23.	1097102 एन	दफादार	रामेश्वर लाल	01-08-81
24.	1028043 एफ	दफादार	रोहीताश कुमार	01-09-81
25.	1097273 ए	दफादार	शेख राम	01-07-81
26.	1026682 के	दफादार	सोहन सिंह	01-05-81

रेजीमेंट ग्राफ आर्टिलरी

27.	1157543 डबल्यू	हवलदार	ए मनतियागो	01-06-81
28.	1157085 एल	हवलदार	अब्दुल बहोद	01-04-81
29.	1149240 एम	हवलदार	अच्युत कुट्टी बी	01-05-81
30.	1156726 ए	हवलदार	बल बहादुर सिंह	01-03-81
31.	1150687 डबल्यू	हवलदार	बलबीर चन्द	01-09-81
32.	1155982 एच	हवलदार	बलवन्त सिंह	01-04-81
33.	1149646 ए	हवलदार	बन्ता सिंह	01-07-81
34.	1151011 ए	हवलदार	बसन्त राम	01-09-81
35.	1157791 एम	हवलदार	बसन्तियप्पा जय	01-07-81
36.	1149651 एल	"	भगत राम	01-07-81
37.	1150080 के	"	भनवर सिंह	01-07-81
38.	1151215 एम	"	भास्करन नायर के	01-07-81
39.	1152345 एफ	"	भोला राम	01-06-81
40.	1150937 एम	"	बिन्दा दीन	01-09-81
41.	1148124 बाई	"	बिशम्बर बयाल	01-05-81
42.	1147808 एफ	"	बुछु	01-05-81
43.	1147970 बाई	"	बुधु ठाकुर	01-05-81
44.	1151137 ए	"	सी ए पेम्माईया	01-10-81
45.	1157674 एफ	"	सी के पोन्नाप्पा	01-06-81
46.	5737325 एम	"	चमन लाल	01-07-81
47.	1152243 एल	"	चमन सिंह भदवाल	01-12-81
48.	1146315 एन	"	चमन सिंह	01-02-81
49.	1152023 एफ	"	चन्द्रा देव सिंह यादव	01-11-81
50.	1149563 पी	"	चरण दास	01-07-81
51.	1150105 एल	"	चेत राम	01-07-81
52.	1152270 पी	"	दशरथ सिंह	01-12-81
53.	1157766 एन	"	देन्जु	01-07-81
54.	1150236 डबल्यू	"	देवी सिंह	01-08-81
55.	1148005 एफ	"	धनेसर राम	01-05-81

56.	1157137 डबल्यू	हवलदार	धर्मवीर सिंह यादव	01-04-81
57.	1147465 डबल्यू	"	एकम्बरम	01-04-81
58.	1157401 बार्ड	"	एक्सप्टन	01-04-81
59.	1148424 बार्ड	"	गफूर मियाँ	01-06-81
60.	1148705 पी	"	गणेश राम	01-06-81
61.	1149486 एल	"	गंगा राम होडे	01-04-81
62.	1148084 एफ	"	धीसा राम	01-05-81
63.	1149763 एल	"	गिरदावर सिंह	01-07-81
64.	1148309 बार्ड	"	गोपाल दास	01-06-81
65.	1147539 ए	"	गुलाम चन्द	01-04-81
66.	1150881 एल	"	गुप्ता प्रसाद	01-09-81
67.	1151266 ए	"	गुरबचन सिंह	01-10-81
68.	1147723 एल	"	गुरदियाल	01-04-81
69.	1148328 के	"	गुरदियाल सिंह	01-06-81
70.	1151323 डबल्यू	"	हरी राम वर्मा	01-10-81
71.	1156988 डबल्यू	"	हरी सिंह	01-03-81
72.	1156745 एल	"	हरफूल सिंह	01-03-81
73.	1146786 एफ	"	इन्दरजीत	01-03-81
74.	1147460 एक्स	"	इन्दर सिंह	01-04-81
75.	1157618 एच	"	जे डोराईस्वामी	01-06-81
76.	1150711 एफ	"	जंग बहादुर	01-09-81
77.	1151211 डबल्यू	"	जयश्री	01-10-81
78.	1151058 एल	"	जीवन कुमार तमंग	01-09-81
79.	1148444 एम	"	जोगिन्दर सिंह	01-06-81
80.	1157515 के	"	के जयारामन	01-05-81
81.	1147343 एम	"	के नारायणन नायर	01-04-81
82.	1150399 के	"	के राजारतनम	01-08-81
83.	1157902 बार्ड	"	के रविन्द्रम पिल्लै	01-08-81
84.	1148796 के	"	कान्छी	01-06-81
85.	1147750 पी	"	खेमचन्द	01-05-81
86.	1149691 एम	"	किशन चन्द	01-07-81
87.	1149693 एक्स	"	किशन लाल	01-07-81
88.	1165183 ए	"	कोचुलीथन जयदेवन उम्मीयन	01-11-81
89.	1140411 एम	"	कृष्णा अय्यर एन	01-11-81
90.	1147025 एल	"	कृष्णन एम	01-03-81
91.	1156791 ए	"	कृष्ण चन्द	01-03-81
92.	1157129 एक्स	"	कुलवन्त राय	01-04-81
93.	1157146 एक्स	"	कुन्दन लाल शर्मा	01-04-81
94.	1160218 एफ	"	कुम्कु कृष्णन ए	01-08-81
95.	1149606 बार्ड	"	लक्ष्मी चन्द	01-07-81
96.	1157895 एन	"	एम गंगाधरन नायर	01-08-81
97.	1147872 बार्ड	"	एम मुनिस्वामी	01-05-81
98.	1148024 एम	"	एम सुन्दरा राज	01-05-81
99.	1156889 एम	"	मदन लाल श्रीवा	01-03-81
100.	5436607 ए	"	मदन सिंह	01-12-81
101.	1152180 एम	"	मलकीत सिंह	01-12-81
102.	1156854 एक्स	"	मान चन्द	01-03-81
103.	1156936 ए	"	मंगत राम	01-03-81
104.	1150817 एम	"	मणि कुमारवर्जी	01-09-81
105.	1161850 एल	"	मनोहर सिंह	01-07-81
106.	1147726 बार्ड	"	मस्त राम	01-04-81
107.	1148949 एच	"	मोहन सिंह	01-06-81
108.	1157891 एक्स	"	मोहन सिंह	01-08-81
109.	1161432 डबल्यू	"	मोहिन्यर सिंह	01-06-81
110.	1147625 एल	"	मोती ठाकुर	01-04-81

111.	1149896 एफ	हवलदार	मुथु सामी	01-05-81
112.	1147518 के	"	मुथुवेल्ली रामन	01-04-81
113.	1147434 डब्ल्यू	"	एन ग्रहमुगम	01-04-81
114.	1149385 एक्स	"	एन एम बोपान्ना	01-07-81
115.	1148502 एल	"	नन्द जी	01-06-81
116.	1148187 ए	"	नारायण सिंह	01-05-81
117.	1157467 पी	"	नारायण सिंह	01-04-81
118.	1148235 पी	"	नरिन्दर कुमार	01-05-81
119.	1150367 एफ	"	प्रताप सिंह	01-08-81
120.	1147740 एल	"	पत राम	01-04-81
121.	1150424 एक्स	"	कुलमान प्रधान	01-08-81
122.	1157091 बाई	"	ज्वारा सिंह	01-04-81
123.	1151443 पी	"	प्रभाकरन नाथर	01-11-81
124.	1149971 ए	"	प्रेम सिंह	01-07-81
125.	1151019 एम	"	प्रीतम चन्द	01-07-81
126.	1151285 एल	"	रजग सिंह	01-10-81
127.	1147584 एम	"	रघबीर	01-04-81
128.	1150385 के	"	राम भरोसे लाल	01-08-81
129.	1146405 पी	"	राम चन्दर यादव	01-02-81
130.	1148006 के	"	राम लाल	01-05-81
131.	1150234 एल	"	राम पाल	01-08-81
132.	1147799 एल	"	रामेश्वर	01-05-81
133.	1151457 पी	"	रामेश्वर यादव	01-11-81
134.	1150844 एक्स	"	रतन लाल	01-09-81
135.	1147484 एफ	"	रोशन लाल	01-04-81
136.	1146775 पी	"	सरजीम सिंह	01-03-81
137.	1149688 एम	"	सरवन कुमार	01-07-81
138.	1150110 डब्ल्यू	"	सरवन राम	01-07-81
139.	1148938 डब्ल्यू	"	सरवन सिंह	01-06-81
140.	1152079 एन	"	शंकर सिंह	01-12-81
141.	1147421 बाई	"	शारदा राम	01-04-81
142.	1147729 एम	"	सिया राम	01-04-81
143.	1147738 एन	"	मुग्रीब राम	01-04-81
144.	1149420 पी	"	मुख राम	01-07-81
145.	1157930 एल	"	मुन्वर	01-08-81
146.	1147203 ए	"	सूरत सिंह	01-03-81
147.	1152453 एल	"	सुरेन्द्र सिंह उपाध्याय	01-08-81
148.	1165497 एफ	"	सुरेशा नन्द	01-12-81
149.	1150066 एक्स	"	तागा चन्द	01-07-81
150.	1157244 एक्स	"	थोमस ए ओ	01-04-81
151.	1150374 एक्स	"	दुहा राम	01-08-81
152.	1151016 बाई	"	बी ए नारायणम	01-07-81
153.	1151468 एफ	"	विजय सिंह	01-11-81
154.	1150573 एल	"	यशवन्त सिंह	01-08-81
155.	1160895 बाई	"	जुलफी राम	01-10-81

भद्रात ईजीनियर पुप

156.	1315218 बाई	हवलदार	ए बेवानन	01-11-81
157.	1314362 एफ	"	गोविन्दामामी	01-09-81
158.	1318428 के	"	के नरसिम्हा रेड्डी	01-10-81
159.	1315210 एम	"	के धर्मांराज	01-11-81
160.	1314646 एल	"	एम बालामुक्तामणियन	01-12-81
161.	1315482 एम	"	एम कोरुथु	01-01-82
162.	1314942 डब्ल्यू	"	मेहबूब शरीफ	01-09-81

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

163.	1424762 डब्ल्यू	हवलदार	बलकार सिंह	01-01-82
164.	1495578 पी	"	भगीरथ	01-10-81
165.	1423851 एच	"	बूर सिंह	01-09-81
166.	1400384 के	"	फतेह सिंह	01-01-82
167.	1421681 एल	"	हरेन्द्र सिंह	01-10-81
168.	1421688 पी	"	ईश्वरी दत्त	01-10-81
169.	1423979 एन	"	कुंवर सिंह	01-09-81
170.	1409965 एच	"	प्रेम लाल	01-11-81
171.	1495594 एम	"	रहमान	01-10-81
172.	1421671 एफ	"	सनेखा प्रभाव	01-10-81
173.	1400528 एफ	"	सीमान सिंह	01-10-81

बीम्बे इंजीनियर ग्रुप

174.	1563280 एम	हवलदार	बालकृष्ण शिंदे	01-01-82
175.	1563272 एन	"	बगडू शिंदे	01-12-81
176.	1512457 एम	"	गोपाल फडतरे	01-10-81
177.	1512590 एफ	"	ई के बरगिस	01-10-81
178.	1563163 एफ	"	जगदीश मिश्र	01-10-81
179.	1512589 ए	"	के प्रभाकरन	01-10-81
180.	1512237 एच	"	कुशिया सिंह परबाला	01-09-81
181.	1512496 एल	"	स्वर्ण सिंह	01-10-81
182.	1563133 के	"	शिवाजी साधुनके	01-01-82
183.	1562698 एच	"	तरसेम सिंह	01-11-81
184.	1514116 ए	"	तुकाराम साठे	01-10-81

कोर ग्रुप सिगनल

185.	6273308 एल	हवलदार	अर्जुन सिंह	01-12-81
186.	6272998 एन	"	बी सी कुम्हू कुन्नु	01-10-81
187.	6271976 एच	"	बलबीर सिंह	01-06-81
188.	6272661 एम	"	बुजलाम	01-09-81
189.	6272503 डब्ल्यू	"	बनार सिंह	01-10-81
190.	6272042 एक्स	"	देव दत्त	01-09-81
191.	6272750 के	"	गुटी चन्द्रा सेखर	01-09-81
192.	6273474 बाई	"	गोपीनाथन नायर के एन	01-01-82
193.	6279436 बाई	"	गोपी टी एन	01-11-81
194.	6273220 एफ	"	हरभजन सिंह	01-12-81
195.	6279439 एम	"	हीरा सिंह	01-11-81
196.	6279462 ए	"	ईन्द्रासन राय	01-11-81
197.	6272720 एन	"	जगदीश पाठक	01-09-81
198.	6272733 के	"	जमुना सहानी	01-09-81
199.	6273162 एच	"	जोन के एम	01-09-81
200.	6273376 बाई	"	* के माइकल	01-01-82
201.	6271894 ए	"	के रामचन्द्रन नायर	01-06-81
202.	6272401 ए	"	के एस चन्वन	01-08-81
203.	6275277 पी	"	कमला प्रसाद चौधे	01-12-81
204.	6272422 डब्ल्यू	"	करनेल सिंह	01-08-81
205.	6273050 एच	"	काशी राम पाटिल	01-11-81
206.	6276478 ए	"	कौर सिंह लखनपुरिया	01-10-81
207.	6279325 एफ	"	अजान सिंह	01-10-81
208.	6276799 एक्स	"	किजुक्के कारा नायर वीडु सुकुमारन	01-12-81
209.	6268642 एच	"	एम कृष्णा स्वामी	01-12-81
210.	6273406 एल	"	एम एम मथाई	01-01-82
211.	6272956 एफ	"	मदन प्रसाद सिंह	01-10-81
212.	6273591 के	"	माधवन नायर के	01-12-81

213.	6279538 पी	हवलदार	मधुकर नायक	01-11-81
214.	6273061 पी	"	मल्लपा सक्केश्वरी	01-11-81
215.	6275275 के	"	नैन सिंह	01-09-81
216.	6272757 एन	"	नरेन्द्र सिंह	01-09-81
217.	6279587 एक्स	"	नील कान्तन गोपी	01-11-81
218.	6273477 एम	"	नेसाय्यन एम	01-01-82
219.	6273327 डब्ल्यू	"	पी अमल राज	01-12-81
220.	6273047 एच	"	पी अन्जानियुलू	01-06-81
221.	6273404 ए	"	पी शनमुगम	01-01-82
222.	6279330 एम	"	पी पी गोपाला कृष्णन नायर	01-10-81
223.	6272726 एन	"	परमेश्वर झा	01-09-81
224.	6272959 पी	"	प्रभ बघाल	01-10-81
225.	6272874 बार्ड	"	प्रीतम सिंह	01-10-81
226.	6272129 बार्ड	"	रघुनाथ प्रसाद	01-07-81
227.	1513113 ए	"	राम दास कदम	01-12-81
228.	6272816 पी	"	रामेश्वर दयाल यादव	01-09-81
229.	6273331 बार्ड	"	राम जनम सिंह	01-01-82
230.	6272525 पी	"	राम कुमार प्रसाद	01-08-81
231.	6272921 एल	"	एस बैलैया	01-10-81
232.	6273303 एम	"	सेमुग्रल जी	01-12-81
233.	6276640 एम	"	सन्मान गुप्ता	01-11-81
234.	6273235 के	"	संतोष सिंह	01-12-81
235.	6272981 ए	"	शशि भूषण पटनायक	01-10-81
236.	6277169 के	"	शनमुखी विष्णु भूर्ती राजू	01-01-82
237.	6272991 के	"	शेर सिंह	01-10-81
238.	6275220 ए	"	सुब्बा राव अविमुलम	01-11-81
239.	6273107 एम	"	सुनील कुमार तन्वी	01-11-81
240.	6277255 पी	"	तिरुमल सेट्टी यकुन्दालू	01-01-82
241.	6273324 एच	"	बरगीस के सी	01-12-81
242.	6272616 बार्ड	"	बासुदेवन नायर	01-09-81
243.	6272951 एच	"	बेद प्रकाश	01-10-81
244.	6273284 एम	"	विजय भास्कर राव चेल्ली	01-12-81
245.	6272314 एम	"	वीरेन्द्र सिंह	01-12-81
246.	6273039 के	"	विष्णु स्वरूप बाजपेई	01-11-81

ब्रिगेड माफ बी गार्डस

247.	13651972 एन	हवलदार	बाबू लाल धोबी	01-10-81
248.	7994842 बार्ड	"	जार्ज पी सी	01-01-82
249.	13653215 एक्स	"	हनुमान सिंह	01-09-81
250.	3951391 एक्स	"	जयसी राम	01-01-82
251.	13653191 बार्ड	"	एम शनमुगम	01-09-81
252.	13653360 पी	"	मल्ला मदन	01-01-82
253.	13653522 पी	"	राम त्रिक्शा पाण्डे	01-09-81
254.	13653292 एम	"	साधू सिंह	01-11-81
255.	13651475 के	"	तारा चन्व	01-05-81

बी पैराशूट रेजीमेंट

256.	13600105 एफ	हवलदार	अनंत कुमार दास	01-01-82
257.	2947293 के	"	भोला राम	01-01-82
258.	4144021 के	"	विजय सिंह	01-09-81
259.	4144040 पी	"	गोपाल सिंह	01-09-81
260.	4145546 ए	"	हर सिंह	01-01-82
261.	4143992 एच	"	हयान सिंह	01-09-81
262.	3950055 बार्ड	"	ईश्वर दास	01-12-81
263.	2947194 एफ	"	जगमल राम	01-12-81

264.	4037215 पी	हवलदार	कन्हैया लाल	01-01-82
265.	2547272 ए	"	एम चिन्मया	01-12-82
266.	2547026 पी	"	एस गणपथी	01-11-81
267.	2546762 एफ	"	एस पलानीबेल	01-10-81

बी बंजाब रेजीमेंट

268.	2442866 डब्ल्यू	हवलदार	जारा सिंह गेरेवाल	01-09-81
269.	2443006 पी	"	देवी दास	01-12-81
270.	2441767 एफ	"	धर्मचन्द	01-09-81
271.	2441739 पी	"	गुरचरण सिंह	01-09-81
272.	2442995 डब्ल्यू	"	हरभजन सिंह	01-12-81
273.	2441942 एल	"	करनैल सिंह	01-11-81
274.	2441979 एम	"	कुशाल सिंह बबानिष	01-11-81
275.	2441742 पी	"	प्रभु दयाल	01-09-81
276.	2442935 एफ	"	पूरन सिंह	01-11-81
277.	2441926 एल	"	सरदार सिंह	01-10-81

बी मद्रास रेजीमेंट

278.	2546960 एम	हवलदार	भवभुगम	01-11-81
279.	2546485 एफ	"	बहीरेड्डी अम्पन्ना वीरार्ई	01-09-81
280.	2547014 ए	"	बालाकृष्णम नायर के	01-11-81
281.	2548542 डब्ल्यू	"	सी एच माधवन	01-11-81
282.	2547188 ए	"	चन्नन	01-12-81
283.	2546667 पी	"	डी सवारिमूथु	01-10-81
284.	2546952 एन	"	के कुराईस्वामी	01-11-81
285.	2546948 एल	"	के मुयुसामी	01-11-81
286.	2546735 एक्स	"	के राघवा मरार	01-10-81
287.	2547216 एफ	"	एम केशवन	01-12-81
288.	2547287 एच	"	एम कृष्णन	01-01-82
289.	2548584 एम	"	एम नारायणास्वामी	01-12-81
290.	2547335 एक्स	"	मणि	01-01-82
291.	2548564 पी	"	पी प्रभुतन	01-12-81
292.	2546763 के	"	प्रार अन्वापेरुमल	01-10-81
293.	2546698 पी	"	प्रार रामास्वामी	01-09-81
294.	2546787 एम	"	शिर्वालिगम	01-10-81
295.	2547288 डब्ल्यू	"	सुधाकरन	01-12-81
296.	2546898 एल	"	सुन्दर दास पी	01-11-81
297.	2548495 के	"	टी जी वर्गीस	01-11-81
298.	2548599 एल	"	टी वी कृष्णया	01-12-81

बी त्रिनेत्रियस

299.	2642156 एच	हवलदार	हर लाल	01-11-81
300.	2642336 एल	"	मेधा राम	01-12-81
301.	2643310 एच	"	रघबीर सिंह	01-01-82

बी बरठा लार्ड इन्फेन्ट्री

302.	4145261 एम	हवलदार	मोहिंदा आसबे	01-09-81
303.	2745304 एच	"	अमंत भारमल	01-11-81
304.	2745630 एल	"	बालकू बेडेकर	01-12-81
305.	2745465 एल	"	बलवंत पाटिल	01-11-81
306.	2743756 एम	"	चोडू उमासरे	01-11-81
307.	2743300 एन	"	गुलाबा फंड	01-10-81
308.	2742827 डब्ल्यू	"	ओतिबा सावत	01-09-81
309.	2743482 एम	"	कृष्णा एकनाथ गुरज, बी आर सी	01-10-81
310.	2745475 पी	"	महाबलेश्वर कोटारकर	01-11-81
311.	4145365 आई	"	नाना जगदाळे	01-10-81

312.	4143779 एच	हवलदार	नारायण देवले	01-11-81
313.	4145398 ए	"	निवहली उंदुरे	01-10-81
314.	2744359 ए	"	निवलि इंगवाये	01-01-82
315.	4144141 एच	"	रामचन्द्र नलवडे	01-12-81
316.	2745027 एच	"	रामचन्द्र नलवडे	01-09-81
317.	2743681 ए	"	शंकर पवार	01-11-81
318.	2743272 एम	"	मुक्कवेव	01-10-81
319.	2743823 एम	"	तुकाराम भट	01-11-81
320.	2744337 एफ	"	तुकाराम भोरपडे	01-01-82
321.	2744943 एक्स	"	तुकाराम निकम	01-09-81
322.	2745208 एन	"	यशवंत साबले	01-10-81
बी राजपूताना राइफल				
323.	2845988 बाई	हवलदार	जानी राम	01-10-81
324.	2847323 एफ	"	हरीस चव्हा	01-12-81
325.	2845829 एफ	"	होशियार सिंह	01-09-81
326.	2846239 पी	"	जग राम	01-01-82
327.	2846264 एन	"	जनक सिंह	01-01-82
328.	2846284 एफ	"	जंगार सिंह	01-01-82
329.	2843244 पी	"	नसीर खां	01-01-82
330.	2845824 एच	"	राम सक्प सिंह	01-09-81
331.	2846170 डबल्यू	"	तखत सिंह	01-01-82
332.	2845817 एम	"	डेक चन्दा	01-09-81
बी राजपूत रेजीमेंट				
333.	2947275 एफ	हवलदार	मनो लाल	01-01-82
334.	2947308 एफ	"	बलबीर सिंह	01-01-82
335.	2946853 बाई	"	बहादुर सिंह	01-09-81
336.	2947037 पी	"	विष्णु प्रताप सिंह	01-11-81
337.	2947094 डबल्यू	"	वगारथ सिंह	01-11-81
338.	2946863 एच	"	विन्टी सिंह	01-09-81
339.	2946705 एन	"	धर्म राज सिंह	01-09-81
340.	2948164 डबल्यू	"	जगदीश राय	01-11-81
341.	2946222 डबल्यू	"	खिचू सिंह	01-07-81
342.	2947161 डबल्यू	"	कुण्ड लाल	01-12-81
343.	2946817 एन	"	लखमो चन्दा	01-09-81
344.	2946808 एम	"	रेवंत सिंह	01-09-81
345.	2946781 ए	"	रिसाल सिंह	01-09-81
346.	2946784 एन	"	साहूध बंश सिंह	01-09-81
347.	2945871 पी	"	श्यामबीर सिंह मदान	01-02-81
बी जट रेजीमेंट				
348.	3143050 एफ	हवलदार	दीपवर सिंह	01-01-82
349.	3142241 बाई	"	किशन लाल	01-12-81
350.	3142181 पी	"	फूल चन्दा	01-10-81
351.	3142340 एफ	"	रिसाल सिंह	01-12-81
352.	3142984 एफ	"	सुरजा राम	01-10-81
बी सिख रेजीमेंट				
353.	3346420 ए	हवलदार	भगतार सिंह	01-01-81
354.	3346272 ए	"	बलबीर सिंह	01-09-81
355.	3346281 एफ	"	बलदेव सिंह	01-09-81
356.	3348189 एफ	"	बलजिन्ध सिंह	01-01-82
357.	3346449 एच	"	बन्ता राम	01-11-81
358.	3346405 एन	"	बेगा राम	01-10-81
359.	3346438 डबल्यू	"	बिरम सिंह	01-11-81

360.	3346573 क	हवलदार	बिबान सिंह	01-01-82
361.	3346585 बार्ड	"	बिबान सिंह	01-01-82
362.	3348134 एक्स	"	गुरचरन सिंह	01-12-81
363.	3346471 एन	"	जगीर सिंह	01-12-81
364.	3346423 एन	"	जोगिन्द्र सिंह	01-11-81
365.	3348061 डबल्यू	"	केहर सिंह	01-09-81
366.	3346529 ए	"	मूलखा सिंह	01-01-82
367.	3346316 एन	"	प्रताप सिंह	01-09-81
368.	3346535 एन	"	प्यारा सिंह	01-07-81
369.	3346458 के	"	प्रेम सिंह	01-12-81
370.	3346566 एन	"	पूरन सिंह	01-01-82
371.	3346359 एफ	"	रमुन	01-10-81
372.	4437494 बार्ड	"	रनबीर	01-11-81
373.	3348146 एम	"	शारा सिंह	01-12-81
374.	3346542 के	"	तेजा सिंह	01-01-82

बी सिख बार्ड इफेरी

375.	4437612 एफ	हवलदार	गयासी राम	01-01-82
376.	4437511 एन	"	गुरदयाल सिंह	01-11-81
377.	4437602 एक्स	"	केसर	01-01-82
378.	4437635 एच	"	सछमन सिंह	01-01-82
379.	4437537 एच	"	नसीब सिंह	01-12-81
380.	4437632 पी	"	परसन सिंह	01-01-82
381.	4437656 बार्ड	"	गुलसा सिंह	01-01-82

बी डोगरा रेजीमेंट

382.	3949853 ए	हवलदार	बलबीर राज	01-10-81
383.	3950070 एन	"	धर्म चन्द	01-12-81
384.	3949768 एक्स	"	गुर माल	01-09-81
385.	3949670 के	"	केदार नाथ	01-08-81
386.	3949875 बार्ड	"	कृष्ण लाल	01-10-81
387.	3950116 एल	"	लुबर सिंह	01-12-81
388.	3949738 ए	"	मूल सिंह राजपूत	01-09-81
389.	3951269 एफ	"	मुंशी राम	01-01-81
390.	3949973 बार्ड	"	श्रीम प्रकाश	01-11-81
391.	3949799 एक्स	"	पूरन चन्द	01-09-81
392.	3949720 के	"	बकीर राम	01-09-81

बी गढ़वाल राइफल्स

393.	4036920 एफ	हवलदार	बन्नी प्रसाद कथोला	01-04-81
394.	4037306 बार्ड	"	बीबान सिंह रामा	01-01-82
395.	4037179 पी	"	धर्म सिंह	01-12-81
396.	4037885 डबल्यू	"	गोबिन्द राम	01-01-82
397.	4037095 एफ	"	जैन्	01-10-81
398.	4037231 एम	"	कमाल सिंह चौहान	01-01-82
399.	4037101 के	"	राम चन्द्र सिंह	01-12-81
400.	4037087 एच	"	राम सकुप	01-09-81

बी कुमाऊँ रेजीमेंट

401.	4143990 एक्स	हवलदार	बहादुर सिंह	01-09-81
402.	4144369 बार्ड	"	बिजय सिंह	01-01-82
403.	4144287 डबल्यू	"	बिशन सिंह	01-12-81
404.	4144096 एफ	"	बलीप सिंह	01-10-81
405.	4144309 पी	"	बन सिंह	01-12-81
406.	4144007 एक्स	"	गुसाई सिंह	01-09-81
407.	4223030 एम	"	जमन राम	01-10-81

408.	4144270 एच	हवलदार	अमन सिंह	01-12-81
409.	4145579 एच	"	नैन चन्द	01-01-82
410.	4144194 एफ	"	प्रभु नाथ सिंह	01-11-81
411.	4144383 एल	"	प्रयाग सिंह	01-01-82
412.	4144393 पी	"	राम सिंह राबत	01-01-82
413.	4144190 एल	"	शेर सिंह	01-11-81
बी आसाम रेजीमेंट				
414.	4335916 एल	हवलदार	शिव जन्म	01-12-81
बी जम्मू और कश्मीर राइफल				
415.	13718783 बार्ड	हवलदार	अशोक बहादुर मुत्तार	01-12-81
416.	13718810 एक्स	"	बलदेव चन्द	01-01-82
417.	13717134 एफ	"	बलदेव सिंह	01-09-81
418.	13717254 ए	"	बुद्धि चन्द	01-11-81
419.	13717125 ए	"	अमेल सिंह	01-09-81
420.	13717253 एक्स	"	जयन्ता राम	01-11-81
421.	13719032 के	"	मंगू राम	01-09-81
422.	13717333 पी	"	श्रीम बहादुर	01-01-82
423.	13717103 एफ	"	रघवीर सिंह	01-09-81
424.	13718767 एफ	"	राज कुमार ठाकुरी	01-12-81
425.	13714623 एफ	"	सोभा सिंह	01-10-81
बी लडाख स्काउट्स				
426.	9071376 बार्ड	हवलदार	स्कलजंग रिसेन	01-12-81
बी जम्मू व कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री				
427.	9070676 एन	हवलदार	चमपत सिंह	01-09-81
428.	9070833 पी	"	दिलावर लौने	01-01-82
429.	9093647 एन	"	गुलाम हुसन शाह	01-10-81
430.	9093635 डब्ल्यू	"	जान चन्द	01-09-81
431.	9070673 ए	"	हबीब मीर	01-09-81
432.	9070652 के	"	अरजेल सिंह	01-09-81
433.	9070752 पी	"	कुशल सिंह	01-11-81
434.	9070709 एन	"	शंकर दत्त	01-10-81
बी सीकानाईज्ड इन्फैन्ट्री रेजीमेंट				
435.	3950179 एम	हवलदार	धर सिंह	01-01-82
436.	5033234 बार्ड	"	भीम बहादुर प्रसाद	01-12-81
437.	2846223 के	"	चन्दर सिंह	01-01-82
438.	3949809 डब्ल्यू	"	अ्यान सिंह	01-10-81
439.	2946782 एच	"	धीसा राम	01-09-81
440.	2845927 एफ	"	हुकम सिंह	01-10-81
441.	2845873 एल	"	इन्द्र सिंह	01-09-81
442.	3142116 पी	"	करन सिंह	01-10-81
443.	2642125 एच	"	किशन सिंह	01-10-81
444.	4037077 बार्ड	"	लछमन सिंह	01-09-81
445.	2846046 पी	"	पद्म सिंह	01-11-81
446.	2846202 एम	"	रतन सिंह	01-01-82
447.	2846292 ए	"	सोहन सिंह	01-01-82
1 गोरखा राइफल				
448.	5032860 डब्ल्यू	हवलदार	बेल बहादुर गुर्खग	01-11-81
449.	5032857 डब्ल्यू	"	बिजान बहादुर गुर्खग	01-11-81
450.	5032920 ए	"	अन बहादुर गुर्खग	01-12-81
451.	5032917 ए	"	इन्द्रा बहादुर बापा	01-12-81

452.	5032982 ए	हवलदार	शेर बहादुर गुर्ला	01-01-82
453.	5033353 पी	"	ताम बहादुर गुर्ला	01-01-82
3 गोरखा राष्ट्रफलत				
454.	5235159 एन	हवलदार	धन बहादुर थापा	01-12-81
455.	5235191 एम	"	कुस बहादुर थापा	01-12-81
456.	5235199 के	"	साल बहादुर थापा	01-01-82
457.	5235184 पी	"	साई राम पुन	01-12-81
4 गोरखा राष्ट्रफलत				
458.	5334826 एन	हवलदार	धीम बहादुर गुर्ला	01-01-82
459.	5334751 एक	"	अम्ना बहादुर गुर्ला	01-12-81
460.	5334708 ए	"	भोक बहादुर थापा	01-12-81
461.	5334818 के	"	देव बहादुर गुर्ला	01-12-81
462.	5334923 एल	"	धन बहादुर गुर्ला	01-01-82
463.	5334909 बाई	"	धन लाल बिशवाकर्मी	01-01-82
464.	5334885 ए	"	धन परसाद गुर्ला	01-01-82
465.	5334801 एक	"	एम बहादुर थापा	01-12-81
466.	5334894 एक	"	गोबिन बहादुर थापा	01-01-82
467.	5334844 डब्ल्यू	"	गोपी बहादुर गुर्ला	01-01-82
468.	5334804 पी	"	गुमान सिंह सारकी	01-12-81
469.	5334726 एन	"	खेम करना थापा	01-12-81
470.	5334942 डब्ल्यू	"	कुस बहादुर गुर्ला	01-01-82
471.	5334831 बाई	"	लाल बहादुर गुर्ला	01-01-82
472.	5334725 ए	"	मन बहादुर गुर्ला	01-12-81
473.	5334798 एम	"	राम बहादुर थापा	01-12-81
474.	5334698 एक	"	राम प्रसाद बुरा	01-12-81
475.	5334759 एन	"	शेर बहादुर गुर्ला	01-12-81
476.	5334717 एक	"	टेक बहादुर थापा	01-12-81
477.	5334666 बाई	"	ऊमर सिंह गुर्ला	01-11-81
5 गोरखा राष्ट्रफलत				
478.	5437677 एल	हवलदार	अम्ना बहादुर पुन	01-12-81
479.	5437692 ए	"	धन बहादुर थापा	01-12-81
480.	5437683 बाई	"	एक बहादुर गुर्ला	01-12-81
481.	5437637 के	"	मन बहादुर रामा	01-11-81
482.	5437574 एल	"	नर बहादुर थापा	01-11-81
8 गोरखा राष्ट्रफलत				
483.	5738561 ए	हवलदार	बीरमान गुर्ला	01-12-81
484.	5738511 पी	"	बिल बहादुर रामा	01-12-81
485.	5738471 बाई	"	बिल परसाद गुर्ला	01-11-81
486.	5738578 एन	"	जसवीर थापा	01-10-82
487.	5737418 एक	"	नर बहादुर विक्रमा	01-01-82
488.	5737378 एल	"	प्रेम बहादुर धाले	01-01-82
489.	5737340 एक	"	ताम बहादुर गुर्ला	01-01-82
490.	5738562 एन	"	उदे बहादुर गुर्ला	01-12-81
9 गोरखा राष्ट्रफलत				
491.	5835015 एम	हवलदार	देव बहादुर खत्री	01-11-81
492.	5834508 एम	"	जुम्मादिन	01-11-81
493.	5835017 एन	"	नर बहादुर छेत्री	01-11-81
11 गोरखा राष्ट्रफलत				
494.	9404680 के	हवलदार	धवलार बहादुर लिम्बू	01-11-81
495.	9404678 एन	"	वीर बहादुर तमंग, ए सएम	01-10-81

486.	5033180 एच	हवलदार	इम्बर बहादुर लिम्बू	01-11-81
497.	9404753 एल	"	हरी बहादुर राय	01-01-82
498.	9404694 के	"	जीत बहादुर राय	01-12-81
499.	9404691 इन्स्यू	"	कमल कुमार राय	01-12-81
500.	9404785 एन	"	राम लाल छेत्री	01-01-82
501.	9404736 एल	"	टेक बहादुर राय	01-01-82
घासी सॉबित कोर (सप्लाय)				
502.	6349692 एम	हवलदार	नवीन प्रसाद सिंह	01-10-81
503.	6350732 इन्स्यू	"	पी बेल्लायन	01-01-82
504.	6350850 के	"	राम पति शर्मा	01-01-82
505.	6350714 एन	"	राजा राम साह	01-01-82
506.	6350852 पी	"	बी के गोपाला कृष्ण नायर	01-01-82
घासी सॉबित कोर (एभिलस डू सपोर्ट)				
507.	6444530 एन	बकादार	बम्बर सिंह	01-11-82
घासी सॉबित कोर (सेक्शनल ड्रासपोर्ट)				
508.	6595742 वार्ड	हवलदार	अमर खान	01-11-81
509.	6600238 एन	"	अमर जीत सिंह	01-01-82
510.	6597123 एफ	"	अमीर खान	01-01-82
511.	6600143 एल	"	बाले राम	01-12-81
512.	6596952 एच	"	बेबा मन्थ सिंह	01-11-81
513.	6595961 एक्स	"	बिजय बहादुर सिंह	01-12-81
514.	6596920 ए	"	बिजय मन्थन झा	01-11-81
515.	6350078 एल	"	बुधू राम राय	01-01-82
516.	6596758 एम	"	चिरजी लाल गुजर	01-10-81
517.	6350079 एन	"	चिवाकर घोसा	01-01-82
518.	6350164 पी	"	दाहू भाने	01-01-82
519.	6595751 एक्स	"	दुध नाथ	01-11-81
520.	6597042 एफ	"	गबर सिंह नेगी	01-12-81
521.	6600082 इन्स्यू	"	गुम्बर सिंह	01-11-81
522.	6597022 एम	"	गरमर सिंह	01-12-81
523.	6595985 ए फ	"	गुरदयाल सिंह	01-12-81
524.	6596755 ए	"	गुरदयाल सिंह	01-09-81
525.	6350129 एन	"	हर सिंह	01-01-82
526.	6595986 के	"	हरी राम	01-12-81
527.	6597146 एच	"	हरी राम शर्मा	01-01-82
528.	6597026 के	"	होशियार सिंह	01-12-81
529.	6598499 पी	"	होशियार सिंह	01-01-82
530.	6598478 वार्ड	"	जय नारायण	01-01-82
531.	6350015 एच	"	जलेश्वर राम	01-12-81
532.	6598291 एफ	"	जरीकाऊदीन खान	01-01-82
533.	6595569 एक्स	"	जोगा सिंह	01-09-81
534.	6597052 ए ल	"	जुग राज	01-12-81
535.	6598178 एक्स	"	के बी नानू नाम्नीयार	01-09-81
536.	6596959 एम	"	कैलाश नाथ मिश्रा	01-11-81
537.	6597079 एच	"	कौशलेन्द्र नारायण मिश्रा	01-12-81
538.	6600108 ए	"	खजान सिंह	01-11-81
539.	6349972 ए फ	"	कृष्ण लाल	01-12-81
540.	6598279 एल	"	कृष्ण मुरारी घोष	01-01-82
541.	6595993 वार्ड	"	सच्छी राम	01-12-81
542.	6350085 एफ	"	लास बाहादुर प्रसाद	01-01-82
543.	6598129 पी	"	लाल मनी सिंह	01-12-81
544.	6597107 के	"	माधो सिंह	01-01-82
545.	6600011 पी	"	महेन्द्र सिंह धार्य	01-09-81

546.	6597008 एफ	हृषिकेश्वर	मंगभा राम	01-12-81
547.	6595537 पी	"	मनो वल्लभ	01-09-81
548.	6595878 ए	"	मधु राज	01-11-81
549.	6595611 एल	"	मोहम्मद तोहिर खान	01-10-81
550.	6598246 ए	"	ममोरंजन नन्दी	01-12-81
551.	6598348 एन	"	नामदेव माने	01-01-82
552.	6598429 डब्ल्यू	"	नाता पवार	01-01-82
553.	6595918 डब्ल्यू	"	नम्बन सिंह रीतेला	01-11-81
554.	6597010 वाई	"	नारायण दत्त	01-12-81
555.	6596782 के	"	नारायण सिंह	01-10-81
556.	6598479 एफ	"	निबर्ती माली	01-01-82
557.	6598080 के	"	पी बी साधन	01-12-81
558.	6595566 के	"	पत राम सिंह	01-09-81
559.	6598115 डब्ल्यू	"	प्रसाद भोंसले	01-01-82
560.	6598436 एम	"	प्रसाद नेलापुडी	01-01-82
561.	6595833 पी	"	प्रेम सिंह	01-11-81
562.	6596932 पी	"	प्रबोध चन्द्रा राय	01-11-81
563.	6598110 डब्ल्यू	"	पुरन सिंह	01-12-81
564.	1315434 एम	"	पुष्पेश्वरन श्रीबोडी ए पी	01-01-82
565.	6598476 एन	"	रामाचन्द्रन	01-01-82
566.	6595501 डब्ल्यू	"	राम बयाल	01-09-81
567.	6350179 वाई	"	राम सकल सिंह	01-01-82
568.	6595891 के	"	राम सिंह	01-11-81
569.	6597163 एच	"	रामजी राय	01-01-82
570.	6598294 एम	"	रोशन लाल	01-01-82
571.	6595659 एम	"	रूप किशोर बुये	01-10-81
572.	6597128 ए	"	रूप लाल	01-01-82
573.	6349973 के	"	समृद्ध सिंह	01-12-81
574.	6598347 एन	"	शरमप्पा	01-01-82
575.	6597182 एन	"	श्री राम	01-01-82
576.	6598202 एच	"	श्याम विहारी सिंह	01-12-81
577.	6596801 के	"	श्याम सिंह	01-10-81
578.	6598114 एम	"	श्री राम मुर्षी नेमीकपातनी	01-12-81
579.	6550116 डब्ल्यू	"	सबाशिव शिन्डे	01-01-82
580.	6597047 ए	"	सुलतान सिंह	01-12-81
581.	6595565 एक्स	"	सुरज भान	01-09-81
582.	6595943 एन	"	सुरज भान	01-12-81
583.	6598000 एफ	"	सुरेश चन्द्र	01-09-81
584.	6595851 एल	"	सुरेश चन्द्र निवारी	01-11-81
585.	6350042 एम	"	सूर्य भान बाधन	01-01-82
586.	6598453 एम	"	टी पी शिवारामन नायर	01-01-82
587.	6596989 के	"	थोमस के घाई	01-11-81
588.	6598068 एच	"	तुमसी वास	01-12-81
589.	6596938 डब्ल्यू	"	वी मंगापथी नायडू	01-11-81
590.	6596717 के	"	वेंकटा कृष्णन राव कट्टागुडा	01-09-81
591.	6597038 वाई	"	बृन्दाबन लाल	01-12-81
592.	6598488 एच	"	एकजीवियर एम बी	01-01-82

प्रार्थी मेडिकल कोर

593.	6785177 ए	हृषिकेश्वर	एकवर्त करम	01-04-81
594.	6785528 के	"	एन्थोनी दास	01-07-81
595.	6790802 ए	"	बंशी धर मिश्रा	01-05-81
596.	6796875 एच	"	भागीरथ	01-08-81
597.	6790955 के	"	वीरेंद्र किशोर पात्र	01-06-81

598.	6791049 बार्ड	हवलदार	गदाधर नावक	01-07-81
599.	6785201 एल	"	गवाबु देसाई	01-04-81
600.	6790980 एम	"	गिरीश भन्ना	01-07-81
601.	6791110 एक्स	"	गोबिन्द सिंह	01-08-81
602.	6790937 बार्ड	"	गुलाम	01-08-81
603.	6790719 एच	"	हृषीकेश बेहरा	01-04-81
604.	6797436 के	"	हनुमान प्रसाद	01-07-81
605.	6791008 पी	"	जगदीश परजाव	01-07-81
606.	6791562 ए	"	जतीन्द्र चन्द्र धर	01-03-81
607.	6790720 पी	"	जया बेहरा	01-04-81
608.	6791139 ए	"	केशवा नन्द	01-08-81
609.	6790842 एफ	"	कृष्णन चन्द	01-05-81
610.	6790709 बार्ड	"	माम राज	01-04-81
611.	6790892 एम	"	मोती लाल शर्मा	01-05-81
612.	6785181 एच	"	नामा गोसावी	01-04-81
613.	6785560 बार्ड	"	नरकेशिपय निरुके	01-07-81
614.	6790710 एन	"	परमोत्तम बल	01-04-81
615.	6791190 बार्ड	"	पतंग राव पोख	01-08-81
616.	6785433 एन	"	प्रफुल्ल चन्द्र पती	01-06-81
617.	6785344 एल	"	प्रफुल्ल कुमार भट्टाचारजी	01-05-81
618.	6785320 एफ	"	राधा कलम मोरे	01-05-81
619.	6798811 डबल्यू	"	राजा राम पाटिल	01-07-81
620.	6785547 एन	"	राजनायक सिंह	01-07-81
621.	6791006 के	"	राम गोपाध	01-07-81
622.	6785324 एक्स	"	राम लखन विहारी	01-05-81
623.	6790813 एम	"	रोशन	01-05-81
624.	6785550 पी	"	संजीवी	01-07-81
625.	6791171 पी	"	शिवपाल सिंह	01-08-81
626.	6791068 के	"	शमा शेर	01-07-81
627.	6785299 के	"	श्री चम्प	01-05-81
628.	6796550 पी	"	सोहन लाल	01-10-81
629.	6790921 डबल्यू	"	सुकदेव दास	01-08-81
630.	6791140 पी	"	सुनील कुमार सरकार	01-08-81
631.	6797538 ए	"	धन्नाथन पी	01-08-71
632.	6791138 एक्स	"	विजय सिंह बिष्ट	01-08-81

श्री श्री धर्मिष्ठ कोर

633.	6349723 एच	हवलदार	ए. वस्तीर	01-11-81
634.	6870024 एन	"	बाबू राम देसाई	01-10-81
635.	6868806 एल	"	बलबीर प्रसाद	01-09-81
636.	6868969 बार्ड	"	मोला नाथ छेकी	01-11-81
637.	6349757 डबल्यू	"	विद्यानन्द सिंह	01-11-81
638.	6870051 एक्स	"	बृज बसी प्रसाद	01-10-81
639.	6868758 डबल्यू	"	जी रथीना स्वामी	01-09-81
640.	6349693 डबल्यू	"	जगन नाथ प्रसाद	01-10-81
641.	6869437 एल	"	जुग लाल	01-10-81
642.	6349139 एल	"	काद साहू	01-03-81
643.	6868839 डबल्यू	"	कृष्ण लाल	01-08-81
644.	6868757 एन	"	लछमी धर	01-08-81
645.	6349675 एन	"	लक्ष्मण चरन मरहठी	01-10-81
646.	6869862 डबल्यू	"	एम पी विश्वा केशवन	01-08-81
647.	6349741 एल	"	महेश प्रसाद	01-11-81
648.	6869124 एम	"	माकती माने	01-01-82
649.	6868916 ए	"	माधवस	01-10-81

650.	6868912 के	हवलदार	मायू राम	01-10-81
651.	6349690 एन	"	मोती लाल सिंह	01-10-81
652.	6870331 एन	"	मोहन सिंह	01-01-82
653.	6869497 ए	"	नानक चन्द	01-01-82
654.	6870107 बाई	"	धोम प्रकाश	01-12-81
655.	6349835 एन	"	परमाती लाल	01-11-81
656.	6872241 एन	"	प्रहलाद पाटिल	01-01-82
657.	6869980 के	"	राम चन्द	01-09-81
658.	6868958 एम	"	राम छबीला सिंह	01-11-81
659.	6871631 एन	"	राम जलन वर्मा	01-10-81
660.	6871759 के	"	राम कृष्ण	01-11-81
661.	6868521 बाई	"	राम शंकर शुक्ला	01-06-81
662.	6869951 पी	"	सदाशिव साणे	01-09-81
663.	6868827 पी	"	निरजुगी भारावन त्रिपाठी	01-10-81

फोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इजीनियरस

664.	7037378 एन	हवलदार	प्रभुल काविर	01-01-82
665.	7036072 डबल्यू	"	प्रभुलाल बैलगाधी	01-10-81
666.	7036268 के	"	प्रमोद मोहनचन्दर सिंह	01-11-81
667.	7035156 एम	"	प्रमोदगम	01-12-81
668.	7034560 ए	"	प्रशोक कुमार	01-09-81
669.	7043091 के	"	प्रताप्सेरी कलाम रामन कुट्टी	01-11-81
670.	7035868 ए	"	बाजीराव भोरगे	01-10-81
671.	7036209 एम	"	बबली राम	01-11-81
672.	7040957 एन	"	बबली राम	01-01-82
673.	7040656 बाई	"	बाला प्रसाद खोबसन	01-10-81
674.	7036671 डबल्यू	"	बालन भम्बियार पी	01-12-81
675.	7030915 एन	"	बालेश्वर सिंह	01-01-82
676.	7036001 पी	"	बली राम भिखा	01-10-81
677.	7038244 बाई	"	बल्ली राम प्रह्लरवार	01-09-81
678.	7036610 बाई	"	बलचन्द सिंह	01-12-81
679.	7036260 एम	"	बनारस सिंह	01-11-81
680.	6788678 एन	"	बरेल्ल कुमार सैमगुप्ता	01-11-81
681.	7036352 के	"	भगत सिंह	01-11-81
682.	7037490 एक्स	"	भागी राम	01-01-82
683.	7037272 बाई	"	भगवान किशोर शुक्ला	01-12-81
684.	7035692 ए	"	भगवती लाल	01-09-81
685.	7039740 एम	"	भगवती प्रसाद	01-10-81
686.	7036374 बाई	"	भाऊसाहेब धोले	01-12-81
687.	7037521 एम	"	भिकारी मल	01-01-82
688.	7038599 के	"	भिठ्या नन्द शर्मा	01-10-81
689.	7037412 ए	"	बिजना	01-01-82
690.	7036504 ए	"	बिश्वा मिश्र	01-12-81
691.	7042608 एक्स	"	बिश्वनाथ चक्रवर्ती	01-10-81
692.	7037317 एन	"	छोटे लाल	01-01-82
693.	7036689 एम	"	चिता मणि	01-12-81
694.	7042917 ए	"	छुन्नी प्रहलाद	01-10-81
695.	7036142 के	"	हरबान सिंह	01-10-81
696.	7040612 एफ	"	दत्ता राम	01-09-81
697.	7036630 एम	"	दवा मणि जी	01-12-81
698.	7040688 एफ	"	धन बहादुर थापा	01-10-81
699.	7035959 पी	"	दिनेश चन्द्रा चक्रवर्ती	01-10-81
700.	7035913 एफ	"	विमान सिंह	01-10-81
701.	7040607 डबल्यू	"	द्वारका प्रसाद	01-09-81
702.	7036277 एन	"	जी रामास्वामी	01-11-81

703.	7036180 ए	हवलदार	गजानन महादेव नायक	01-10-81
704.	7035988 बार्ड	"	ज्ञान सिंह	01-10-81
705.	7030735 ए	"	ज्ञान सिंह	01-01-82
706.	7036662 पी	"	गिरजा प्रसाद	01-12-81
707.	7037484 के	"	गोबिन्द राम	01-01-82
708.	7035579 एन	"	गुरमेल सिंह	01-09-81
709.	1152402 एक्स	"	हरी बरधन सिंह	01-01-82
710.	7035740 पी	"	हरी चन्द यादव	01-09-81
711.	7043109 पी	"	हरीहर सिंह	01-11-81
712.	7036270 एक	"	हरमिन्दर सिंह	01-11-81
713.	7036660 के	"	जगदीश चन्द्र सरकार	01-12-81
714.	7040572 एन	"	जगदीश प्रसाद झोनवियाल	01-09-81
715.	7040877 एन	"	जगदीश प्रसाद कावधान	01-12-81
716.	7035847 के	"	जरड नैमुअल	01-09-81
717.	7036651 एन	"	जिव कान्त झा	01-12-81
718.	7035853 एक्स	"	के सुब्बेय्यान	01-09-81
719.	7030390 के	"	के विक्रम नायर	01-10-81
720.	7035854 ए	"	के जी परमेश्वर कुरूप	01-09-81
721.	7040792 पी	"	के एन प्रभाकरन	01-11-81
722.	7037301 एन	"	के बी जोन	01-01-82
723.	7037632 के	"	कामेश्वर सिंह	01-01-82
724.	7037316 एन	"	कृष्ण बलदेव	01-01-82
725.	7037347 एन	"	कृष्ण चवान	01-01-82
726.	7040908 ए	"	कृष्ण लाल	01-12-81
727.	7037342 एम	"	करुणामिन्दु पटनायक	01-01-82
728.	7043951 एम	"	कुट्टीयाम योहनन ऊम्मम	01-01-82
729.	7036252 बार्ड	"	लछमन कन्हा	01-11-81
730.	7037869 एक	"	लाल मन	01-01-82
731.	7040728 ए	"	लोक नाथ	01-11-81
732.	7037461 एन	"	एम राधाकृष्णन्	01-01-82
733.	7031276 बार्ड	"	मदन सिंह	01-12-81
734.	7036303 एक	"	महादेव दाभी शेडे	01-11-81
735.	7040735 एन	"	मणि मोहन सिधल	01-11-81
736.	7036503 एक्स	"	मेहर सिंह	01-12-81
737.	7043917 एम	"	मोहन नायर बी एन	01-01-82
738.	703624 एक्स	"	एन रामा स्वामी	01-11-81
739.	7036572 एम	"	नारायण राव देशमुख	01-12-81
740.	7031278 के	"	निशु मोहन नाथ	01-09-81
741.	7036111 के	"	पी नागामापी	01-10-81
742.	7035994 एम	"	पी कृष्णन कट्टी नायर	01-10-81
743.	7035888 एन	"	पी एन कृष्ण	01-10-81
744.	7035973 डब्ल्यू	"	पञ्च श्रीधरन पिल्ले	01-10-81
745.	7040938 एक्स	"	पल्लीयेडी चन्ना सेंथरन उश्री	01-01-82
746.	7037465 बार्ड	"	परमानन्दा बाम	01-01-82
747.	7036206 के	"	फनिन्दलाल चक्रवर्ती	01-11-81
748.	8360222 पी	"	प्रभु बयान	01-11-81
749.	7037471 एम	"	प्रेम	01-01-82
750.	7043179 एन	"	राम धामरा	01-11-81
751.	7036596 एक्स	"	रामचन्द्र चवान	01-12-81
752.	7040580 के	"	रामचन्द्र कांयले	01-09-81
753.	7043667 एन	"	रामचन्द्र पाटिल	01-12-81
754.	7035784 एम	"	राम दास	01-09-81
755.	7037476 एन	"	राम कल्प	01-01-82

756.	7035799 पी	हवलदार	राम किशन	01-09-81
757.	7037495 डबल्यू	"	राम सिंह गोमाई	01-01-82
758.	7036653 एन	"	रामानुज सिंह	01-12-81
759.	7036086 डबल्यू	"	रामा प्रसाद	01-10-81
760.	7036043 एफ	"	रामेन्द्र नाथ गांगूली	01-10-81
761.	7039293 एन	"	रमेश चन्दा दत्ता	01-11-81
762.	7035633 एम	"	रती कान्ता पानी	01-09-81
763.	7036112 एम	"	एस मुख् राजन	01-10-81
764.	7036314 एन	"	सहदेव	01-11-81
765.	7037390 एम	"	सालिग राम	01-01-82
766.	7036025 बाई	"	समधानी	01-10-81
767.	7035855 एच	"	सत पाप	01-09-81
768.	7036242 पी	"	सत्य नारायन बल्लानी	01-11-81
769.	7035965 एक्स	"	सत्येन्द्र चन्द्र देव	01-10-81
770.	7035920 एक्स	"	शंकर धर्मान	01-10-81
771.	12157751 बाई	"	शानाराम लोहार	01-12-81
772.	7037439 एक्स	"	शिव सिंह	01-01-82
773.	7036233 एन	"	शिव नाथ पांडे	01-11-81
774.	7035996 एक्स	"	सिबसधन भट्टाचार्यी	01-10-81
775.	7037475 एच	"	सरजन	01-01-82
776.	7037395 एक्स	"	सुबोध चन्द्र भाद्रा	01-01-82
777.	7035589 पी	"	सुखदेव सिंह मान	01-09-81
778.	7036076 एम	"	सुरेन्द्रो साहू	01-10-81
779.	7036012 एफ	"	सुरिन्दर सिंह	01-10-81
780.	7035917 एक्स	"	टी के अशोकन	01-10-81
781.	7036199 एक्स	"	थकपन पी	01-11-81
782.	7030373 के	"	उदय सिंह कोराह	01-12-81
783.	7040732 ए	"	विजयन एन पी	01-11-81
784.	7036313 एल	"	विनसेंट कोरेस्तर	01-11-81
785.	7036069 डबल्यू	"	विठल फूल माली	01-10-81
786.	7040977 डबल्यू	"	वीलूबरता चंगप्पा ननेया	01-01-82

आर्मी एजुकेशन कोर

787.	3949917 ए	हवलदार	समकियत सिंह	01-10-81
788.	6599498 बाई	"	प्रसह्लाब मटकर	01-11-81
789.	2948183 एफ	"	रनबीर सिंह पुनबीर	01-12-81

बी रिमाऊंट मेडरिलरी कोर

790.	7230593 एक्स	हवलदार	अनूप सिंह	01-11-81
791.	7230598 डबल्यू	"	बलवन्त सिंह	01-11-81
792.	7230614 ए	"	गोकुल सिंह	01-12-81
793.	7230611 पी	"	हस्ताम खी	01-12-81
794.	7231044 के	"	कन्हैया लाल	01-01-82
795.	7230587 के	"	ओम प्रकाश	01-11-81
796.	7230585 बाई	"	राघव प्रसाद कोरी	01-11-81
797.	7230621 बाई	"	शिव राम	01-12-81
798.	7230588 एम	"	श्री नारायण	01-11-81
799.	1028476 बाई	"	श्री राम सिंह	01-11-81
800.	7230592 पी	"	जिने सिंह	01-11-81

बी इंडेलिजेंस कोर

801.	1028078 एक्स	हवलदार	धर्म सिंह वर्मा	01-09-81
802.	6796787 एम	"	गीरो शंकर अम्बस्था	01-11-81
803.	1152797 के	"	मोहित सिंह	01-01-82
804.	2641969 एम	"	नफे सिंह	01-09-81

805.	1027989 एल	हवलदार	प्यारा लाल भानजाला	01-09-81
806.	1028063 पी	"	राम नरेश सिंह	01-09-81
807.	1152232 बार्ड	"	राम परशोब	01-12-81
808.	1027971 एल	"	राम बिहारी सिंह	01-09-81
809.	1028416 के	"	शंकर सिंह	01-10-81
810.	1028242 पी	"	श्याम देव सिंह	01-10-81

को २ प्राक सिविलरी पुलिस

811.	6596940 एल	हवलदार	एबल सिंह	01-11-81
812.	1165895 पी	"	धरम सिंह	01-01-82
813.	6596549 डब्ल्यू	"	भास्कर कुलकर्णी	01-05-81
814.	1028558 एक	"	चरण सिंह	01-11-81
815.	2641420 बार्ड	"	चत्तर सिंह	01-05-81
816.	7762574 एल	"	हसमत उल्लाह	01-09-81
817.	1149377 बार्ड	"	कवर सिंह	01-07-81
818.	6349907 एक	"	कशमीर सिंह	01-12-81
819.	4144247 पी	"	बिभू सिंह अधिकारी	01-12-81
820.	4143608 डब्ल्यू	"	महेन्द्र सिंह	01-04-81
821.	1147959 ए	"	नन्तू सिंह	01-05-81
822.	2642300 एम	"	फूल चन्द	01-12-81
823.	13651335 एक्स	"	राम चन्दर सिंह	01-03-81
824.	1028004 एल	"	रत सिंह	01-09-81
825.	2642299 एल	"	सन्तु लाल	01-12-81
826.	4144199 ए	"	शेर सिंह	01-11-81
827.	4036949 के	"	सुलभ सिंह नेगी	01-04-81
828.	6598201 ए	"	सुरेन्द्र सिंह	01-12-81
829.	3949648 बार्ड	"	नेत्र सिंह गुलेरिया	01-07-81
830.	6349589 एल	"	तोता राम	01-09-81
831.	1157289 एक्स	"	उज्जागर सिंह	01-04-81
832.	3142100 के	"	बजीर सिंह	01-09-81

भारती किमिकल इंडिया कोर

833.	1152352 एक्स	हवलदार	मजेंन सिंह	01-01-82
834.	1409934 एल	"	धौलार सिंह	01-11-81
835.	2441964 के	"	भाग सिंह	01-11-81
836.	2546561 एल	"	के भार नारायण	01-10-81
837.	4236746 के	"	कृष्णना मेहेंरा	01-07-81
838.	6797866 एन	"	एम बी बोयागर	01-01-82
839.	4037856 एक	"	राजे सिंह रावत	01-10-81
840.	1151383 एल	"	संगत सिंह	01-11-81
841.	6869033 एल	"	शाम पाटिल	01-12-81

बी पाईमियर कोर

842.	7994349 एल	हवलदार	डी रामा चन्दन	01-03-81
843.	7994252 ए	"	गुरवकाश सिंह	01-03-81

डिफेंस सिविलरी कोर

844.	8804844	हवलदार	बिशन बहादुर	01-12-81
845.	8809337	"	बभन वास्कर	01-10-81
846.	5231863	"	वल बहादुर कंवर	01-12-81
847.	3830060	"	पुरन सिंह	01-09-81
848.	8814260	"	शंकर	01-09-81
849.	8814390	"	श्री राम सिंह	01-09-81
850.	8796348	"	सुरज राम	01-12-81
851.	8805816	"	टी के गोपालन नायर	01-01-82

852.	8818372	हवलदार	विद्या राम	01-07-81
853.	8795971	"	विश्वनाथ बंडल	01-12-81
854.	4034328	"	यशवन्त सिंह राणा	01-10-81
दो डेरीटोरियल ग्रान्ती				
855.	10312779	हवलदार	जयपाल सिंह	01-09-81
856.	10272667	हवलदार	चन्दर मङ्गली	01-12-81

भाषकर घोष, संयुक्त सचिव पी एण्ड डब्ल्यू

No. 3-E dated 23rd January 1982.—The President is pleased to grant honorary rank of Nib Ris Idar/Subedar to the undermentioned NCOs on retirement under para 181 of the Regulations for the Army, 1962, with effect from the dates shown against their names,—

7 CAVALRY

1.	1027798M	DFR	TEJ SINGH	01-09-81
----	----------	-----	-----------	----------

8 CAVALRY

2.	1028089K	DFR	NIRBHAY SINGH	01-10-81
3.	1028129A	DFR	OMKAR SINGH	01-08-81

14 HORSE

4.	1027776N	DFR	KISHAN SINGH	01-09-81
----	----------	-----	--------------	----------

3 CAVALRY

5.	1030092H	DFR	RAM PHUL SINGH SUHAG	01-06-81
----	----------	-----	----------------------	----------

18 CAVALRY

6.	1027408Y	DFR	SURAT SINGH	01-08-81
----	----------	-----	-------------	----------

THE CENTRAL INDIA HORSE

7.	1026875K	DFR	ZILE SINGH	01-04-81
----	----------	-----	------------	----------

63 CAVALRY

8.	1026993X	DFR	MOTI SINGH	01-04-81
----	----------	-----	------------	----------

64 CAVALRY

9.	1028111K	DFR	TORHI SINGH	01-09-81
----	----------	-----	-------------	----------

65 ARMoured REGIMENT

10.	1027498L	DFR	SIKLA RAM	01-08-81
-----	----------	-----	-----------	----------

67 ARMoured REGIMENT

11.	1028849F	HAV	BAKSHISH SINGH	01-01-82
12.	1027558P	HAV	BISHAMBAR SINGH	01-08-81

69 ARMoured REGIMENT

13.	1027581H	DFR	BAKSHI RAM	01-08-81
14.	1028271K	DFR	SHAMSHER KHAN	01-10-81

70 ARMoured REGIMENT

15.	1028600P	DFR	KANT PAL	01-10-81
-----	----------	-----	----------	----------

72 ARMoured REGIMENT

16.	1026496N	DFR	ISHAR DASS	01-02-81
-----	----------	-----	------------	----------

74 ARMoured REGIMENT

17.	1027058X	DFR	JASWANT SINGH	01-04-81
-----	----------	-----	---------------	----------

81 ARMoured REGIMENT

18.	1027266W	DFR	SHAMSHER SINGH	01-07-81
-----	----------	-----	----------------	----------

ARMoured CORPS

19.	107292N	DFR	BED PAR KASH	01-06-81
20.	107252W	DFR	GIAN CHAND	01-06-81
21.	1097074M	DFR	JAGJIT	01-05-81
22.	1027832F	DFR	LOCHAN SINGH	01-09-81
23.	1097102N	DFR	RAMESHWAR LAL	01-08-81
24.	1028043F	DFR	ROHITASH KUMAR	01-09-81
25.	1097273A	DFR	SHEDU RAM	01-07-81
26.	1026682K	DFR	SOHAN SINGH	01-05-81

REGIMENT OF ARTILLERY

27.	1157543W	HAV	A SANTIAGO	01-06-81
28.	1157085L	HAV	ABDUL WAHEED	01-04-81
29.	1149240M	HAV	ACHUTHAN KUTTY V	01-05-81
30.	1156726A	HAV	BAL BAHADUR SINGH	01-03-81
31.	1150687W	HAV	BALBIR CHAND	01-09-81
32.	1155982H	HAV	BALWANT SINGH	01-04-81
33.	1149646A	HAV	BANTA SINGH	01-07-81
34.	1151011A	HAV	BASANT RAM	01-09-81
35.	1157791M	HAV	BASAVANIAPPAN JAI	01-07-81
36.	1149651L	HAV	BHAGAT RAM	01-07-81
37.	1150080K	HAV	BHANWAR SINGH	01-07-81
38.	1151215M	HAV	BHASKARAN NAIR K	01-07-81
39.	1152340F	HAV	BHOLA RAM	01-06-81
40.	1150937M	HAV	BINDA DIN	01-09-81
41.	1148124Y	HAV	BISHAMBHAR DAYAL	01-05-81
42.	1147808F	HAV	BUDDHU	01-05-81
43.	1147970Y	HAV	BUDHU THAKUR	01-05-81
44.	1151137A	HAV	CA PEMMAIAH	01-10-81
45.	1157674F	HAV	CK PONNAPPA	01-06-81
46.	5737325M	HAV	CHAMAN LAL	01-07-81
47.	1152243L	HAV	CHAMAN SINGH BHADWAL	01-12-81
48.	1146315N	HAV	CHANAN SINGH	01-02-81
49.	1152023F	HAV	CHANDRA DEV SINGH YADAV	01-11-81
50.	1149563P	HAV	CHARAN DASS	01-07-81
51.	1150105L	HAV	CHET RAM	01-07-81
52.	1152270P	HAV	DASHRATH SINGH	01-12-81
53.	1157766N	HAV	DENJU	01-07-81
54.	1150236W	HAV	DEVI SINGH	01-08-81
55.	1148005F	HAV	DHANESAR RAM	01-05-81
56.	1157137W	HAV	DHARAMBIR SINGH YADAVA	01-04-81
57.	1147465W	HAV	EKAMBARAM	01-04-81
58.	1157401Y	HAV	ERUSAPPAN	01-04-81
59.	1148424Y	HAV	GAFOOR MIAN	01-06-81
60.	1148705P	HAV	GANESH RAM	01-06-81
61.	1149486L	HAV	GANGA RAM HODE	01-04-81
62.	1148084F	HAV	GHISA RAM	01-05-81
63.	1149763L	HAV	GIRDAWAR SINGH	01-07-81
64.	1148309Y	HAV	GOPAL DASS	01-06-81
65.	1147539A	HAV	GULAB CHAND	01-04-81
66.	1150881L	HAV	GUPTAR PRASAD	01-09-81
67.	1151266A	HAV	GURBACHAN SINGH	01-10-81
68.	1147723L	HAV	GURDIAL	01-04-81
69.	1148328K	HAV	GURDIAL SINGH	01-06-81
70.	1151323W	HAV	HARI RAM VERMA	01-10-81
71.	1156988W	HAV	HARI SINGH	01-03-81
72.	1156745L	HAV	HARPHUL SINGH	01-03-81
73.	1146786F	HAV	INDERJIT	01-03-81
74.	1147460X	HAV	INDER SINGH	01-04-81
75.	1157618H	HAV	J DORAISWAMY	01-06-81
76.	1150711F	HAV	JANG BAHADUR	01-09-81
77.	1151211W	HAV	JAYSHRI	01-10-81
78.	1151058L	HAV	JEEWAN KUMAR TAMANG	01-09-81
79.	1148444M	HAV	JOGINDER SINGH	01-05-81
80.	1157515K	HAV	K JAYARAMAN	01-05-81
81.	1147343M	HAV	K NARAYANAN NAIR	01-04-81
82.	1150399K	HAV	K RAJARATNAM	01-08-81
83.	1157902Y	HAV	K RAVINDRAM PILLAI	01-08-81
84.	1148796K	HAV	KANCHHI	01-06-81
85.	1147750P	HAV	KHEM CHAND	01-05-81
86.	1149691M	HAV	KISHAN CHAND	01-07-81
87.	1149693X	HAV	KISHAN LAL	01-07-81
88.	1165183A	HAV	KOCHUNNITHAN JYADEVAN UNNITHAN	01-11-81

89.	1140411M	HAV	KRISHNA IYER N	01-11-81
90.	1147025H	HAV	KRISHNAN M	01-03-81
91.	1156791A	HAV	KRISHAN CHAND	01-03-81
92.	1157129X	HAV	KULWANT RAI	01-04-81
93.	1157146X	HAV	KUNDAN LAJ. SHARMA	01-04-81
94.	1160218F	HAV	KUNJU KRISHNAN A	01-08-81
95.	1149606Y	HAV	LAKHMI CHAND	01-07-81
96.	1157895N	HAV	M GANGADHARAN NAIR	01-08-81
97.	1147872Y	HAV	M MUNISWAMY	01-05-81
98.	1148024M	HAV	M SUNDARA RAJ	01-05-81
99.	1156889N	HAV	MADAN LAL ARORA	01-03-81
100.	5436607A	HAV	MADAN SINGH	01-12-81
101.	1152180N	HAV	MALKIT SINGH	01-12-81
102.	1156854X	HAV	MAN CHAND	01-03-81
103.	1156936A	HAV	MANGAT RAM	01-03-81
104.	1150817N	HAV	MANI KUMARDARJEE	01-09-81
105.	1161850L	HAV	MANOHAR SINGH	01-07-81
106.	1147726Y	HAV	MAST RAM	01-04-81
107.	1148949H	HAV	MOHAN SINGH	01-06-81
108.	1157891X	HAV	MOHAN SINGH	01-08-81
109.	1161432W	HAV	MOHINDAR SINGH	01-06-81
110.	1147625L	HAV	MOTI THAKUR	01-04-81
111.	1149896F	HAV	MUTHU SAMI	01-05-81
112.	1147518K	HAV	MUTHUVALI RAMAN	01-04-81
113.	1147434W	HAV	N ARUMUGAM	01-04-81
114.	1149385X	HAV	NM BOPANNA	01-07-81
115.	1148502L	HAV	NANDJI	01-06-81
116.	1148187A	HAV	NARAIN SINGH	01-05-81
117.	1157467P	HAV	NARAIN SINGH	01-04-81
118.	1148235P	HAV	NARINDER KUMAR	01-05-81
119.	1150367F	HAV	PARTAP SINGH	01-08-81
120.	1147740L	HAV	PAT RAM	01-04-81
121.	1150424X	HAV	PHOOLMAN PRADHAN	01-08-81
122.	1157091Y	HAV	PIARA SINGH	01-04-81
123.	1151443P	HAV	PRABHAKARAN NAIR	01-11-81
124.	1149971A	HAV	PREM SINGH	01-07-81
125.	1151019M	HAV	PRITAM CHAND	01-07-81
126.	1151285L	HAV	RACHAN SINGH	01-10-81
127.	1147584M	HAV	RAGHBIR	01-04-81
128.	1150385K	HAV	RAM BHAROSEY LAL	01-08-81
129.	1146405P	HAV	RAM CHANDER YADAV	01-02-81
130.	1148006K	HAV	RAM LAL	01-05-81
131.	1150234L	HAV	RAM PAL	01-08-81
132.	1147799L	HAV	RAMESHWAR	01-05-81
133.	1151457P	HAV	RAMESHWAR YADAVA	01-11-81
134.	1150844X	HAV	RATTAN LAL	01-09-81
135.	1147484F	HAV	ROSHAN LAL	01-04-81
136.	1146775P	HAV	SARJIT SINGH	01-03-81
137.	1149688M	HAV	SARWAN KUMAR	01-07-81
138.	1150110W	HAV	SARWAN RAM	01-07-81
139.	1148938W	HAV	SAWARAN SINGH	01-06-81
140.	1152079N	HAV	SHANKAR SINGH	01-12-81
141.	1147421Y	HAV	SHARDA RAM	01-04-81
142.	1147729M	HAV	SIYA RAM	01-04-81
143.	1147738N	HAV	SUGRIW RAM	01-04-81
144.	1149420P	HAV	SUKH RAM	01-07-81
145.	1157930L	HAV	SUNDAR	01-08-81
146.	1147203A	HAV	SURAT SINGH	01-03-81
147.	1152453L	HAV	SURENDRA SINGH UPADHYAY	01-08-81
148.	1165497F	HAV	SURESHA NAND	01-12-81
149.	1150066X	HAV	TARA CHAND	01-07-81
150.	1157244X	HAV	THOMAS AO	01-04-81
151.	1150374X	HAV	TUNDA RAM	01-08-81
152.	1151016Y	HAV	VA NARAYANAM	01-07-81
153.	1151468F	HAV	VIJAI SINGH	01-11-81

154.	1150573L	HAV	YESHWANT SINGH	01-08-81
155.	1160895Y	HAV	ZULFI RAM	01-10-81
MADRAS ENGINEER GROUP				
156.	1315218Y	HAV	A DEVANAN	01-11-81
157.	1314362F	HAV	GOVINDASAMI	01-09-81
158.	1318428K	HAV	K NARASIMHA REDDY	01-10-81
159.	1315210M	HAV	K THANGARAJ	01-11-81
160.	1314646L	HAV	M BALASUBRAMANIAN	01-12-81
161.	1315482M	HAV	M KORUTHU	01-01-82
162.	1314942W	HAV	MAHABUB SHERIFF	01-09-81
BENGAL ENGINEER GROUP				
163.	1424762W	HAV	BALKAR SINGH	01-01-82
164.	1495578P	HAV	BHAGIRATH	01-10-81
165.	1423851H	HAV	BOOR SINGH	01-09-81
166.	1400384K	HAV	FATEH SINGH	01-01-82
167.	1421681L	HAV	HARENDAR SINGH	01-10-81
168.	1421688P	HAV	ISHWARI DATT	01-10-81
169.	1423979N	HAV	KUNWAR SINGH	01-09-81
170.	1409965H	HAV	PREM LAL	01-11-81
171.	1495594M	HAV	RAHMAN	01-10-81
172.	1421671F	HAV	SATENDRA PRASAD	01-10-81
173.	1400528F	HAV	SOBAN SINGH	01-10-81
BOMBAY ENGINEER GROUP				
174.	1563280M	HAV	BALAKRISHNA SHINDE	01-01-82
175.	1563272N	HAV	BAGDU SHINDE	01-12-81
176.	1512457M	HAV	GOPAL PHADATARE	01-10-81
177.	1512590F	HAV	EK VARUGHESE	01-10-81
178.	1563163P	HAV	JAGDISH MITTER	01-10-81
179.	1512589A	HAV	K PRABHAKARAN	01-10-81
180.	1512237H	HAV	KHUSHIA SINGH PARWANA	01-09-81
181.	1512496L	HAV	SAWARN SINGH	01-10-81
182.	1563133K	HAV	SHIVAJI SALUNKE	01-01-82
183.	1562698H	HAV	TARSEM SINGH	01-11-81
184.	1514116A	HAV	TUKARAM LAD	01-10-81
CORPS OF SIGNALS				
185.	6273308L	HAV	ARJAN SINGH	01-12-81
186.	6272998N	HAV	BC KUNJU KUNJU	01-10-81
187.	6271976H	HAV	BALBIR SINGH	01-06-81
188.	6272661L	HAV	BRIJ LAL	01-09-81
189.	6272503W	HAV	CHATAR SINGH	01-10-81
190.	6272042X	HAV	DEV DATT	01-09-81
191.	6272750K	HAV	GOOTY CHANDRA SEKHAR	01-09-81
192.	6273474Y	HAV	GOPINATHAN NAIR KN	01-01-82
193.	6279436Y	HAV	GOPI TN	01-11-81
194.	6273220F	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-12-81
195.	6279439M	HAV	HIRA SINGH	01-11-81
196.	6279462A	HAV	INDRASAN RAI	01-11-81
197.	6272720M	HAV	JAGDISH PATHAK	01-09-81
198.	6272733K	HAV	JAMUNA SAHANI	01-09-81
199.	6273162H	HAV	JOHN KM	01-09-81
200.	6273376Y	HAV	K MICHAEL	01-01-82
201.	6271894A	HAV	K RAMCHANDRAN NAIR	01-06-81
202.	6272401A	HAV	KS CHANDRAN	01-08-81
203.	6275277P	HAV	KAMALA PRASAD CHAUBEY	01-12-81
204.	6272422W	HAV	KARNAIL SINGH	01-08-81
205.	6273050H	HAV	KASHIRAM PATIL	01-11-81
206.	6276478A	HAV	KAUR SINGH LAKHANPURIA	01-10-81
207.	6279325F	HAV	KHAJAN SINGH	01-10-81
208.	6276799X	HAV	KIZHAKKE KARA NAIR VEEDU	01-12-81
			SUKUMARAN	
209.	6268642H	HAV	M KRISHNA SWAMY	01-12-81

210.	6273406L	HAV	MM MATHAI	01-01-82
211.	6272956F	HAV	MADAN PRASAD SINGH	01-10-81
212.	6273591K	HAV	MADHAVAN NAIR K	01-12-81
213.	6279538P	HAV	MADHUKAR NAIK	01-11-81
214.	6273061P	HAV	MALLAPPA SANKESHWARI	01-11-81
215.	6275275K	HAV	NAIN SINGH	01-09-81
216.	6272757N	HAV	NARENDRA SINGH	01-09-81
217.	6279587X	HAV	NEELA CANTAN GOPI	01-11-81
218.	6273477M	HAV	NESAYYAN M	01-01-82
219.	6273327W	HAV	P AMAL RAJ	01-12-81
220.	6273047H	HAV	P ANJANEYULU	01-06-81
221.	6273404A	HAV	P SHANMUGAM	01-01-82
222.	6279330M	HAV	PP GOPALA KRISHNAN NAIR	01-10-81
223.	6272726N	HAV	PARMESHWAR JHA	01-09-81
224.	6272959P	HAV	PRABH DAYAL	01-10-81
225.	6272874Y	HAV	PRITAM SINGH	01-10-81
226.	6272129Y	HAV	RAGHUNATH PRASAD	01-07-81
227.	1513113A	HAV	RAM DAS KADAM	01-12-81
228.	6272816P	HAV	RAMESHWAR DAYAL YADAV	01-09-81
229.	6273331Y	HAV	RAM JANAM SINGH	01-01-82
230.	6272525P	HAV	RAM KUMAR PRASAD	01-08-81
231.	6272921L	HAV	S CHELLAIAH	01-10-81
232.	6273303M	HAV	SAMUEL G	01-12-81
233.	6276640M	HAV	SANMAN GUPTA	01-11-81
234.	6273235K	HAV	SANTOKH SINGH	01-12-81
235.	6272981A	HAV	SASHI BHUSAN PATTHAIK	01-10-81
236.	6277169K	HAV	SHANMUKHI VISHNU MURTY RAJU	01-01-82
237.	6272991K	HAV	SHER SINGH	01-10-81
238.	6275220A	HAV	SUBBA RAO ADIMULAM	01-11-81
239.	6273107M	HAV	SUNIL KUMAR NANDI	01-11-81
240.	6277255P	HAV	TIRUMALA SETTI YEDUKONDALU	01-01-82
241.	6273324H	HAV	VARUGHESE KC	01-12-81
242.	6272616Y	HAV	VASUDEVAN NAIR	01-09-81
243.	6272951H	HAV	VED PARKASH	01-10-81
244.	6273284M	HAV	VIJAYA BHASKARA CHELLI	01-12-81
245.	6272314M	HAV	VIRENDRA SINGH	01-12-81
246.	6273039K	HAV	VISHNU SWAROOP BAIJAI	01-11-81

BRIGADE OF THE GUARDS

247.	13651972N	HAV	BABU LAL DHOBI	01-10-81
248.	7994842Y	HAV	GEORGE PC	01-01-82
249.	13653215X	HAV	HANUMAN SINGH	01-09-81
250.	3951391X	HAV	JAISHI RAM	01-01-82
251.	13653191Y	HAV	M SHANMUGAM	01-09-81
252.	13653360P	HAV	NALLA MADAN	01-01-82
253.	13653522P	HAV	RAM BRIKSHA PANDEY	01-09-81
254.	13653292M	HAV	SADHU SINGH	01-11-81
255.	13651475K	HAV	TARA CHAND	01-05-81

THE PARACHUTE REGIMENT

256.	13600105F	HAV	ANANT KUMAR DAS	01-01-82
257.	2947293K	HAV	BHOLA RAM	01-01-82
258.	4144021K	HAV	BIJAI SINGH	01-09-81
259.	4144040P	HAV	GOPAL SINGH	01-09-81
260.	4145546A	HAV	HAR SINGH	01-01-82
261.	4143992H	HAV	HAYAT SINGH	01-09-81
262.	3950055Y	HAV	ISHWAR DASS	01-12-81
263.	2947194F	HAV	JAGMAL RAM	01-12-81
264.	4037215P	HAV	KANAHYA LAL	01-01-82
265.	2547272A	HAV	M CHINNAIAH	01-12-81
266.	2547026P	HAV	S GANAPATHY	01-11-81
267.	2546762F	HAV	S PALANIVEL	01-10-81

THE PUNJAB REGIMENT

268.	2442866W	HAV	BARA SINGH GREWAL	01-09-81
269.	2443006P	HAV	DEVI DASS	01-12-81

270.	2441767F	HAV	DHARAM CHAND	01-09-81
271.	2441739P	HAV	GURCHARAN SINGH	01-09-81
272.	2442995W	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-12-81
273.	2441942L	HAV	KARNAIL SINGH	01-11-81
274.	2441979M	HAV	KHUSHAL SINGH BADANICH	01-11-81
275.	2441742P	HAV	PRABHU DAYAL	01-09-81
276.	2442935F	HAV	PURAN SINGH	01-11-81
277.	2441926N	HAV	SARDAR SINGH	01-10-81

THE MADRAS REGIMENT

278.	2546960M	HAV	ARUMUGAM	01-11-81
279.	2546485F	HAV	BADDIREDDI AYYANNA DORAI	01-09-81
280.	2547014A	HAV	BALAKRISHNAN NAIR K	01-11-81
281.	2548542W	HAV	CH MADHAVAN	01-11-81
282.	2547188A	HAV	CHANDRAN	01-12-81
283.	2546667P	HAV	D SAVARIMUTHU	01-10-81
284.	2546952N	HAV	K DURAISWAMY	01-11-81
285.	2546948L	HAV	K MUTHUSAMY	01-11-81
286.	2546735X	HAV	K RAGHAVA MARAR	01-10-81
287.	2547216F	HAV	M KESAVAN	01-12-81
288.	2547287H	HAV	M KRISHNAN	01-01-82
289.	2548584M	HAV	M NARAYANASWAMI	01-12-81
290.	2547335X	HAV	MANI	01-01-82
291.	2548564P	HAV	P ACHUTAN	01-12-81
292.	2546763K	HAV	R ANDAPERUMAL	01-10-81
293.	2546698P	HAV	R RAMASAMI	01-09-81
294.	2546787N	HAV	SIVALINGAM	01-10-81
295.	2547288W	HAV	SUDHAKARAN	01-12-81
296.	2546898L	HAV	SUNDARA DAS P	01-11-81
297.	2548495K	HAV	TG VARGHESE	01-11-81
298.	2548599L	HAV	TUMATI VENKATA KRISHNAIAH	01-12-81

THE GRENADIERS

299.	2642156H	HAV	HAR LAL	01-11-81
300.	2642336L	HAV	MEGHA RAM	01-12-81
301.	2643310H	HAV	RAGHBIR SINGH	01-01-82

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

302.	4145261N	HAV	ANANDA ASBE	01-09-81
303.	2745304H	HAV	ANANT BHARMAL	01-11-81
304.	2745630L	HAV	BALKU BEDEKAR	01-12-81
305.	2745465L	HAV	BALWANT PATIL	01-11-81
306.	2743756M	HAV	DHONDU UMASARE	01-11-81
307.	2743300N	HAV	GULABA FAND	01-10-81
308.	2742827W	HAV	JOTIBA SAWANT	01-09-81
309.	2743482M	HAV	KRISHNA YEKNATH GURAV, VrC	01-10-81
310.	2745475P	HAV	MAHABALESHWAR KOTARKAR	01-11-81
311.	4145365X	HAV	NANA JAGDALE	01-10-81
312.	4143779H	HAV	NARAYAN YEWALE	01-11-81
313.	4145398A	HAV	NIVRUTI UNDURE	01-10-81
314.	2744359A	HAV	NIWARTI INGAWALE	01-01-82
315.	4144141H	HAV	RAMCHANDRA NALAWADE	01-12-81
316.	2745027H	HAV	RAMCHANDRA NALAWADE	01-09-81
317.	2743681A	HAV	SHANKAR PAWAR	01-11-81
318.	2743272M	HAV	SUKHADEO	01-10-81
319.	2743823M	HAV	TUKARAM BHAT	01-11-81
320.	2744337F	HAV	TUKARAM GHORPADE	01-01-82
321.	2744943X	HAV	TUKARAM NIKAM	01-09-81
322.	2745208N	HAV	YESHWANT SAMBLE	01-10-81

THE RAJPUTANA RIFLES

323.	2845988Y	HAV	GYANI RAM	01-10-81
324.	2847323F	HAV	HARIS CHANDRA	01-12-81
325.	2845829F	HAV	HOSHIAR SINGH	01-09-81
326.	2846239P	HAV	JAG RAM	01-01-82

327.	2846264N	HAV	JANAK SINGH	01-01-82
328.	2846284F	HAV	KHANGAR SINGH	01-01-82
329.	2843244P	HAV	NASIR KHAN	01-01-82
330.	2845824H	HAV	RAMSAROOP SINGH	01-09-81
331.	2846170W	HAV	TAKHAT SINGH	01-01-82
332.	2845817M	HAV	TEK CHAND	01-09-81

THE RAJPUT REGIMENT

333.	2947275F	HAV	AMI LAL	01-01-82
334.	2947308F	HAV	BALBIR SINGH	01-01-82
335.	29 46853Y	HAV	BHADUR SINGH	01-09-81
336.	29 47037P	HAV	BISHNU PRATAP SINGH	01-11-81
337.	29 47094W	HAV	DASHRATH SINGH	01-11-81
338.	29 46863H	HAV	DEPTY SINGH	01-09-81
339.	2946705N	HAV	DHARAM RAJ SINGH	01-09-81
340.	2948164W	HAV	JAGDISH RAI	01-11-81
341.	2946222W	HAV	KHICHU SINGH	01-07-81
342.	2947161W	HAV	KRISHAN LAL	01-12-81
343.	2946817N	HAV	LAKHMI CHAND	01-09-81
344.	2946808M	HAV	REWANT SINGH	01-09-81
345.	2946781A	HAV	RISAL SINGH	01-09-81
346.	2946784N	HAV	SAHEB BAKSH SINGH	01-09-81
347.	2945871P	HAV	SHYAMVIR SINGH BHADAN	01-02-81

THE JAT REGIMENT

348.	3143050F	HAV	ISHWAR SINGH	01-01-82
349.	3142241Y	HAV	KISHAN LAL	01-12-81
350.	3142181P	HAV	PHUL CHAND	01-10-81
351.	3142340F	HAV	RISAL SINGH	01-12-81
352.	3142984F	HAV	SURJA RAM	01-10-81

THE SIKH REGIMENT

353.	3346420A	HAV	AVTAR SINGH	01-10-81
354.	3346272A	HAV	BALBIR SINGH	01-09-81
355.	3346281F	HAV	BALDEV SINGH	01-09-81
356.	3348189F	HAV	BALJINDAR SINGH	01-01-82
357.	3346449H	HAV	BANTA RAM	01-11-81
358.	3346405L	HAV	BEGA RAM	01-10-81
359.	3346438W	HAV	BIRAM SINGH	01-11-81
360.	3346573K	HAV	DIWAN SINGH	01-01-82
361.	3346585Y	HAV	DIWAN SINGH	01-01-82
362.	3348134X	HAV	GURCHARN SINGH	01-12-81
363.	3346471N	HAV	JAGIR SINGH	01-12-81
364.	3346423N	HAV	JOGINDER SINGH	01-11-81
365.	3348061W	HAV	KEHAR SINGH	01-09-81
366.	3346529A	HAV	MULKHA SINGH	01-01-82
367.	3346316N	HAV	PARTAP SINGH	01-09-81
368.	3346535N	HAV	PIARA SINGH	01-07-81
369.	3346458K	HAV	PREM SINGH	01-12-81
370.	3346566N	HAV	PURAN SINGH	01-01-82
371.	3346359F	HAV	RAMUN	01-10-81
372.	4437494Y	HAV	RANBIR	01-11-81
373.	3348146M	HAV	TARA SINGH	01-12-81
374.	3346542K	HAV	TEJA SINGH	01-01-82

THE SIKH LIGHT INFANTRY

375.	4437612F	HAV	GAYASI RAM	01-01-82
376.	4437511N	HAV	GURDIAL SINGH	01-11-81
377.	4437602X	HAV	KESAR	01-01-82
378.	4437635H	HAV	LACHHMAN SINGH	01-01-82
379.	4437537H	HAV	NASIB SINGH	01-12-81
380.	4437632P	HAV	PARSAN SINGH	01-01-82
381.	4437656Y	HAV	TULSA SINGH	01-01-82

THE DOGRA REGIMENT

382.	3949853A	HAV	BALBIR RAJ	01-10-81
383.	3950070N	HAV	DHARAM CHAND	01-12-81

384.	3949768X	HAV	GUR LAL	01-09-81
385.	3949670K	HAV	KADAR NATH	01-08-81
386.	3949875Y	HAV	KRISHAN LAL	01-10-81
387.	3950116L	HAV	LUDAR SINGH	01-12-81
388.	3949738A	HAV	MOOL SINGH RAJPUT	01-09-81
389.	3951269F	HAV	MUNSHI RAM	01-10-81
390.	3949973Y	HAV	OM PARKASH	01-11-81
391.	3949799X	HAV	PURAN CHAND	01-09-81
392.	3949720K	HAV	WAZIR RAM	01-09-81

THE GARHWAL RIFLES

393.	4036920F	HAV	CHANDI PRASAD KAINTHOLA	01-04-81
394.	4037306Y	HAV	DEWAN SINGH RANA	01-01-82
395.	4037179P	HAV	DHARAM SINGH	01-12-81
396.	4037885W	HAV	GOVIND RAM	01-01-82
397.	4037095F	HAV	JAINU	01-10-81
398.	4037231M	HAV	KAMAN SINGH CHAUHAN	01-01-82
399.	4037101K	HAV	RAM CHANDRA SINGH	01-12-81
400.	4037087H	HAV	RAM SARUP	01-09-81

THE KUMAON REGIMENT

401.	4143990X	HAV	BAHADUR SINGH	01-09-81
402.	4144369Y	HAV	BIJAY SINGH	01-01-82
403.	4144287W	HAV	BISHAN SINGH	01-12-81
404.	4144096F	HAV	DALIP SINGH	01-10-81
405.	4144309P	HAV	DHAN SINGH	01-12-81
406.	4144007X	HAV	GUSAIN SINGH	01-09-81
407.	4223030M	HAV	JAMAN RAM	01-10-81
408.	4144270H	HAV	JAMAN SINGH	01-12-81
409.	4145579L	HAV	NAIN CHAND	01-01-82
410.	4144194F	HAV	PRABHU NATH SINGH	01-11-81
411.	4144383L	HAV	PRAYAG SINGH	01-01-82
412.	4144393P	HAV	RAM SINGH RAWAT	01-01-82
413.	4144190L	HAV	SHER SINGH	01-11-81

THE ASSAM REGIMENT

414.	4335916L	HAV	SHIV JANAM	01-12-81
------	----------	-----	------------	----------

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

415.	13718783Y	HAV	ASH BAHADUR SUNAR	01-12-81
416.	13718810X	HAV	BALDEV CHAND	01-01-82
417.	13717134F	HAV	BALDEV SINGH	01-09-81
418.	13717254A	HAV	BUDHI CHAND	01-11-81
419.	13717125A	HAV	CHAMEL SINGH	01-09-81
420.	13717253X	HAV	JAINTA RAM	01-11-81
421.	13719032K	HAV	MANGU RAM	01-09-81
422.	13717333P	HAV	OM BAHADUR	01-01-82
423.	13717103F	HAV	RAGHBIR SINGH	01-09-81
424.	13718767F	HAV	RAJ KUMAR THAKURI	01-12-81
425.	13714623F	HAV	SOBHA SINGH	01-10-81

THE LADAKH SCOUTS

426.	9071376Y	HAV	SKALZANG RINCHEN	01-12-81
------	----------	-----	------------------	----------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

427.	9070676N	HAV	CHAMPAT SINGH	01-09-81
428.	9070833P	HAV	DELAWAR LONE	01-01-82
429.	9093647L	HAV	GHULAM HASSAN SHAH	01-10-81
430.	9093635W	HAV	GIAN CHAND	01-09-81
431.	9070673A	HAV	HABIB MIR	01-09-81
432.	9070652K	HAV	JARNAIL SINGH	01-09-81
433.	9070752P	HAV	KUSHAL SINGH	01-11-81
434.	9070709N	HAV	SHANKAR DATT	01-10-81

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

435.	3950179M	HAV	AMAR SINGH	01-01-82
436.	5033234Y	HAV	BHIM BAHADUR PRADHAN	01-12-81
437.	2846223K	HAV	CHANDER SINGH	01-01-82
438.	3949809W	HAV	DHIAN SINGH	01-10-81
439.	2946782H	HAV	GHISA RAM	01-09-81
440.	2845927F	HAV	HUKAM SINGH	01-10-81
441.	2845873L	HAV	INDER SINGH	01-09-81
442.	3142116P	HAV	KARAN SINGH	01-10-81
443.	2642125H	HAV	KISHAN SINGH	01-10-81
444.	4037077Y	HAV	LACHHMAN SINGH	01-09-81
445.	2846046P	HAV	PADAM SINGH	01-11-81
446.	2846202M	HAV	RATAN SINGH	01-01-82
447.	2846292A	HAV	SOHAN SINGH	01-01-82

1 GORKHA RIFLES

448.	5032860W	HAV	BEL BAHADUR GURUNG	01-11-81
449.	5032857W	HAV	BISHNA BAHADUR GURUNG	01-11-81
450.	5032920A	HAV	DHAN BAHADUR GURUNG	01-12-81
451.	5032917A	HAV	INDRA BAHADUR THAPA	01-12-81
452.	5032982A	HAV	SHER BAHADUR GURUNG	01-01-82
453.	5033353P	HAV	TAM BAHADUR GURUNG	01-01-82

3 GORKHA RIFLES

454.	5235139H	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-12-81
455.	5235191X	HAV	KUL BAHADUR THAPA	01-12-81
456.	5235199K	HAV	LAL BAHADUR THAPA	01-01-82
457.	5235184P	HAV	SAI RAM PUN	01-12-81

4 GORKHA RIFLES

458.	5334826N	HAV	BHIM BAHADUR GURUNG	01-01-82
459.	5334751F	HAV	CHANDRA BAHADUR GURUNG	01-12-81
460.	5334708A	HAV	CHOK BAHADUR THAPA	01-12-81
461.	5334816K	HAV	DEO BAHADUR GURUNG	01-12-81
462.	5334923L	HAV	DHAN BAHADUR GURUNG	01-01-82
463.	5334909Y	HAV	DHAN LAL BISHWAKARMI	01-01-82
464.	5334885A	HAV	DHAN PARSAD GURUNG	01-01-82
465.	5334801F	HAV	EM BAHADUR THAPA	01-12-81
466.	5334894F	HAV	GOKHAN BAHADUR THAPA	01-01-82
467.	5334844W	HAV	GOPI BAHADUR GURUNG	01-01-82
468.	5334804P	HAV	GUMAN SINGH SARKI	01-12-81
469.	5334726H	HAV	KHEM KARANA THAPA	01-12-81
470.	5334942W	HAV	KUM BAHADUR GURUNG	01-01-82
471.	5334831Y	HAV	LAL BAHADUR GURUNG	01-01-82
472.	5334725A	HAV	MAN BAHADUR GURUNG	01-12-81
473.	5334798M	HAV	RAM BAHADUR THAPA	01-12-81
474.	5334698F	HAV	RAM PRASAD BURA	01-12-81
475.	5334759N	HAV	SHER BAHADUR GURUNG	01-12-81
476.	5334717F	HAV	TEK BAHADUR THAPA	01-12-81
477.	5334666Y	HAV	UMAR SINGH GURUNG	01-11-81

5 GORKHA RIFLES

478.	5437677L	HAV	CHANDRA BAHADUR PUN	01-12-81
479.	5437692A	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-12-81
480.	5437683Y	HAV	EK BAHADUR GURUNG	01-12-81
481.	5437637K	HAV	MAN BAHADUR RANA	01-11-81
482.	5437574L	HAV	NAR BAHADUR THAPA	01-11-81

8 GORKHA RIFLES

483.	5738561A	HAV	BIRMAN GURUNG	01-12-81
484.	5738511P	HAV	DIL BAHADUR RANA	01-12-81
485.	5738471Y	HAV	DIL PARSAD GURUNG	01-11-81
486.	5738578N	HAV	JASBIR THAPA	01-01-82
487.	5737418F	HAV	NAR BAHADUR VKARMA	01-01-82
488.	5737378L	HAV	PREM BAHADUR ALE	01-01-82

489.	5737340F	HAV	TAM BAHADUR GURUNG	01-01-82
490.	5738562H	HAV	UDE BAHADUR GURUNG	01-12-81
9 GORKHA RIFLES				
491.	5835015X	HAV	DEB BAHADUR KHATTRI	01-11-81
492.	5834508M	HAV	JUMMA DIN	01-11-81
493.	5835017H	HAV	NAR BAHADUR CHHETTRI	01-11-81
11 GORKHA RIFLES				
494.	9404680K	HAV	AUTAR BAHADUR LIMBU	01-11-81
495.	9404678M	HAV	BIR BAHADUR TAMANG, SM	01-10-81
496.	5033180H	HAV	DAMBAR BAHADUR LIMBU	01-11-81
497.	9404753L	HAV	HARI BAHADUR RAI	01-01-82
498.	9404694K	HAV	JIT BAHADUR RAI	01-12-81
499.	9404691W	HAV	KAMAL KUMAR RAI	01-12-81
500.	9404785N	HAV	RAM LAL CHHETRI	01-01-82
501.	9404736L	HAV	TEK BAHADUR RAI	01-01-82
ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)				
502.	6349692N	HAV	NABIN PRASAD SINGH	01-10-81
503.	6350732W	HAV	P VELLAYAN	01-01-82
504.	6350714N	HAV	RAJA RAM LAD	01-01-82
505.	6350850K	HAV	RAM PATI SHARMA	01-01-82
506.	6350852P	HAV	VK GOPALA KRISHNAN NAIR	01-01-82
ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)				
507.	6444530N	DFR	CHANDAR SINGH	01-11-81
ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)				
508.	6595742Y	HAV	AKHTAR KHAN	01-11-81
509.	6600238N	HAV	AMARJIT SINGH	01-01-82
510.	6597123F	HAV	ANIRUDH CHAND	01-01-82
511.	6600143L	HAV	BALE RAM	01-12-81
512.	6596952H	HAV	BEDA NAND SINGH	01-11-81
513.	6595961X	HAV	BIJAI BAHADUR SINGH	01-12-81
514.	6596920A	HRV	BRIJ NANDAN JHA	01-11-81
515.	6350078L	HAV	BUDHI RAM RAI	01-01-82
516.	6596758N	HAV	CHIRANJI LAL GUJAR	01-10-81
517.	6350079N	HAV	DIWAKAR OJHA	01-01-82
518.	6350164P	HAV	DNANU MANE	01-01-82
519.	6595751X	HAV	DUDH NATH	01-11-81
520.	6597042F	HAV	GABAR SINGH NEGI	01-12-81
521.	6600082W	HAV	GUNDER SINGH	01-11-81
522.	6597022N	HAV	GURAMAR SINGH	01-12-81
523.	6595985F	HAV	GURBACHAN SINGH	01-12-81
524.	6596755A	HAV	GURDAYAL SINGH	01-09-81
525.	6350129N	HAV	HAR SINGH	01-01-82
526.	6595986K	HAV	HARI RAM	01-12-81
527.	6597146H	HAV	HARI RAM SHARMA	01-01-82
528.	6597026K	HAV	HOSHIAR SINGH	01-12-81
529.	6598499P	HAV	HOSHIAR SINGH	01-01-82
530.	6598478Y	HAV	JAI NARAYAN	01-01-82
531.	6350015H	HAV	JALESHWAR RAM	01-12-81
532.	6598291F	HAV	JARIFA-UD-DIN KHAN	01-01-82
533.	6595569X	HAV	JOGA SINGH	01-09-81
534.	6597052L	HAV	JUG RAJ	01-12-81
535.	6598178X	HAV	KV NANU NAMBIAR	01-09-81
536.	6596959M	HAV	KAILASH NATH MISRA	01-11-81
537.	6597079H	HAV	KAUSHLENDRA NARAIN MISHRA	01-12-81
538.	6600108A	HAV	KHAZAN SINGH	01-11-81
539.	6349972F	HAV	KRISHAN LAL	01-12-81
540.	6598279L	HAV	KRISHNA MURARI GHOSH	01-01-82
541.	6595998Y	HAV	LACHHI RAM	01-12-81
542.	6350085F	HAV	LAL BAHADUR PRASAD	01-01-82
543.	6598129P	HAV	LAL MANT SINGH	01-12-81
544.	6597107K	HAV	MADHO SINGH	01-01-82
545.	6600011P	HAV	MAHENDRA SINGH ARYA	01-09-81

546.	6597008F	HAV	MANGNA RAM	01-12-81
547.	6595537P	HAV	MANO DATT PANDEY	01-09-81
548.	6595878A	HAV	MEGH RAJ	01-11-81
549.	6595611L	HAV	MOHD TOHID KHAN	01-10-81
550.	6598246A	HAV	MONORANJAN NANDI	01-12-81
551.	6598348N	HAV	NAMDEO MANE	01-01-82
552.	6598429W	HAV	NANA PAWAR	01-01-82
553.	6595918W	HAV	NANDAN SINGH RAUTELA	01-11-81
554.	6597010Y	HAV	NARAIN DATT	01-12-81
555.	6596782K	HAV	NARAYAN SINGH	01-10-81
556.	6598479F	HAV	NIVARTI MALI	01-01-82
557.	6598080K	HAV	PV MADHAVAN	01-12-81
558.	6595566K	HAV	PAT RAM SINGH	01-09-81
559.	6598415W	HAV	PRALHAD BHOSLE	01-01-82
560.	6598436M	HAV	PRASAD NELAPUDI	01-01-82
561.	6595833P	HAV	PREM SINGH	01-11-81
562.	6596932P	HAV	PROBOD CHANDRA ROY	01-11-81
563.	6598110W	HAV	PURAN SINGH	01-12-81
564.	1315434M	HAV	PURUSHOTHAMAN ADIYODI AP	01-01-82
565.	6598476N	HAV	RAMCHANDRAN	01-01-82
566.	6595501W	HAV	RAM DAYAL	01-09-81
567.	6350179Y	HAV	RAM SAKAL SINGH	01-01-82
568.	6595891K	HAV	RAM SINGH	01-11-81
569.	6597163H	HAV	RAMJI RAI	01-01-82
570.	6598294M	HAV	ROSHAN LAL	01-01-82
571.	6595659M	HAV	RUP KISHOR DUBEY	01-10-81
572.	6597128A	HAV	RUP LAL	01-01-82
573.	6350116W	HAV	SADASHIV SHINDE	01-01-82
574.	6349973K	HAV	SANMUKH SINGH	01-12-81
575.	6598347N	HAV	SHRANAPPA	01-01-82
576.	6597182N	HAV	SHRI RAM	01-01-82
577.	6598202H	HAV	SHYAM BEHARI SINGH	01-12-81
578.	6596801K	HAV	SHYAM SINGH	01-10-81
579.	6598114M	HAV	SRI RAMA MURTHY TELIKAPPALI	01-12-81
580.	6597047A	HAV	SULTAN SINGH	01-12-81
581.	6595565X	HAV	SURAJ BHAN	01-09-81
582.	6595943N	HAV	SURAJ BHAN	01-12-81
583.	6598000F	HAV	SURESH CHAND	01-09-81
584.	6595851H	HAV	SURESH CHANDRA TEWARI	01-11-81
585.	6350042M	HAV	SURYABHAN JADHAV	01-01-82
586.	6598453M	HAV	TP SIVARAMAN NAIR	01-01-82
587.	6596989K	HAV	THOMAS KI	01-11-81
588.	6598068H	HAV	THULSI DAS	01-12-81
589.	6596938W	HAV	V MANGAPATHI NAIDU	01-11-81
590.	6596717K	HAV	VENKATA KRISHN RAO KATRAGADDA	01-09-81
591.	6597038Y	HAV	VARINDABAN LAL	01-12-81
592.	6598488H	HAV	XAVIER MB	01-01-82

ARMY MEDICAL CORPS

593.	6785177A	HAV	A KARUNAKARAN	01-04-81
594.	6785528K	HAV	ANTHONY DASS	01-07-81
595.	6790802A	HAV	BANSHI DHAR MISRA	01-05-81
596.	6796875H	HAV	BHAGIRATH	01-06-81
597.	6790955K	HAV	BIRENDRA KISHORE PAUL	01-06-81
598.	6791049Y	HAV	GADADHAR NAYAK	01-07-81
599.	6785201L	HAV	GAVADU DESAI	01-04-81
600.	6790980M	HAV	GIRISH CHANDRA	01-07-81
601.	6791110X	HAV	GOBIND SINGH	01-08-81
602.	6790937Y	HAV	GULAB	01-06-81
603.	6790719H	HAV	HADI BANDHU BEHERA	01-04-81
604.	6797436K	HAV	HANUMAN PRASAD	01-07-81
605.	6791008P	HAV	JAGDISH PARSAD	01-07-81
606.	6791562A	HAV	JATINDRA CHANDRA DHAR	01-03-81
607.	6790720P	HAV	JAYA BEHERA	01-04-81
608.	6791139A	HAV	KESHWANAND	01-08-81
609.	6790842F	HAV	KRISHAN CHAND	01-05-81
610.	6790709Y	HAV	MAM RAJ	01-04-81

611.	6790892M	HAV	MOTI LAL SHARMA	01-05-81
612.	6785181H	HAV	NANA GOSAVI	01-04-81
613.	6785560Y	HAV	PANKRASIUS TIRKEY	01-07-81
614.	6790710N	HAV	PARSHOTAM DATT	01-04-81
615.	6791190Y	HAV	PATANG RAO POL	01-08-81
616.	6785433N	HAV	PRAFULLA CHANDRA PATI	01-06-81
617.	6785344L	HAV	PRAFULLA KUMAR BHATTACHARJEE	01-05-81
618.	6785320F	HAV	RADHA KISAN MORE	01-05-81
619.	6798311W	HAV	RAJA RAM PATIL	01-07-81
620.	6785547N	HAV	RAJNAIK SINGH	01-07-81
621.	6791006K	HAV	RAM GOPAL	01-07-81
622.	6785324X	HAV	RAM LAKHAN TIWARI	01-05-81
623.	6790813M	HAV	ROSHAN	01-05-81
624.	6785550P	HAV	SANJIVI	01-07-81
625.	6791171P	HAV	SHISHUPAL SINGH	01-08-81
626.	6791068K	HAV	SHMA SHER	01-07-81
627.	6785299K	HAV	SHRI CHAND	01-05-81
628.	6796550P	HAV	SOHAN LAL	01-10-81
629.	6790921W	HAV	SUKADEV DASS	01-06-81
630.	6791140P	HAV	SUNIL KUMAR SARKER	01-08-81
631.	6797538A	HAV	THANKACHEN P	01-08-81
632.	6791138X	HAV	VJAY SINGH VIST	01-03-81

ARMY ORDNANCE CORPS

633.	6349723H	HAV	A DASTAGEER	01-11-81
634.	6870024N	HAV	BABURAO DESAI	01-10-81
635.	6868806L	HAV	BALBIR PRASAD	01-09-81
636.	6868969Y	HAV	BHOLA NATH CHETTRY	01-11-81
637.	6349757W	HAV	BIDYANAND SINGH	01-11-81
638.	6870051X	HAV	BRAJ BASI PRASAD	01-10-81
639.	6868758W	HAV	G RATHINA SWAMI	01-09-81
640.	6349693W	HAV	JAGAN NATH PRASAD	01-10-81
641.	6869437L	HAV	JUG LAL	01-10-81
642.	6349139L	HAV	KARU SAH	01-03-81
643.	6868839W	HAV	KRISHAN LAL	01-09-81
644.	6868757N	HAV	LACHHMIDHAR	01-09-81
645.	6349675N	HAV	LAXMAN CHARAN MARNDI	01-10-81
646.	6869862W	HAV	MP CHENNA KESAWAN	01-08-81
647.	6349741L	HAV	MAHESH PRASAD	01-11-81
648.	6869124M	HAV	MARUTI MANE	01-01-82
649.	6868916A	HAV	MATHIAS	01-10-81
650.	6868912K	HAV	MATHU RAM	01-10-81
651.	6349690H	HAV	MOTILAL SINGH	01-10-81
652.	6870331L	HAV	MOHAN SINGH	01-01-82
653.	6869497A	HAV	NANAK CHAND	01-01-82
654.	6870107Y	HAV	OM PRAKSH	01-12-81
655.	6349835H	HAV	PARBHATI LAL	01-11-81
656.	6872241H	HAV	PRAHLAD PATIL	01-01-82
657.	6869980K	HAV	RAM CHANDRA	01-09-81
658.	6868958M	HAV	RAM CHHABILA SINGH	01-11-81
659.	6871631N	HAV	RAM JATAN VERMA	01-10-81
660.	6871759K	HAV	RAM KRISHNA	01-11-81
661.	6868521Y	HAV	RAM SHANKAR SHUKLA	01-06-81
662.	6869951P	HAV	SADASHIV MANE	01-09-81
663.	6868827P	HAV	TIRJUGI NARAYAN TIRPATHI	01-10-81

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

664.	7037378L	HAV	ABDUL QADEER	01-01-82
665.	7036072W	HAV	ABDULLA BELGAMI	01-10-81
666.	7036268K	HAV	AMBROSE NONGKYNRH	01-11-81
667.	7035156X	HAV	ARUMUGAM	01-12-81
668.	7034560A	HAV	ASHOK KUMAR	01-09-81
669.	7043091K	HAV	ATTASSERI KALAM RAMAN KUTTY	01-11-81
670.	7035868A	HAV	BAJI RAO CHORGE	01-10-81
671.	7036209X	HAV	BAKHSHI RAM	01-11-81

672.	7040957H	HAV	BAKHSI RAM	01-01-82
673.	7040656Y	HAV	BALA PRASHAD DOBSAN	01-10-81
674.	7036671W	HAV	BALAN NAMBIAR P	01-12-81
675.	7030915H	HAV	BALESHWAR SINGH	01-01-82
676.	7036001P	HAV	BALI RAM MISHRA	01-10-81
677.	7038244Y	HAV	BALLI RAM AHIRWAR	01-09-81
678.	7036610Y	HAV	BALWANT SINGH	01-12-81
679.	7036260X	HAV	BANARAS SINGH	01-11-81
680.	6788678L	HAV	BARENDRA KUMAR SENGUPTA	01-11-81
681.	7036352K	HAV	BHAGAT SINGH	01-11-81
682.	7037490X	HAV	BHAGI RAM	01-01-82
683.	7037272Y	HAV	BHAGWAN KISHORE SHUKLA	01-12-81
684.	7035692A	HAV	BHAGWATI LAL	01-09-81
685.	7039740M	HAV	BHAGWATI PRASAD	01-10-81
686.	7036574Y	HAV	BHAUSAHEB GHOLAP	01-12-81
687.	7037521M	HAV	BHIKARI MAL	01-01-82
688.	7038599K	HAV	BIDYA NAND SHARMA	01-10-81
689.	7037412A	HAV	BISHNA	01-01-82
690.	7036504A	HAV	BISHWA MITTER	01-12-81
691.	7042608X	HAV	BISWANATH CHAKRAVORTY	01-10-81
692.	7037317N	HAV	CHHOTY LAL	01-01-82
693.	7036689M	HAV	CHINTA MANI	01-12-81
694.	7042917A	HAV	CHUNDRI PRAHLAD	01-10-81
695.	7036142K	HAV	DARWAN SINGH	01-10-81
696.	7040612F	HAV	DATA RAM	01-09-81
697.	7036630M	HAV	DAVA MANI G	01-12-81
698.	7040688F	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-10-81
699.	7035959P	HAV	DINESH CHANDRA CHAKRABORTY	01-10-81
700.	7035913F	HAV	DIWAN SINGH	01-10-81
701.	7040607W	HAV	DWARKA PRASAD	01-09-81
702.	7036277L	HAV	G RAMASWAMI	01-11-81
703.	7036180A	HAV	GAJANAN MAHADEO NAIK	01-10-81
704.	7035988Y	HAV	GIAN SINGH	01-10-81
705.	7030735A	HAV	GIAN SINGH	01-01-82
706.	7036662P	HAV	GIRJA PRASAD	01-12-81
707.	7037484K	HAV	GOVIND RAM	01-01-82
708.	7035579L	HAV	GURMEL SINGH	01-09-81
709.	1152402X	HAV	HARI BUX SINGH	01-01-82
710.	7035740P	HAV	HARI CHAND YADAV	01-09-81
711.	7043109P	HAV	HARI HAR SINGH	01-11-81
712.	7036270F	HAV	HERMINDER SINGH	01-11-81
713.	7036660K	HAV	JAGDISH CHANDRA SARKAR	01-12-81
714.	7040572L	HAV	JAGDISH PRASAD DONDIYAL	01-09-81
715.	7040877L	HAV	JAGDISH PRASHAD KADYAN	01-12-81
716.	7035847K	HAV	JABA SAMUEL	01-09-81
717.	7036651H	HAV	JIB KANT JHA	01-12-81
718.	7035853X	HAV	K. SUBBAYAN	01-09-81
719.	7030390K	HAV	K VIKRAMAN NAIR	01-10-81
720.	7035854A	HAV	KG PARAMESHWARA KURUP	01-09-81
721.	7040792P	HAV	KN PRABHAKARAN	01-11-81
722.	7037301H	HAV	KV JOHN	01-01-82
723.	7037632K	HAV	KAMESHWAR SINGH	01-01-82
724.	7037316L	HAV	KRISHAN BALDEV	01-01-82
725.	7037347L	HAV	KRISHNA CHAVAN	01-01-82
726.	7040908A	HAV	KRISHAN LAL	01-12-81
727.	7037342M	HAV	KRUPASINDHU PATNAYAK	01-01-82
728.	7043951M	HAV	KUTTYAL YOHANAN OOMMEN	01-01-82
729.	7036252Y	HAV	LACHUMAN RUNDA	01-11-81
730.	7037869F	HAV	LAL MAN	01-01-82
731.	7040729A	HAV	LOK NATH	01-11-81
732.	7037461H	HAV	M RADHAKRISHNAN	01-01-82
733.	7031276Y	HAV	MADAN SINGH	01-12-81
734.	7036303F	HAV	MAHADEO DAJI SHETE	01-11-81

735.	7040735N	HAV	MANI MOHAN SINGHA	01-11-81
736.	7036503X	HAV	MEHAR SINGH	01-12-81
737.	7043917M	HAV	MOHANAN NAIR VN	01-01-82
738.	7036324X	HAV	N RAMA SWAMY	01-11-81
739.	7036572N	HAV	NARAYAN RAO DESHMUKH	01-12-81
740.	7031278K	HAV	NIDHU MOHAN NATH	01-09-81
741.	7036111K	HAV	P NAGASAMY	01-10-81
742.	7035994M	HAV	P KRISHNA KUTTY NAIR	01-10-81
743.	7035888N	HAV	PN KUTTAN	01-10-81
744.	7035973W	HAV	PACHU SREEDHARAN PILLAI	01-10-81
745.	7040938X	HAV	PALLITHODI CHANDRA SEKCHARAN UNNI	01-01-82
746.	7037465Y	HAV	PARMA NANDA DAS	01-01-82
747.	7036206K	HAV	PHANINDRALAL CHAKRAVORTY	01-11-81
748.	8360222P	HAV	PRABHU DAYAL	01-11-81
749.	7037471M	HAV	PREM	01-01-82
750.	7043179N	HAV	RAM ASRA	01-11-81
751.	7036596X	HAV	RAMCHANDRA CHAVAN	01-12-81
752.	7040580K	HAV	RAMCHANDRA KAMBLE	01-09-81
753.	7043667N	HAV	RAMCHANDRA PATIL	01-12-81
754.	7035784M	HAV	RAM DAS	01-09-81
755.	70374761	HAV	RAM KALAP	01-01-82
756.	7035799P	HAV	RAM KISHAN	01-09-81
757.	7037495W	HAV	RAM SINGH GOSAIN	01-01-82
758.	7036653N	HAV	RAMANUJ SINGH	01-12-81
759.	7036086W	HAV	RAMA PRASAD	01-10-81
760.	7036043F	HAV	RAMENDRA NATH GANGULI	01-10-81
761.	7039293N	HAV	RAMESH CHANDRA DATTA	01-11-81
762.	7035633M	HAV	RATI KANTA PANI	01-09-81
763.	7036112M	HAV	S SUBBU RAJAN	01-10-81
764.	7036314N	HAV	SAHDEV	01-11-81
765.	7037390M	HAV	SALIG RAM	01-01-82
766.	7036025Y	HAV	SAMPANGI	01-10-81
767.	7035855H	HAV	SAT PAL	01-09-81
768.	7036242P	HAV	SATYA NARAYANA BALLANI	01-11-81
769.	7035965X	HAV	SATYENDRA CHANDRA DEB	01-10-81
770.	7035920X	HAV	SHANKAR DHAMAL	01-10-81
771.	1215775Y	HAV	SHANTARAM LOHAR	01-12-81
772.	7037439X	HAV	SHIV SINGH	01-01-82
773.	7036233N	HAV	SHIWA NATH PANDEY	01-11-81
774.	7035996X	HAV	SIBSADHAN BHATTACHARJEE	01-10-81
775.	7037475H	HAV	SWARAN	01-01-82
776.	7037395X	HAV	SUBODH CHANDRA BHADRA	01-01-82
777.	7035589P	HAV	SUKHDEV SINGH MANN	01-09-81
778.	7036076M	HAV	SURDENDRO SAHU	01-10-81
779.	7036012F	HAV	SURINDAR SINGH	01-10-81
780.	7035917X	HAV	TK ASHOKAN	01-10-81
781.	7036199X	HAV	THANKAPPAN P	01-11-81
782.	7030373K	HAV	UDAI SINGH KORAH	01-12-81
783.	7040732A	HAV	VJAYAN NP	01-11-81
784.	70363131	HAV	VINCENT FORESTER	01-11-81
785.	7036069W	HAV	VITHAL PHUL MALI	01-10-81
786.	7040977W	HAV	WOLUWARANA CHANGAPPA NANAI AH	01-01-82
ARMY EDUCATION CORPS				
787.	3949917A	HAV	MALKIAT SINGH	01-10-81
788.	6599498Y	HAF	PRALHAD MATKAR	01-11-81
789.	2948183F	HAV	RANBIR SINGH PUNDIR	01-12-81
REMOUNT VETERINARY CORPS				
790.	7230593X	DFR	ANUP SINGH	01-11-81
791.	7230598W	DFR	BALWANT SINGH	01-11-81
792.	7230614A	DFR	GOKAL SINGH	01-12-81
* 793.	7230611P	DFR	ISLAM KHAN	01-12-81
794.	7231044K	DFR	KANAYA LAL	01-01-82

795.	7230587K	DFR	OM PRAKASH	01-11-81
796.	7230585Y	DFR	RAGHAV PRASAD KOER	01-11-81
797.	7230621Y	DFR	SHIV RAM	01-12-81
798.	7230588M	DFR	SHRI NARAIN	01-11-81
799.	1028476Y	DFR	SRI RAM SINGH	01-11-81
800.	7230592P	DFR	ZILE SINGH	01-11-81

THE INTELLIGENCE CORPS

801.	1028078X	HAV	DHARAM SINGH VERMA	01-09-81
802.	6796787M	HAV	GAURI SHANKAR AMBASTHA	01-11-81
803.	1152797K	HAV	MOHINDER SINGH	01-01-82
804.	2641969M	HAV	NAFE SINGH	01-09-81
805.	1027999L	HAV	PIARA LAL BHANWALA	01-09-81
806.	1028063P	HAV	RAM NARESH SINGH	01-09-81
807.	1152232Y	HAV	RAM PARSHAD	01-12-81
808.	1027971L	HAV	RASH BIHARI SINGH	01-09-81
809.	1028416K	HAV	SHANKAR SINGH	01-10-81
810.	1028242P	HAV	SHYAM DEV SINGH	01-10-81

CORPS OF MILITARY POLICE

811.	6596940N	HAV	AIDAL SINGH	01-11-81
812.	1155895P	HAV	AMAR SINGH	01-01-82
813.	6596549W	HAV	BHASKAR KULKARNI	01-05-81
814.	1028558F	HAV	CHARAN SINGH	01-11-81
815.	2641420Y	HAV	CHATTAR SINGH	01-05-81
816.	7762574H	HAV	HASHMAT ULLAH	01-09-81
817.	1149377Y	HAV	KANWAR SINGH	01-07-81
818.	6349907F	HAV	KASHMIR SINGH	01-12-81
819.	4144247P	HAV	KHIM SINGH ADHIKARI	01-12-81
820.	4143608W	HAV	MAHENDAR SINGH	01-04-81
821.	1147959A	HAV	NANNU SINGH	01-05-81
822.	2642300M	HAV	PHOOL CHAND	01-12-81
823.	13651335X	HAV	RAMCHANDER SINGH	01-03-81
824.	1028004H	HAV	RAN SINGH	01-09-81
825.	2642299H	HAV	SANTOO LAL	01-12-81
826.	4144199A	HAV	SHER SINGH	01-11-81
827.	4036949K	HAV	SULABH SINGH NEGI	01-04-81
828.	6598201A	HAV	SURENDRA SINGH	01-12-81
829.	3949648Y	HAV	TEJ SINGH GULERIA	01-07-81
830.	6349589H	HAV	TOTA RAM	01-09-81
831.	1157289X	HAV	UJJAGAR SINGH	01-04-81
832.	3142100K	HAV	WAZIR SINGH	01-09-81

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

833.	1152352X	HAV	ARJAN SINGH	01-01-82
834.	1409934H	HAV	AUTAR SINGH	01-11-81
835.	24411964K	HAV	BHAG SINGH	01-11-81
836.	2546561H	HAV	KR NARAYANAN	01-10-81
837.	4236746K	HAV	KRUSHNA BEHERA	01-07-81
838.	6797866N	HAV	MV BOTHAGAR	01-01-82
839.	4037856F	HAV	RAJE SINGH RAWAT	01-10-81
840.	1151383L	HAV	SANGAT SINGH	01-11-81
841.	6869033H	HAV	SHAM PATIL	01-12-81

THE PIONEER CORPS

842.	7994349L	HAV	D RAMA CHANDRAN	01-03-81
843.	7994252A	HAV	GURBAX SINGH	01-03-81

DEFENCE SECURITY CORPS

844.	8804844	HAV	BISHAN BAHADUR	01-12-81
845.	8809337	HAV	CHAGAN DARUNKAR	01-10-81
846.	5231863	HAV	DAL BAHADUR KANWAR	01-12-81
847.	3830060	HAV	PURAN SINGH	01-09-81
848.	8814260	HAV	SHANKAR	01-09-81
849.	8814390	HAV	SHRI RAM SINGH	01-09-81

850.	8796348	HAV	SURJA RAM	01-12-81
851.	8805816	HAV	TK GOPALAN NAIR	01-01-82
852.	8818372	HAV	VIDYA RAM	01-07-81
853.	8795971	HAV	VISHWANATH BANDAL	01-12-81
854.	4034328	HAV	YASHWANT SINGH RANA	01-10-81

THE TERRITORIAL ARMY

855.	10312779	CHM	JAIPAL SINGH	01-09-81
856.	10272667	HAV	CHANDRA MAHALI	01-12-81

BHASKAR GHOSE, Jt. Secy. (P & W)

सं० 4-ई० तारीख 19 जनवरी, 1982 राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं:—

भारतीय नौसेना

स्थायी काब्र

स्पेशल ड्यूटी लिस्ट

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को 26 जनवरी 1982 में भारतीय नौसेना की सक्रिय सूची पर अवतानक कमोशन प्रदान किया जाता है:—

प्रवैतनिक सब, लेफ्टिनेंट (स्पेशल ड्यूटी) के पद पर

क्रम	नाम	रैंक	नम्बर
1.	एस के विश्वास	एम सी पी ओ I	024213 एफ
2.	मोहन सिंह	एम सी पी ओ I	036248 एच
3.	जसवंत सिंह	एम सी पी ओ I (क्यू ए आई)	036446 एच
4.	शंकर सिंह	एम सी पी ओ I	043039 टी
5.	एस एन रघूरी	एम सी पी ओ I	043500 प्रार
6.	एस एल बहल	एम सी पी ओ I	043565 एन
7.	जसवंत सिंह	एम सी पी ओ I	043665 प्रार
8.	भाग सिंह	एम सी पी ओ I	043880 बी
9.	बेद प्रकाश	एम सी पी ओ I	043938 के
10.	मंगल सिंह	एम सी पी ओ I	044058 एच
11.	एम बशीर	एम सी पी ओ I	044353 बी
12.	सी के तिवारी	एम सी पी ओ I (बी आई)	044510 के
13.	हर भूजन सिंह	एम सी पी ओ I	061146 डब्ल्यू
14.	एम एस चाको	एम सी पी ओ I	064554 प्रार
15.	एम जी स्वामी	एम सी पी ओ I प्रार (टीक)	036352 एन
16.	सी रामन	एम सी पी ओ I प्रार (टेल)	044119 आई
17.	अमीन बन्स	एम सी पी ओ राइटर I	060977 के
18.	पी एस जोसेफ	एम सी पी ओ कुक (एस) I	061608 डब्ल्यू
19.	वी एस के नायर	एम सी पी ओ स्टीवर्ड I	062039 जेड
20.	जे एम मिश्र	एम एस सी पी ओ I	062252 एच
21.	बी सी राजपूत	एम सी ई ए प्रार I	050511 जेड
22.	मोहिन्दर सिंह	एम सी ए (एस ई) I	064259 डब्ल्यू
23.	धरम चंद	एम सी पी ओ ए एफ I	045243 ए
24.	जी जेचरिया	एम सी पी ओ एम ए I	061329 के
25.	बलराज	एम सी एट आर्मस I	036159 एफ
26.	के के गुप्त	एम सी एट आर्मस I	043822 आई
27.	एम बी थापा	एम सी पी ओ I (म्यूजि०)	042672 एच
28.	पी डी खरे	एम सी डब्ल्यू एम I	045192 के
29.	प्रार डी मिश्र	एम सी डब्ल्यू एम I	046793 जेड
30.	बी एल कुलकर्णी	एम सी मेक I	036364 आई
31.	बी मोहन	एम सी मेक I	045354 बी
32.	के के सहस्रपाल	एम सी मेक I	045658 डब्ल्यू
33.	जे सिंह	एम सी एम ई I	045798 एम

अवसर्गक लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

क्रम सं	नाम	रैंक	नम्बर
1.	आई रोषा	एम एस सी पी ओ I (अवसर्गक सब लेफ्टिनेंट)	038846 एन
2.	के पोन्नू	एम सी पी ओ I	060418 आर
3.	घनशम सिंह	एम सी मेक I	060493 के
4.	एन डी शमी	एम सी पी ओ I	060797 ए
5.	तेजा सिंह	एम सी पी ओ राईटर I	060934 एन
6.	पी सी कोशी	एम सी पी ओ आर (टॉक) I	060948 डब्ल्यू
7.	राम सिंह	एम सी पी ओ स्टीवर्ड I	060986 एफ
8.	डी लोमानाथन	एम सी पी ओ कुक (ओ) I	061065 के
9.	पी पर्वजन	एम सी एट-आर्म्स I	061220 एन
10.	टी वी आर नाम्बियार	एम पी ओ (ए एच) I	061284 एच
11.	पी के के पिल्लै	एम सी पी ओ आर (टेल) I	061414 बी
12.	के के के नायर	एम सी एम ई I	061472 के
13.	एच डी रवानी	एम सी पी ओ एम ए I	063214 डब्ल्यू

[फाइल एच ए/2504/89]

कौशल कुमार माथुर, संयुक्त सचिव

No 4-E. dated 19th January, 1982. The President is pleased to make the following appointments:—

**INDIAN NAVY
PERMANENT CADRE
SPECIAL DUTIES LIST**

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Active List in the Indian Navy with effect from 26th Jan. 1982 :—

TO BE HONORARY SUB-LIEUTENANTS (SPECIAL DUTIES)

Sl. No.	Name	Rank	Number
1.	SK Biswas	MCPOI	024213 F
	Mohan Singh	MCPOI	036248 H
3.	Jaswant Singh	MCPOI (QA1)	036446 H
4.	Shankar Singh	MCPO I	043039 T
5.	SN Raturi	MCPOI	043500 R
6.	SL Bahl	MCPOI	043565 N
7.	Jaswant Singh	MCPOI	043665 R
8.	Bhag Singh	MCPOI	043880 B
9.	Ved Prakash	MCPOI	043938 K
10.	Mangal Singh	MCPOI	044058 H
11.	M Bashir	MCPOI	044353 B
12.	CK Tiwari	MCPOI (GI)	044510 K
13.	Harbhajan Singh	MCPOI	061146 W
14.	MS Chacko	MCPOI	064554 R
15.	MG Swamy	MCPOR (TAC)I	036352 N
16.	C Raman	MCPOR (TEL)I	044119 Y
17.	Amin Chand	MCPOWTR I	060977 K
18.	PS Joseph	MCPOCK (S) I	061608 W
19.	VSK Nair	MCPO STD I	062039 Z
20.	JN Mishra	MSCPOI	062252 H
21.	BC Rajput	MCEAAR I	050511 Z
22.	Mohinder Singh	MCA(SE) I	064259 W
23.	Amur Chand	MCPOAF I	045243 A
24.	G Zachariah	MCPOMA I	061329 K
25.	Bal Raj	MC-AT-ARMS I	036159 F
26.	KK Gupta	MC-AT-ARMS I	043822 Y
27.	SB Thapa	MCPO I (MUS)	042672 H

1251 GI/81—13

Sl. No.	Name	Rank	Number
28.	PD Khare	MCWM I	045192 K
29.	RD Mishra	MCWM I	046793 Z
30.	VL Kulkarni	MCMECH I	036364 Y
31.	B Mohan	MCMECH I	045354 B
32.	KK Satripall	MCMECH I	045658 W
33.	J Singh	MCME	045798 N

TO BE HONORARY LIEUTENANTS (SPECIAL DUTIES)

1.	I Rocha	MSCPOI(Hon SLT)	038846 N
2.	K Ponnu	MCPOI (Hon SLT)	060418 R
3.	Ghansham Singh	MCMECH I(Hon SLT)	060493 K
4.	ND Shami	MCPOI (Hon SLT)	060797 A
5.	Teja Singh	MCPO WTR I(Hon SLT)	060934 N
6.	PC Koshy	MCPOR (TAC) I (Hon SLT)	060948 W
7.	Ram Singh	MCPOSTD I (Hon SLT)	060986 F
8.	D Loganathan	MCPOCK(O) I (Hon SLT)	061065 K
9.	P Pavithran	MC-AT-ARMS I(Hon SLT)	061220 N
10.	TVR Nambiar	MCPO I(AH)(Hon SLT)	061284 H
11.	PKK Pillai	MCPOR(TEL)I (Hon SLT)	061414 B
12.	KKK Nair	MCME I (Hon SLT)	061472 K
13.	HD Giani	MCPO MA I (Hon SLT)	063214 W

K.K. MATHUR, Joint Secy.

(बायु शाखा)

सं. 5-ई, दिनांक 5 जनवरी, 1982 :- बायुसेना विनियमानुसार के पैरा 344 के अन्तर्गत नियमितकृत आनरेरी प्लाईंग अफसरों को 26 जनवरी, 1982 के आनरेरी प्लाईंग सेलिमेंट के रूप में पदोन्नत किया जाता है :-

1.	40838 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	श्रीरामचन्द्र बसिष्ठन मेसेन्जीयर	मेड असिस्ट
2.	42943 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	उदय राज उपाध्याय	एम टी डी
3.	40407 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	कृष्ण लाल महुना	इंस्ट्रू फिट
4.	41185 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	सज्जन सिंह भण्डाराल	इन्फ्यू असिस्ट
5.	42291 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	सहमान दास बाली	इंज फिट
6.	203635 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	होमियार सिंह राना	क्लर्क अकाउन्ट
7.	200724 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	मनियमकड बेला बेलायुधन चन्द्रन	क्लर्क जी डी
8.	49750 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	पुत्थेनवीटिल नरायनन कुट्टी	इंज फिट
9.	34244 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	हरबन्स सिंह चड्ढा	क्लर्क जी डी
10.	201277 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	बेव प्रकाश मल्होत्रा	रेडियो फिट
11.	204897 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	पनिष्वालिल कुंजन गोपालन नायर	ए एक फिट
12.	40261 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	गुरुबचन सिंह	जी टी आई/पी जे आई
13.	40389 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	पीटर फ्रांसिस	वेपन फिट
14.	101871 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	दिनकर वामन किलेदार	मेड असिस्ट
15.	206178 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	नरायण दत्त चन्दन	इन्फ्यू असिस्ट
16.	41143 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	जरनैल सिंह	एम टी डी
17.	49506 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	बैंगलौर बिकम्मा नरायना स्वामी	रेडियो फिट
18.	100729 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	नलप्पा रामास्वामी	ए सी एच जी डी
19.	41415 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	अमरिक लाल सदाना क्लर्क	क्लर्क अकाउन्ट
20.	203957 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	अमर कृष्णा चौधरी	जी टी आई
21.	42987 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	जगदीश चन्द्र चौधरी	इंस्ट्रू फिट
22.	202231 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	सबन मोहन गांधी	प्लाइट इन्ज
23.	203706 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	सुधांशु सेखर राय	फिटो
24.	202080 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	प्रेम नाथ शर्मा	आई ए एक (पी)
25.	101620 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	प्रवनाचलम सुन्दर मुर्षी	जी टी आई
26.	42976 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	बुध सिंह	केट असिस्ट
27.	42883 मा बा अ (आनरेरी प्लाईंग अफसर)	हरबन्स सिंह	एम टी फिट

28. 201717 मा बा घ (मानरेरी फ्लाईंग अफसर)	किशिनचन्द हेमराजनी	क्रिटो
29. 100388 मा बा घ (मानरेरी फ्लाईंग अफसर)	विनायगामुन्दरम मुत्तमा	रकार फिट
30. 201922 मा बा घ (मानरेरी फ्लाईंग अफसर)	मूर बीर सिंह	इलेक्ट फिट
31. 204436 मा बा घ (मानरेरी फ्लाईंग अफसर)	सुरजीत सिंह बीमा	टेली ग्राफ़ी प्रोप
32. 4568 मा बा घ (मानरेरी फ्लाईंग अफसर)	विलियम जौन	अब्ज्यू एस फिट (बी)

AIR BRANCH

No. 5-E dated 5th January, 1982. —The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenant with effect from 26 January, 1982 under para 344 of Regulations for the Air Force.

1. 40838	MWO (Hony Fg Offr)	Chowrippan Bastian Melchior	Mod Asst
2. 42943	MWO (Hony Fg Offr)	Udaya Raj Upadhyay	M T D
3. 40407	MWO (Hony Fg Offr)	Krishan Lal Mahna	Inst Fit
4. 41185	MWO (Hony Fg Offr)	Sajjan Singh Bhandral	Eq Asst
5. 40291	MWO (Hony Fg Offr)	Lachhman Dass Bali	Eng Fit
6. 203635	MWO (Hony Fg Offr)	Hoshlar Singh Rana	Clk Accts
7. 200724	MWO (Hony Fg Offr)	Maniyamkad Velayudhan Chandran	Clk GD
8. 49750	MWO (Hony Fg Offr)	Puthenveetil Narayanan Kutty	Eng Fit
9. 34244	MWO (Hony Fg Offr)	Harbans Singh Chadha	Clk GD
10. 201277	MWO (Hony Fg Offr)	Ved Prakash Malhotra	Rdo Fit
11. 204897	MWO (Hony Fg Offr)	Pannippallil Kunjan Gopalan Nair	Af Fit
12. 40261	MWO (Hony Fg Offr)	Gurbachan Singh	GTI/PJI
13. 40389	MWO (Hony Fg Offr)	Peter Francis	Wpn Fit
14. 101871	MWO (Hony Fg Offr)	Dinker Waman Killedar	Med Asst
15. 206178	MWO (Hony Fg Offr)	Narayan Dutt Chandan	Eq Asst
16. 41143	MWO (Hony Fg Offr)	Jarrail Singh	M T D
17. 49506	MWO (Hony Fg Offr)	Bangalore Chickanra Narayana Swamy	Rdo Fit
18. 100729	MWO (Hony Fg Offr)	Nallappa Ramaswamy	Ach GD
19. 41415	MWO (Hony Fg Offr)	Amrik Lal Sadana	Clk Accts
20. 203957	MWO (Hony Fg Offr)	Amar Krishna Choudhry	G T I
21. 42987	MWO (Hony Fg Offr)	Jagdish Chandra Chaudhry	Inst Fit
22. 202231	MWO (Hony Fg Offr)	Madan Mohan Gandhi	Fit Eng
23. 203706	MWO (Hony Fg Offr)	Sudhansukhar Roy	Crypto
24. 202080	MWO (Hony Fg Offr)	Prem Nath Sharma	IAF (P)
25. 101620	MWO (Hony Fg Offr)	Arunachalam Sunder Murthy	G T I
26. 42976	MWO (Hony Fg Offr)	Budha Singh	Cat Asst
27. 42883	MWO (Hony Fg Offr)	Harbans Singh	M T Fit
28. 201717	MWO (Hony Fg Offr)	Kishinchand Hemrajani	Crypto
29. 100388	MWO (Hony Fg Offr)	Vinayagasundaram Muthiah	Rad Fit
30. 201922	MWO (Hony Fg Offr)	Shur Bir Singh	Elect Fit
31. 204436	MWO (Hony Fg Offr)	Surjit Singh Cheema	Telst RT Opr
32. 4568	MWO (Hony Fg Offr)	William John	W/S Fit (B)

सं० 6-ई, विभाग, 5 जनवरी, 1982:—वायुसेना विनियमावली के पैरा 314 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर बारक अफसरों/वारक अफसरों को 26 जनवरी, 1982 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में मानरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

1. 45002 मा बा घ	जनाईत सिंह	ए सी एच जी डी
2. 42118 मा बा घ	इसाक सिंह	ए सी एच जी डी
3. 39692 मा बा घ	जगदीश सिंह जसवाल	ए सी एच जी डी
4. 41341 मा बा घ	हरी सिंह साहनी	ए सी एच जी डी
5. 42480 मा बा घ	सुबोध कुमार घोष	ए सी एच जी डी
6. 101486 मा बा घ	निलिम्कुसयु पोन्न जोन	ए सी एच जी डी
7. 101004 मा बा घ	नागबूषण राव विस्माली	ए सी एच जी डी
8. 42739 मा बा घ	बसन्त होरासाल बोर्डे	ए सी एच जी डी
9. 100526 मा घ	छमन्ध देव सिंह	ए सी एच जी डी
10. 202655 मा घ	नरायण सिंह	ए सी एच जी डी
11. 203575 मा बा घ	पुल्लेन पुराकल डेनियल जोसफ	ए एक फिट
12. 200992 मा बा घ	श्रीम प्रकाश शर्मा	ए एक फिट
13. 200451 मा बा घ	एन्टोनी डी क्रूज	ए एक फिट

14. 202817 मा वा अ	स्वरन सिंह बिर्क	ए एफ फिट
15. 201422 मा वा अ	बडीशाप्पन्नी नारायण राव	ए एफ फिट
16. 200573 मा वा अ	प्रीतमसिंह धिर्दी	ए एफ फिट
17. 202109 मा वा अ	कूज लेजा डोम	ए एफ फिट
18. 200872 मा वा अ	मुन्वर लाल शर्मा	ए एफ फिट
19. 42998 मा वा अ	किशोरी लाल बहुल	ए एफ फिट
20. 205699 मा वा अ	मदन मोहन मिश्रा	ए एफ एस ओ
21. 203814 मा वा अ	अमृत्यु चन्द पाण	फैट असिस्ट
22. 202787 मा वा अ	ठाकुर बाम चावला	क्लर्क अकाउन्ट
23. 202283 मा वा अ	नरेश नाथ रौय	क्लर्क अकाउन्ट
24. 203714 मा वा अ	अरजुन देव सुभरवाल	क्लर्क अकाउन्ट
25. 203137 मा वा अ	वसन्त गणेश अभयकर	क्लर्क अकाउन्ट
26. 100438 मा वा अ	विश्वनाथ अहिर रामचन्द्रन	क्लर्क अकाउन्ट
27. 203533 मा वा अ	श्री राम जैमवार	क्लर्क अकाउन्ट
28. 201941 मा वा अ	परम राम शिर्षि	क्लर्क अकाउन्ट
29. 40267 मा वा अ	नानक सिंह	क्लर्क अकाउन्ट
30. 204081 मा अ	कैलाश नाथ खुल्लर	क्लर्क अकाउन्ट
31. 105056 मा अ	रमानी मोहन देव	क्लर्क अकाउन्ट
32. 200417 मा वा अ	बेलू नारायण	क्लर्क जी डी
33. 201813 मा वा अ	कराहल अछूत न नायर	क्लर्क जी डी
34. 204891 मा वा अ	छिन्मिना गोपाल रतन नायडू	क्लर्क जी डी
35. 200479 मा वा अ	जगन राम जोशी	क्लर्क जी डी
36. 204108 मा वा अ	कन्हूबर हयपन कोठीपना	क्लर्क जी डी
37. 38781 मा वा अ	कृष्णाजी गोविन्द कुलकर्णी	क्लर्क जी डी
38. 100907 मा वा अ	पीयूष कान्ति मजूमदार	क्लर्क जी डी
39. 206083 मा वा अ	दिबो बर्ता गंगुली	क्लर्क जी डी
40. 201346 मा वा अ	कृष्णा लाल छिम्बर	क्लर्क जी डी
41. 202234 मा वा अ	मोनिन्द्रा चन्द्र चौधरी	क्लर्क जी डी
42. 42503 मा वा अ	जीवन कृष्ण डे	क्लर्क जी डी
43. 200986 मा वा अ	हरदित सिंह	क्लर्क जी डी
44. 201901 मा वा अ	मारिया अस्तोनी मुथू	क्लर्क जी डी
45. 203757 मा वा अ	दर्शन सिंह हुन्डल	क्रिप्टो
46. 101314 मा वा अ	मेहर सिंह	इलेक्ट्रिक फिट
47. 200245 मा वा अ	पुलदयार देवर सिबा मुन्नामेनियाम	इलेक्ट्रिक फिट
48. 100756 मा वा अ	नरेश चन्द्र दाम	इलेक्ट्रिक फिट
49. 200801 मा वा अ	देवेन्द्र कुमार बायनेय	इलेक्ट्रिक फिट
50. 200486 मा अ	बाल मुकुन्द लुनियल	इलेक्ट्रिक फिट
51. 39652 मा वा अ	मोहिन्दर सिंह जुलका	इन्ज फिट
52. 33139 मा वा अ	परिमल रौय (33139)	इन्ज फिट
53. 200813 मा वा अ	जगदीश चन्द्र तिवारी	इन्ज फिट
54. 42157 मा वा अ	साग सिंह	इन्ज फिट
55. 200756 मा वा अ	भंवर सिंह शेखावत	इन्ज फिट
56. 300386 मा वा अ	अमरीक सिंह	इन्ज फिट
57. 200956 मा वा अ	बर्दी नाथ वैद	इन्ज फिट
58. 201638 मा वा अ	बीलम राय चड्ढा	इन्ज फिट
59. 200999 मा वा अ	जयराम बिलामनी कुमारस्वामी	इन्ज फिट
60. 300278 मा वा अ	जगन बन्धु बनेर्जी	इन्ज फिट
61. 204031 मा वा अ	जोगेन्द्र सिंह	इन्ज फिट
62. 200522 मा वा अ	मदन गोपाल सिन्हा	इन्ज फिट
63. 204043 मा अ	सोम दत्त धरवा	इन्ज फिट
64. 201362 मा अ	जीथ राम धु आ	इन्ज फिट

65. 42439 मा बा अ	मनोहर लाल	इक्यु असिस्ट
66. 49899 मा बा अ	बेल्लुधुधन पिस्ले	इक्यु अई सिस्ट
67. 42833 मा बा अ	रमाकान्त	इक्यु असिस्ट
68. 40301 मा बा अ	हरबन्त सिंह	ईएयु असिस्ट
69. 40207 मा बा अ	गुरबिधाल सिंह	इक्यु असिस्ट
70. 205185 मा बा अ	सच्चिदानन्द नैथानी	इक्यु असिस्ट
71. 100253 मा बा अ	पुष्पराम्भिल शोमन	इक्यु असिस्ट
72. 100371 मा बा अ	अमन लाल बाप्री	इक्यु असिस्ट
73. 105046 मा बा अ	शालि सल्लु कुगल	इक्यु असिस्ट
74. 41311 मा बा अ	राजिन्दर सिंह	इक्यु असिस्ट
75. 201358 मा बा अ	सूरज सिंह यादव	फ्लाइट इन्ज
76. 33113 मा बा अ	अमित कुमार दास	फ्लाइट इन्ज
77. 200072 मा बा अ	जगदीश चन्द्र मुजल	फ्लाइट सिग
78. 38661 मा बा अ	कृष्णा प्रसाद मुखर्जी	जी टी आई
79. 202169 मा बा अ	शंकरन जनाधन पानिकर	जी टी आई
80. 202311 मा बा अ	दुर्गा चान्दम लक्ष्मनबास केमीबेलु कान्नन	जी टी आई
81. 101673 मा बा अ	बुकुरिया ईश्वरी प्रसाद	जी टी आई
82. 38696 मा बा अ	दिपति कुमार घोष	आई ए एफ (पी)
83. 204526 मा बा अ	राम नन्दन सिंह	आई ए एफ (पी)
84. 49951 मा बा अ	दुराई राज नाबामनी डेविड	आई ए एफ (पी)
85. 202317 मा बा अ	श्याम सिंह रावत	आई ए एफ (पी)
86. 206035 मा बा अ	राज पाल साहनी	इन्स्ट्रु फिट
87. 202126 मा बा अ	लक्ष्मन स्वल्प सधरवाल	इन्स्ट्रु फिट
88. 39865 मा बा अ	गुरुबक्स सिंह	इन्स्ट्रु फिट
89. 102453 मा बा अ	सिंहन कृष्णन	मेड असिस्ट
90. 208003 मा बा अ	सम्पत भानुदास मोहल	मेड असिस्ट
91. 205609 मा बा अ	नग्नोक्त सिंह रेल	मेड असिस्ट
92. 200005 मा बा अ	हरनाम सिंह	मेड असिस्ट
93. 101238 मा बा अ	प्रदाला प्रसाद राजामोहन राव	मेड असिस्ट
94. 203023 मा बा अ	मथार्ई वेणुपराम्भिल कोशी	एम टी डी
95. 42137 मा बा अ	हरचरण सिंह	एम टी डी
96. 41543 मा बा अ	मदन मोहन लाल	एम टी डी
97. 48877 मा बा अ	गान्जीगुटे कृष्णास्वामी श्रीनिवासन	एम टी डी
98. 203277 मा बा अ	डेनियल जौन	एम टी डी
99. 41603 मा बा अ	अमर सिंह कहलौन	एम टी डी
100. 100842 मा बा अ	अमूल्य कुमार मिश्रा	एम टी डी
101. 41359 मा बा अ	हरबन्त सिंह	एम टी डी
102. 41983 मा बा अ	कुलवन्त सिंह	एम टी डी
103. 40634 मा बा अ	हरबस सिंह	एम टी डी
104. 105095 मा बा अ	दिपिनद्रा नाथ मुखर्जी	एम टी फिट
105. 203655 मा बा अ	छत्तर सिंह शर्मा	एम टी डी
106. 42673 मा बा अ	राम शरण चौध	एम टी डी
107. 200473 मा बा अ	बल राम बक्शी	एम टी डी
108. 101285 मा बा अ	जागीर सिंह	एम टी फिट
109. 201960 मा बा अ	छंगाप्पली मुकुमारन	एम टी फिट
110. 201984 मा बा अ	करनार सिंह सन्धू	एम टी फिट
111. 300383 मा बा अ	मुनीस्वामी नायडू अलफोन्स	म्यूजिशियन
112. 211040 मा बा अ	हजवट्टे जौनारियम डीनजारेथ	म्यूजिशियन
113. 100136 मा बा अ	सफोते विजयाराघवन राजू	राष्ट्र फिट
114. 203996 मा बा अ	अनिल कुमार मुखर्जी	राष्ट्र फिट
115. 47481 मा बा अ	दर्शन सिंह	रेडियो फिट
116. 200690 मा बा अ	अदया मूर्ती	रेडियो फिट
117. 204620 मा बा अ	जोन अगस्टाइन रिबिरिप्रो	रेडियो फिट

118. 48726 मा बा भ	इन्दर सिंह थापा	रेडियो फिट
119. 300417 मा बा भ	पराप्पुलू थंकम्मा सदासिबन पिल्ले	रेडियो फिट
120. 204643 मा बा भ	चरनजीत सिंह	टेली ग्राफटी प्रोप
121. 44792 मा बा भ	सरदार सिंह बेबी	बेपन फिट
122. 203246 मा बा भ	प्रमर सिंह	बेपन फिट
123. 42136 मा बा भ	राम प्रकाश शर्मा	बेपन फिट
124. 202015 मा बा भ	बसन्त भास्कर गुप्ता	बेपन फिट
125. 201573 मा बा भ	मानिक लाल बोस	बेपन फिट
126. 201648 मा बा भ	शाम सुन्दर डौ	बेपन फिट

No. 6—E, dated 5th January, 1982—The undermentioned MWOs/OWs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 26 January, 1982 under para 314 of Regulations for the Air Force.

1. 45002	MWO	Janardhan Singh	Ach GD
2. 42118	MWO	Issac Singh	Ach GD
3. 39692	MWO	Jagdish Singh Jaswal	Ach GD
4. 41341	MWO	Hari Singh Sawhrey	Ach GD
5. 42480	MWO	Sukherdu Kumar Ghosh	Ach GD
6. 101486	MWO	Nellikunnathu Pothan Job	Ach GD
7. 101004	MWO	Nagabhusana Rao Pingali	Ach GD
8. 42739	MWO	Basant Hiralal Bordo	Ach GD
9. 100526	WO	Dharmendra Deo Singh	Ach GD
10. 202655	WO	Narain Singh	Ach GD
11. 203575	MWO	Puithen Purakal Daniel Joseph	Af Fit
12. 200992	MWO	Om Prakash Sharma	Af Fit
13. 200451	MWO	Antony D'cruze	Af Fit
14. 202817	MWO	Swaran Singh Virk	Af Fit
15. 201422	MWO	Vaigappalli Narayan Rao	Af Fit
16. 200573	MWO	Pritam Singh Virdi	Af Fit
17. 202109	MWO	Cruze Treza Doss	Af Fit
18. 200872	MWO	Sunder Lal Sharma	Af Fit
19. 42998	MWO	Kishore Lal Behl	Af Fit
20. 205699	MWO	Madar Mohan Mishra	A F S O
21. 203814	MWO	Amulya Chandra Pal	Cat Asst
22. 202283	MWO	Thakur Das Chahwla	Clk Accts
23. 202787	MWO	Narendra Nath Roy	Clk Accts
24. 203714	MWO	Arjan Dev Sabharwal	Clk Accts
25. 203137	MWO	Vasant Ganesh Abhayankar	Clk Accts
26. 100438	MWO	Viswanath Iyer Ramachandran	Clk Accts
27. 203533	MWO	Shri Ram Jaiswar	Clk Accts
28. 201941	MWO	Parsu Ram Giri	Clk Accts
29. 40267	MWO	Nanak Singh	Clk Accts
30. 204081	WO	Kailash Nath Khullar	Clk Accts
31. 105056	WO	Ramani Mohan Deb	Clk Accts
32. 200417	MWO	Velu Narayan	Clk GD
33. 201813	MWO	Kareyil Achutan Nair	Clk GD
34. 204891	MWO	Chinikrishna Gopal Rattan Naidu	Clk GD
35. 200479	MWO	Jagat Ram Joshi	Clk GD
36. 204108	MWO	Kandoor Eapen Kocheepar	Clk GD
37. 38781	MWO	Krishnaji Govind Kulkarni	Clk GD
38. 100907	MWO	Piyush Kanti Majumdar	Clk GD
39. 206083	MWO	Debo Brata Garguly	Clk GD
40. 201346	MWO	Krishan Lal Chibber	Clk GD
41. 202234	MWO	Monindra Chandra Chowdhury	Clk GD
42. 42503	MWO	Jiban Krishna Dey	Clk GD
43. 200986	MWO	Harcit Singh	Clk GD
44. 201901	MWO	Maria Antony Muthu	Clk GD
45. 203757	MWO	Darshan Singh Hundal	Crypto
46. 101314	MWO	Mehar Singh	Elect Fit
47. 200245	MWO	Poolugayar Dever Siva Subramaniam	Elect Fit

48.	100756	MWO	Narush Chandra Dass	Elect Fit
49.	200801	MWO	Devendra Kumar Varshrey	Elect Fit
50.	200486	WO	Bal Mukund Lunial	Elect Fit
51.	39652	MWO	Mohinder Singh Julka	Eng Fit
52.	33139	MWO	Parimal Roy	Eng Fit
53.	200813	MWO	Jagdish Chandra Tewari	Eng Fit
54.	42157	MWO	Tara Singh	Eng Fit
55.	200756	MWO	Bhanwar Singh Shekha wat	Eng Fit
56.	300386	MWO	Amrik Singh	Eng Fit
57.	200956	MWO	Badri Nath Vaid	Eng Fit
58.	201638	MWO	Daulat Rai Chadha	Eng Fit
59.	200999	MWO	Jayaram Vilasani Kumaraswamy	Eng Fit
60.	300278	MWO	Jagat Bandhu Banerjee	Eng Fit
61.	204031	MWO	Joginder Singh	Eng Fit
62.	200522	MWO	Madan Gopal Sinha	Eng Fit
63.	204043	WO	Som Datt Sharda	Eng Fit
64.	201362	WO	Chauth Ram Dua	Eng Fit
65.	42439	MWO	Manohar Lal	Eq Asst
66.	49899	MWO	Veluayudhan Pillai	Eq Asst
67.	42833	MWO	Ramakant	Eq Asst
68.	40301	MWO	Harbans Singh	Eq Asst
69.	40207	MWO	Gurdial Singh	Eq Asst
70.	205185	MWO	Sachidanand Naithani	Eq Asst
71.	100253	MWO	Putheparambil Thomas	Eq Asst
72.	100371	MWO	Chaman Lal Ball	Eq Asst
73.	105046	MWO	Shanti Sarup Duggal	Eq Asst
74.	41311	MWO	Rajender Singh	Eq Asst
75.	201358	MWO	Surat Singh Yadav	Flt Eng
76.	33113	MWO	Asit Kumar Das	Flt Eng
77.	200072	MWO	Jagdish Chandra Munjal	Flt Sig
78.	38661	MWO	Krishan Prasad Mukherjee	G T I
79.	202169	MWO	Shankaran Janardhan Panickar	G T I
80.	202311	MWO	Durga Challam Laxmana Dass Kesevelu Kannan	G T I
81.	101673	MWO	Dukuria Ishwari Prasad	G T I
82.	38696	MWO	Dipty Kumar Ghosh	IAF P
83.	204526	MWO	Ram Nandan Singh	IAF P
84.	49951	MWO	Durai Raj Navamoney David	IAF P
85.	202317	MWO	Shyam Singh Rawat	IAF P
86.	206035	MWO	Raj Paul Sahni	Inst Fit
87.	202126	MWO	Lakshman Swarup Sabharwal	Inst Fit
88.	39865	MWO	Gurbax Singh	Inst Fit
89.	102453	MWO	Siddan Krishnan	Med Asst
90.	208003	MWO	Sampat Bhanudas Mohl	Med Asst
91.	205609	MWO	Tarlok Singh Rehal	Med Asst
92.	200005	MWO	Harnam Singh	Med Asst
93.	101238	MWO	Addala Prasada Rajamohar Rao	Med Asst
94.	203023	MWO	Mathai Valuparambil Koshy	M T D
95.	42137	MWO	Harcharan Singh	M T D
96.	41543	MWO	Madan Mohan Lal	M T D
97.	48877	MWO	Ganjigunte Krishnaswamy Srinivasar	M T D
98.	203277	MWO	Daniel John	M T D
99.	41603	MWO	Amr Singh Kahlon	M T D
100.	100842	MWO	Amulya Kumar Mishra	M T D
101.	41359	MWO	Harbans Singh	M T D
102.	41983	MWO	Kulwant Singh	M T D
103.	40634	MWO	Harbans Singh	M T D
104.	105095	MWO	Diptindra Nath Mukherjee	M T D
105.	203655	MWO	Chattar Singh Sharma	M T D
106.	42673	MWO	Ram Sharan Chand	M T D
107.	200473	MWO	Raj Ram Bakshi	MT Fit
108.	101285	MWO	Jagir Singh	MT Fit
109.	201960	MWO	Churgapally Sukumaran	MT Fit
110.	201984	MWO	Kartar Singh Sandhu	MT Fit

111. 300383	MWO	Muniswamy Naidu Alphones	Mush
112. 211040	WO	Edward Jaunarius D'Nezareth	Mush
113. 100136	MWO	Sakote Vijayaraghavan Rajoo	Rad Fit
114. 203996	WO	Anil Kumar Mukherjee	Rad Fit
115. 47481	MWO	Darshan Singh	Rdo Fit
116. 200690	MWO	Udaya Moorthy	Rdo Fit
117. 204620	MWO	John Augustine Reberio	Rdo Fit
118. 48726	MWO	Inder Singh Thapa	Rdo Fit
119. 300417	MWO	Parappattu Thankamma Sadasivan Pillai	Rdo Fit
120. 204643	MWO	Charanjit Singh	Telst Rt Opr
121. 44792	MWO	Sardar Singh Bedi	Wpn Fit
122. 203246	MWO	Amar Singh	Wpn Fit
123. 42136	MWO	Ram Prakash Sharma	Wpn Fit
124. 202015	MWO	Basant Bhaskar Gupta	Wpn Fit
125. 201573	MWO	Manik Lal Bose	Wpn Fit
126. 201648	MWO	Sham Sunder Daw	Wpn Fit

सं० 7-ई दिनांक 5 जनवरी, 1982 :—वायुसेना विनियमावली के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति सूची पर निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों को 26 जनवरी, 1982 से फ्लाईंग अफसर का आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है :—

1. सेवानिवृत्त मा वा अ (47879)	कासी मन्निकम	रेडियो फिट
2. सेवानिवृत्त मा वा अ (37777)	रामाचन्द्रा सुन्दरा राजन	मेड अस्सिट
3. सेवानिवृत्त मा वा अ (43002)	पुत्थन वीटिल नारायणन रवि	ए एफ एस ओ
4. सेवानिवृत्त मा वा अ (203639)	ओम प्रकाश तनेजा	आई ए एफ (पी)

पी० वी० देसाई, संयुक्त सचिव

No T-6, dated 5th January, 1982—The undermentioned retired MWOs are granted the Honorary rank of Flying Officer with effect from 26 January, 1982 on the retired list under para 345 of Regulations for the Air Force.

1. Ex-MWO (47879)	Kasi Manickam	Rdo Fit
2. Ex-MWO (37777)	Ramachandra Sundara Rajan	Med Asst
3. Ex-MWO (43002)	Puthan Vetil Narayanan Ravi	IAFSO
4. Ex-MWO (203639)	Om Prakash Taneja	IAF (P)

P.V. DESAI, Jt. Secy.